

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 23—अगस्त 29, 2014 (भाद्रपद 1, 1936)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 23—AUGUST 29, 2014 (BHADRA 1, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2014

सं. ए-12(11)/1/2013-स्था.-I—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खंड (xxi) तथा उप धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप धारा (1) और धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रधान निजी सचिव भर्ती विनियम, 2001 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में प्रधान निजी सचिव के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रधान निजी सचिव भर्ती विनियम, 2014 कहे जायेंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
4. निरर्हता—ऐसा कोई व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकते हैं।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
6. अवशिष्ट मामले : इन विनियमों के उपबंधों के अधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पदों की तदनुसूची श्रेणी पर लागू समय-समय पर यथा संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में दिए गए अन्य सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
7. व्यावृत्ति : इन विनियमों की कोई बात आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रधान निजी सचिव	18*(2014)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन।)	समूह 'क' अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	वेतन बैंड-3, 15,600-39,100/- रु. तथा ग्रेड वेतन 6,600/- रु.	चयन

सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति - सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर अल्पावधि संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

पदोन्नति :

वेतन बैंड-2 में 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 9,300-34,800/- रु. के वेतनमान में छह वर्ष की नियमित सेवा वाले निजी सचिव (इसमें वेतन बैंड-3 में 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 15,600-39,100/- रु. के वेतनमान में निजी सचिव के रूप में अप्रकार्यात्मक वेतनमान में की गई सेवा शामिल है)।

पदोन्नति, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रधान निजी सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु तैयार किए गए प्रशिक्षण को पूर्ण करने के शर्ताधीन होगी।

दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति हेतु इस प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट होगी।

बशर्त जिन व्यक्तियों ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्त के

अधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा।

टिप्पणी 1 ॥ जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते इनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी 2 ॥ पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के प्रयोजनार्थ, 01 जनवरी 2006 अथवा जिस तिथि से 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढाँचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुरूपी ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) ॥

केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त निकाय के अधीन अधिकारी :

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी, अथवा

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-2 में 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 9,300-34,800/- रु. के वेतनमान (वेतन बैंड-3 में 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 15,600-39,100/- रु. के वेतनमान में निजी सचिव के रूप में अप्रकार्यात्मक वेतनमान में की गई सेवा सहित, यदि कोई हो), या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तत्संबंधी ग्रेड में की गई छह वर्ष की सेवा तथा

(ख) आशुलिपि कार्य (अंग्रेजी/हिंदी) में 5 वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) इसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में तत्काल पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) सहित, चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, 01 जनवरी, 2006 अर्थात् जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढाँचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुरूपी ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान का समान ग्रेड वेतन/वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है तथा जहां यह लाभ केवल उस पद(ों) के लिए विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका संघटन क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल हैं : 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. बीमा आयुक्त(भर्ती), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य 3. बीमा आयुक्त(का. एवं प्रशा.), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

ए.के. अग्रवाल
महानिदेशक

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

नई दिल्ली

सं. 13-32/2013-के.हो.प./के.हो.र. भाग-I/1993/बहाल—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (पंजीकरण) विनियम 1982 के विनियम 9 जिसे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 की 59वाँ) की धारा 21 एवं 15 के साथ पढ़ा जाए, पंजिका जिसे केन्द्रीय होम्योपैथी पंजिका के नाम से जाना जाता है। (जिसे भारत के राजपत्र में 02.01.1993 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त राजपत्र से हटाये नामों को भारत के राजपत्र दिनांक 19.07.2008 में छापा गया था) के कुछ पुनः स्थापित नाम भारत के राजपत्र में, दिनांक 02.11.2013 में प्रकाशित सूची की तारतम्यता में कुछ और नाम पुनः स्थापित कर साधारण सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं।

डॉ. ललित वर्मा
रजिस्ट्रार

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता (क) निवास स्थान (ख) व्यवसाय	अर्हताएँ (क) साधारण (ख) आयुर्विज्ञान संबंधी	अर्हताएँ प्राप्त करने की तारीख	उस संस्था का नाम जहाँ से रजिस्टर किए जाने योग्य अर्हताएँ प्राप्त की गई थी	राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकृत हैं तथा राज्य रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी	राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण की तारीख	राज्य रजिस्टर में दिया गया रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	अतिरिक्त आयुर्विज्ञान अर्हताएँ तथा उन्हें प्राप्त करने की तारीख और अर्हता प्रदत्त करने वाले प्राधिकारी का नाम	यदि केन्द्रीय रजिस्टर से हटाया गया है, तो उसकी तारीख और उसका/उसके कारण	टिप्पणियाँ मूल केन्द्रीय पंजिका भाग I जो 02.01.93 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था के क्र.सं./केन्द्रीय पंजिका जो जुलाई 19, 2008 में प्रकाशित हुआ था से हटाये चिकित्सकों के नामों की क्र.सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	डॉ० दिवाकरन अजयन	दिवाकरन	श्रीविलासम कल्लिकाड, अरात्तुपूझा पो०, वाया. मुत्थुकूलम, अलेप्पेय जिला, केरल, पिन. 690565.	डीएचएमएस	1983		केरल	1.6.84	2471		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4003/3059
169	डॉ० दोभदा राजश्री हर्षवदन	राजश्री हर्षवदन	992/23, दोभदा सर्जरीकल नर्सिंग होम, भगवान महावीर पथ, अकलुज - 413101, महाराष्ट्र.	एलसीईएच	मई, 1985		महाराष्ट्र	30.4.86	14081		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4041/3085
170	डॉ० डोडे अरविन्द दामोदर		1319, प्रसाद चेम्बरर्स, ओपेरा हाउस, मुम्बई - 400004.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1964		महाराष्ट्र	16.1.65	3089		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4046/3089
171	डॉ० गुलाब सिंह डोडिया	जुझार सिंह डोडिया	खीमियाखेदिर पो०. (हतई), नगदा जक्शन, जिला. उजैन (म०प्र०)	डी.एच.बी.			महाराष्ट्र	27.5.86	9813		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4049/3091
172	डॉ० डिसिल्वा फिलोमिना	फ्रांसिस डिसिल्वा	अलुमौटिल हाउस, (करुन्या) पुलपलै पो०, वेयानद जिला, केरल	डीएचएमएस			केरल	20.3.82	2202		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4072/3109
173	डॉ० (श्रीमति) तुरेल मेहेरजिन सायरस	नोसिर	170-ए, महरूख मनशन, प्रथम तल, लैमिंगटन क्रॉस रोड, मुम्बई - 400007.	एलसीईएच	1985		महाराष्ट्र	3.3.86	13826		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4082/3116
174	डॉ० डोनगारे गणेशसिंह राजाहंससिंह	राजाहंससिंह	ऐट. खन्नाजमा नगर, पो०. हरम, तालुक. अचोकपुर, जिला. अमरावती (महाराष्ट्र)	डीएचएमएस	1976		महाराष्ट्र	4.12.78	6446		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4120/3127
175	डॉ० दुरागकर पुष्पा चक्रधारी	चक्रधारी	प्लॉट नं०. 424, न्यू सुबेदार लेआउट, कॉपरेशन कॉलोनी, नागपुर.	डी.एच.बी.	1966		महाराष्ट्र	29.10.86	3568		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4205/3215
176	डॉ० दत्ता रथिन्द्र नाथ	देवेन्द्र नाथ दत्ता	एस.-37, मैट्री विहार, पो०. एस.ई. रेलवे (पी) कॉम्पलेक्स, भुनेश्वर - 751023	बी.एच.एम.एस.			उड़ीसा	6.1.82	सी/644		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4227/3229

177	डॉ० द्विवेदी सुशील मोहन	जगदेव शर्मा	सूर्य नगर, डोला भटा, अजमेर — 305001 (राजस्थान)	डीएचएमएस	1986		राजस्थान	25.10.86	3190		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4252/3251
178	डॉ० एस. जॉन सुजाता	एपेन येनचाकलो डी	फ्लैट न० 402, मुदियील अपार्टमेंट करीक्कापुरी, कोच्ची — 682011, केरल	डी.एच.एम.	1969		केरल	1.10.69	492		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4262/3260
179	डॉ० एलअम्मा एरट्टामुंडाकल मथार्थ	मथार्थ	कारमेलीटे प्रोविनकल हाउस, नाड़ावयाल पो०, पिन. 670721, वायानड़ जिला, केरल	डीएचएमएस	1976		केरल	11.3.76	1181		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4265/3263
180	डॉ० एलिअम्मा मदाथिपरामबिल योहान्न	एम. पी. योहान्न	मदाथिल परामबी हाउस, कोकापिल्लै पो०, एर्नाकुलम.	डी.एच.एम.	1976		केरल	20.10.76	1354		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4274/3268
181	डॉ० के. एम. ऐलिअस	कुरैन मनी	करमाईल कुवापल्लील मलिकईल, करिकोड़े पो०, 686610, कोट्टायम, केरल	एल.आर.सी.एच.पी.	1962		केरल	18.11.72	711		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4275/3269
182	डॉ० फलफले गंगाधर नामदेव		ऐट.पो०. मुंगी, तहसिल. शियोगौन्दी, ए-नगर, पिन. 414503, महाराष्ट्र.	डीएचएमएस	अप्रैल, 1977		महाराष्ट्र	29.10.77	6008		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	4287/3278
183	डॉ० जी.पी. फरिंगटोन	पलानी वेलु जी.	नार्थ मेडु स्ट्रिट, तिरुपरनकुंदरम, मदुरई — 625005.	डीएचएमएस	1983		केरल	8.9.83	2357		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4291/3281
184	डॉ० फरानी जावेद अहमद एम.डी. सिद्धिकी	सिद्धिकी	गोल्डेन नगर, मालेगाँव, नासिक, पिन. 423203.	एलसीईएच	1973		महाराष्ट्र	9.1.74	5077		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4300/3288
185	डॉ० फेगडे अनंदा लक्ष्मण	लक्ष्मणराव	ऐट.पो०. सलवा, तालुक. धरनगाँव, जिला. जलगाँव, 425121 (महाराष्ट्र).	डी.एच.बी.	अप्रैल, 1966		महाराष्ट्र	17.11.67	3855		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	4314/3299
186	डॉ० मोयलन वरीद फ्रांसिस	एम.पी. वरीद	मोयलन हाउस, 'फलोवर निवास' ग्रामोधरनम रोड, ओलूर — 680306, त्रिशूर जिला, केरल.	डी.एच.एम.	1975		केरल	14.1.66	252		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4337/3317
187	डॉ० गायकवाड़ पान्दुरंग बाबुराव	बाबुराव	पार्थ हॉस्पिटल, ऐट./पो. केदगम स्टेशन, तालुक. धुन्ड, जिला. पुणे— 412203.	एलसीईएच	1985		महाराष्ट्र	1.7.86	14261		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4396/3370
188	डॉ० गायकवाड़ रामराव किशनराव	किशनराव	ब्यूटी हिल सोसायटी, प्लॉट— 6/6, एम.—सेक्टर, एन—11, हुडको, औरंगाबाद — 431003, महाराष्ट्र.	डीएचएमएस	1980		महाराष्ट्र	2.2.81	7836		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4398/3371

189	डॉ० मारारजी विजपाल	विजपाल	9—महावीर दर्शन, संधानी ईस्टेट, घाटकोपर, मुम्बई — 400086.	डी.एम.एस.	1969		महाराष्ट्र	6.10.79	6847		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4427/3396
190	डॉ० गोंधी गीताली प्रमोद	प्रमोद	8, दावीर करुपा, वरसे रोहा — रायगढ़, पिन. 402109.	एलसीईएच	जून, 1981		महाराष्ट्र	21.1.83	9739		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4462/3423
191	डॉ० गोंधी हशु अतुलकुमार	अतुलकुमार	गोकुल विहार, 1 को.—ऑप. हाउसिंग सोसायटी, फ्लैट नं० जी-602, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कान्डीवली (पूर्व), मुम्बई — 400101.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1964		महाराष्ट्र	2.2.65	3120		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4465/3425
192	डॉ० गोंधी राजश्री रविन्द्र	रविन्द्र	रविराज हॉस्पिटल, शाहपुर (थाने) — 421601, महाराष्ट्र.	एलसीईएच	1984		महाराष्ट्र	10.3.87	15009		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4485/3439
193	डॉ० गोंधी विजय अमृतलाल	अमृतलाल	303.304, रोहिणी, कोरस नक्षत्र कॉम्प्लेक्स, वर्तक नगर, थाने — 400606.	एलसीईएच	मई, 1986		महाराष्ट्र	10.6.87	15244		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4497/3449
194	डॉ० मैरी थोमस	जार्ज के. एस.	जे.वी.एस. विल्ला, किझाकेकारा, थेवलकारा, कोल्लम, केरल, पिन. 690524.	डीएचएमएस	1975		केरल	7.11.75	1105		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4538/3482
195	डॉ० गरसिया प्रविनसिंह फुलाभाई	गरसिया फुलाभाई	ऐट./पो०. रुदेल, तालुक. बोरसद, जिला. आनंद, पिन. 388140, गुजरात.	डीएचएमएस			गुजरात	29.9.86	जी-1214		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4541/3485
196	डॉ० गौहारे सुरेश दाजीभाई	दाजीबा	ऐट./पो०. तलोधी मोकसा, तालुक. चमोरसी, जिला. गड़चिरोली, महाराष्ट्र.	डीएचएमएस	1980		महाराष्ट्र	2.2.81	7831		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4630/3553
197	डॉ० एम.जी. गीथा	के.एन. गोपीनाथा पिल्ले	थोटाथिल हाउस, कड़ाप्पकड़ा पो०, क्यूलोन, केरल, 691008.	डीएचएमएस	1981		केरल	12.3.84	2153		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4644/3560
198	डॉ० कोशे के. जार्ज	के.सी. जार्ज	आशा भवन, अदुर पो०, केरल, 691523.	डी.एच.एम.	1966		केरल	9.12.66	318		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4682/3587
199	डॉ० नाडूविलेथ जार्ज जैकब	एन.जे. चाको	नाडूविलेथ, कुम्बनद पो०, केरल, पिन. 689547.	डी.एच.एम.	1966		केरल	24.9.66	298		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4694/3596
200	डॉ० पेरुमपल्लीथारा अंथोनिस जार्ज	पी.एम. अंथोनिस	पेरुमपल्लीथारा विडु, ओयूर पो०, कोटरकारा, क्यूलोन, केरल.	डीएचएमएस	1980		केरल	8.4.80	1946		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4697/3599
201	डॉ० जार्ज राजू पी.	पी. जार्ज	कुड़ाकारा हाउस, किझाक्केथेरुड पो०, कोट्टारक्का, कोल्लम जिला, केरल.	डी.एच.बी.			केरल	24.8.84	2510		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4712/3608

202	डॉ० घोदेश्वर प्रभाकर शंकरराव	शंकरराव	ऐट.पो. नचनगाँव, तालुक. देदी, जिला. वरधा, 442306, (महाराष्ट्र).	डीएचएमएस	अप्रैल, 1979		महाराष्ट्र	16.11.79	6899		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4776/3660
203	डॉ० घुगुसकर प्रेमा रघोबाजी	रघोबाजी	शिवाजी चौले, वरधा, महाराष्ट्र.	डीएचएमएस	सितम्बर, 1977		महाराष्ट्र	22.12.77	6029		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4808/3684
204	डॉ० गुरबक्स सिंह गिल	हरि सिंह गिल	मोहल्ला. संत नगर, ग्राम/पो० ऑफिस. चाचोकी, तहसिल. फागवारा, जिला. कपूरथला (पंजाब).	डीएचएमएस	1981		पंजाब	4.9.81	387		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	4835/3700
205	डॉ० बी. गिरीजाम्मा	एन. गोविन्दा पिल्ले	चंद्र विलास, करीमपानी पो०, कोट्टायम, केरल, 686564.	डीएचएमएस	1984		केरल	3.5.84	2461		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4855/3715
206	डॉ० श्रीमथिअम्मा	गोपाला पिल्ले	अरुण निवास, चिथारा पो०, कोल्लम, केरल.	डीएचएमएस	1982		केरल	25.6.82	2232		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4861/3720
207	डॉ० गीता	श्री दुर्गा सिंह	मकान नं० 270—बी./सेक्टर 51—ए, चंडीगढ़.	डीएचएमएस	जुलाई, 1984		पंजाब	22.9.87	434		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4866/3723
208	डॉ० गोयल बालकिशन	राम सहाय गोयल	1/2238, ईस्ट राम नगर, मंडोली रोड़, शाहदरा, दिल्ली — 110032.	डीएचएमएस			दिल्ली	27.8.87	बी.एच. एस.डी./ 1817		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	4888/3740
209	डॉ० राजेश कुमार गोयल	हरि चंद्र गुप्ता	1—सी/208, एन.आई.टी. फरीदाबाद.	डीएचएमएस	1986		राजस्थान	27.5.87	3248		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4894/3743
210	डॉ० गोगोई हेम चंद्र		साउथ अमोलापट्टी, पो० मोहनाघाट, जिला. डिब्रूगढ़ — 786008, (असम).	डीएचएमएस	1683		असम	16.11.84	107		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4911/3759
211	डॉ० के.ए. गोमथी	पी.ए. अयाप्पन	कोइथोलताथु हाउस, क्योहेप्रे मन्नर, पथेनेनथिला पो०, केरल जिला.	डी.एच.एम.	1963		केरल	15.6.63	75		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4934/3779
212	डॉ० नानुकुरुप गोपाकुमार	नानुकुरुप पी.	जी.जे. भवन (जनता क्लीनिक), कवलारूर पो०, मुंनगोडे (वाया), वरकला, पिन. 695144.	डीएचएमएस			केरल	24.3.77	1473		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4949/3793
213	डॉ० गोपालस्वामी जयालक्ष्मी		102, कैलाश धाम, थोमस डीसिल्वा रोड़, दहिसर ब्रिज के पास, दहिसर (पूर्व), मुम्बई — 400068.	एलसीईएच	1978		महाराष्ट्र	7.5.79	6689		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4954/3797
214	डॉ० प्रदीप कुमार गोयल	शिव नारायण गोयल	46—ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, शाहपुर जाट, नई दिल्ली — 110099.	डीएचएमएस			दिल्ली	26.12.76	एच.डी. / 1353/ बी.एच. एस.		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5073/3886

215	डॉ० ग्रेवाल सरबजीत कौर	मलकित सिंह ग्रेवाल	ग्राम+पो०. के.सी. गुरुसर सुधार, जिला. लुधियाना, पुल सुधर, 141104.	डीएचएमएस	जून, 1981		पंजाब	11.3.81	298		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	5091/3900
216	डॉ० गुने मोहन शरसचंद्र		2121, 'सी' ध्रुवा, भानसिंहजी रोड, कोल्हापुर — 416002.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1968		महाराष्ट्र	12.5.69	4044		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5159/5946
217	डॉ० अरुण गुप्ता	डॉ० डी.पी. गुप्ता	10—एफ, कमला नगर, नई दिल्ली — 7.	डीएचएमएस			दिल्ली	3.10.72	एच.डी. / 840 / बी.एच. एस.		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5181/3963
218	डॉ० गुप्ता कृष्ण लाल	बनवारी लाल गुप्ता	मकान नं०. 2611, अगरवाल कॉलनी, गिदरभा — 152101, जिला. मुक्तसर, पंजाब.	डीएचएमएस	1981		पंजाब	31.2.81	361		के० हो० परिषद् अधिनियम 1973 की धारा 25(1) के तहत हटाए गए	<u>5243/4008</u> CCH-228
219	डॉ० गुप्ता महेशकुमार बाबुभाई	गुप्ता बाबुभाई	'रामदर्शन' 3ए/406, नुकेम सोसायटी, मोरारजी सर्किल, जी.आई.डी.सी. बापी — 396195 (गुजरात).	डीएचएमएस			गुजरात	20.1.87	जी— 1336		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5255/4017
220	डॉ० गुप्ता मुकेश चंदेरा	के.सी. गुप्ता	ए-12, निर्माण विहार, दिल्ली — 110092.	डीएचएमएस			दिल्ली	17.2.77	एच.डी. / 1301 / बी.एच. एस.		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5271/4030
221	डॉ० गुप्ता निरमल राजकुमार (मेकर निरमल अपारसिंह)	राजकुमार	मेकर टावर — फ, प्रथम तल, कुफ्फी पराडे, मुम्बई — 400005.	एलसीईएच	1966		महाराष्ट्र	14.11.66	3600		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5279/4036
222	डॉ० बंसल रेणु	के.पी. गुप्ता	14, आनंद नगर, अजमेर.	डीएचएमएस	1987		राजस्थान	12.10.88	3520		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5330/4078
223	डॉ० गर्जर तरुना अर्जूनसिंह	अर्जूनसिंह	जया क्लीनिक, प्लेस रोड, इंदर (एस.के.) गुजरात — 383430.	डीएचएमएस			गुजरात	5.10.78	जी— 268		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5408/4138
224	डॉ० हाड़ा विजय राज सिंह	महेन्द्र सिंह हाड़ा	241, अमारित कुनवा हाउस, रेतवाली कोटा, 324006, (राजस्थान).	डीएचएमएस	1983		राजस्थान	6.7.84	2962		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5437/4158
225	डॉ० के.एम. हरिलाल	माधवन	पुठानपुराकल हाउस, सी.एम.सी. 21, शेरटल्लै पो०, अलेय जिला, पिन. 688524.	डीएचएमएस	1976		केरल	11.3.76	1192		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5525/4224

226	डॉ० हरि कुमार जी.	गंगाधरण नायर पी.	गंगाधरण गार्डेनस, कुमारापुरम, मेडिकल कॉलेज पो०, त्रिवेन्द्रम — 695011.	डीएचएमएस	1978		केरल	21.11.78	1726		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5526/4225
227	डॉ० एन. हरिहरण	नारायणा पिल्लई	नारायणा भवन, कोमना, अमबालापुझा पो०, आलप्पुझा जिला, केरल, 688561.	डीएचएमएस	1977		केरल	15.4.77	1495		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5530/4229
228	डॉ० आर. हरिहरण	रामास्वामी एस.	सुभा भवन, टी.वी. जक्शन, नेडुमनगढ़ पो०, त्रिवेन्द्रम (जिला), केरल	डी.एम.एस.	1969		केरल	14.12.72	727		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5531/4230
229	डॉ० हरकुट जयनारायण ढोंडीराम	ढोंडीराम	ऐट.पो. मडलमोही, तालुक. गोरई, जिला. बीड़.	डी.एच.बी.	1973		महाराष्ट्र	14.1.74	5018		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5536/4233
230	डॉ० हाशमी अख्ताक्यू अहमद	एम.ए. हाशमी	भारत चिकित्सालय मंगलोर रोड़ बरन, जिला. बरन (राजस्थान) 325205.	डीएचएमएस	1984		राजस्थान	8.7.85	3039		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5546/4242
231	डॉ. हरिमकर प्रल्हाद लोडाबाजी	लोडाबाजी	ऐट./पो. जयपुर, तालुक. सेनगॉंव, जिला. हिंगोली, महाराष्ट्र.	डीएचएमएस	1980		महाराष्ट्र	20.4.81	8096		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5573/4214
232	डॉ० हिंगडे भास्कर राजाराम	राजाराम गुर्जर	ऐट.पो. मुलवा, तालुक. उमरखेद, जिला. यवतमाल.	डीएचएमएस	1986		महाराष्ट्र	18.9.80	7511		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5596/4281
233	डॉ० ईदहोले मुरलीधर लक्ष्मण	लक्ष्मण	देव नगर, खामला रोड़, नागपुर, पिन. 440015.	डी.एच.बी.	अप्रैल, 1974		महाराष्ट्र	4.7.75	5471		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5690/4351
234	डॉ० ईगनाटीयस लभली	वी.टी. ईगनाटीयस	थेक्केवितिल (एच), XIV/764 (ए), मट्टनचेरी पो०, कोचिन — 682002.	डीएचएमएस	1981		केरल	16.2.82	2193		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5699/4359
235	डॉ० एन. इन्दिरा	नारायणन नायर जी.	अलुरुमपिल (एच), एलिकुलम पो०, कोट्टायम जिला, केरल, 686577.	डीएचएमएस	1977		केरल	18.9.78	1716		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5723/4373
236	डॉ० जेकोब वर्जस	वर्जस कुट्टे पी.सी.	721, एस. होलीडे डॉ० ग्रान्ड प्राईरड, टीएक्स 75052 यू.एस.ए.	डी.एच.एम.	1974		केरल	5.12.74	913		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5811/4443
237	डॉ० वैदयन जेकोब पी. जे.	जेकोब वैदयन के.	कड्याट्टु पुथेन विडु, थाडियूर (पो०), केरल — 689545.	डीएचएमएस	1975		केरल	7.11.75	1110		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5812/4444
238	डॉ० दर्ईया प्रवीन जादवजी		2, अम्बाजी धाम, एम.जी. रोड़, मुलुण्ड (वेस्ट), मुम्बई — 400080.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1977		महाराष्ट्र	8.5.78	6195		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5827/4458

239	डॉ० नरेला जगदिशवरियाह	भदरियाह	पो०/ग्राम— चिलपुर, वाया— मलकापुर, मंडल— घनपुर (स्टें.), जिला— वरानगल, पिन— 506145, (आंध्र प्रदेश).	डीएचएमएस	अगस्त, 1981		आंध्र प्रदेश	5.10.81	1397		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5878/4493
240	डॉ० कोन्डला जगन्नाथम	के. अपन्ना	बिसाईड म्यूनिसिपल ऑफिस, पलसा — 532221, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश.	डीएचएमएस			आंध्र प्रदेश	13.6.75	3464		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5882/4497
241	डॉ० एम.पी. जयनम्मा	एम.जे. फिलिप	एस.वी. पुथेनविडु, थालाचिरा, पो० कोट्टारकारा, कोल्लम जिला, केरल.	डीएचएमएस	1983		केरल	5.5.83	2282		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5913/4524
242	डॉ० जैन आनंद मोहन	हुकुम चन्द जैन	बी.डी. हाई स्कूल के पास, पो० सिहोरा रोड जिला. जबलपुर, मध्य प्रदेश.	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	16.1.87	9914		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5925/4532
243	डॉ० दीपक जैन	प्रेम चंद्र जैन	चरक औषधि भंडार, 120, परकोटा हिल्स, सागर.	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	21.6.84	9345		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5966/4562
244	डॉ० चौहान रमेश चन्द	विशम्बर सिंह	बी-5/129, यमुना विहार, दिल्ली.	डीएचएमएस			दिल्ली	12.11.81	बी.एच. एस.डी. / 1547		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	2578/1970 CCH/313
245	डॉ० बनर्जी सोमित्रा	मोनीन्द्रानाथ	केशव कुंज, न०. 9, आदर्श मार्ग रोड, मलाड़ (वेस्ट), मुम्बई — 400064.	डीएचएमएस	अगस्त, 84		महाराष्ट्र	28.3.85	12411		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	1303/985
246	डॉ० सोमनंदन थुलासी	करुणाकरण पी.आर.	श्रीनीलयाम, ऐंगिलीपरा, थट्टारामबलम पो०, मावेलीकारा, अलेप्पेय, केरल.	डीएचएमएस	1975		केरल	13.11.75	1118		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	1151/867
247	डॉ० भास्करण सोमाराजन	आर. भास्करण	सोमासदनम, मुट्टैम, पो०. हरिपड, आलप्पुझा (जिला), केरल, पिन. 690511.	डीएचएमएस	1976		केरल	9.11.76	1362		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	1747/1330
248	डॉ० थोमस डेनियल प्रेमकुमार	थोमस के. टी.	39/42, शक्ति विनायकर कौल स्ट्रीट, महालिंगपुरम, पोलाची, तमिलनाडू	डी.एच.एम.			तमिलनाडू	31.12.77	60		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	3141/2406
249	डॉ० डेनियल जचारिया	पी.सी. डेनियल	पनाचा कुन्निन थुम्पामोन नार्थ, 689625, पत्तनमतिट्टा, केरल.	डी.एच.एम.	1966		केरल	24.9.66	299		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	3142/2407
250	डॉ० अग्रवाल मनीषा नन्दकिशोर	भिरुमचन्द जी	वी/सी. 17/1, विष्णु नगर, जवाहर कालोनी रोड, औरंगाबाद — 431005, महाराष्ट्र.	डीएचएमएस	1980		महाराष्ट्र	6.6.81	8241		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	190/142

251	डॉ० (श्रीमति) कारडक तरुणा मिलिंद	मोल सिंह	701, सनमन, वीरा देशाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई — 400058.	एलसीईएच	1983		महाराष्ट्र	21.4.84	11125		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	396/288
252	डॉ० अलरेजा किरण गिरधारीलाल	किरण गिरधारीला ल	ब्लॉक न० 8, प्रथम तल, कल्याण अपार्टमेंट 286, सिवोन रोड (ईस्ट) मुम्बई — 22.	एलसीईएच	दिसम्बर, 61		महाराष्ट्र	11.9.62	2439		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	489/364
253	डॉ० अमबोले राजेन्द्र निशीकान्त	निशीकान्त	हाउसिंग कालोनी, मेन रोड, ऐट.पोस्ट— कोडोली, तालुक— पनहाला, जिला— कोल्हापुर, 416114.	डीएचएमएस	1979		महाराष्ट्र	11.7.80	7364		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	517/388
254	डॉ० कुसुम लता अग्रवाल	कमलेश कुमार गुप्ता	21, गायत्री नगर, तनोन रोड, ग्वालियर — 474002, (मध्य प्रदेश).	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	13.1.83	8337		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	177/130
255	डॉ० पी. अब्दुल अजीज	पी० ए० मोहम्मद कुट्टे	प्रेस्मिटुथोडियल, पो०, इरिमाबिलियम, मलप्पुरम (जिला), केरल.	डी.एच.एम.	1971		केरल	21.7.72	700		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	20/13
256	डॉ० अजीथा कुमारी ए.	अप्पुकुट्टन ऐडिसर के.	थोप्पील बंगलो, पुरुमला पो०, तिरुमला, केरल — 689626.	डीएचएमएस	1983		केरल	26.10.83	2386		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	381/280
257	डॉ० अलेअम्मा के. वी.	वरके	अथीरथीमुक्कील मनीप्पारा पो०, करीमपन, ईदुकी, पिन. 685602.	डीएचएमएस	1983		केरल	31.12.83	2403		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	421/309
258	डॉ० अम्मा कार्तिायानी के.आर.	लम्बोधरण पिल्लई	पदम्प्रीया, डब्ल्यू.एस.आर.ए. टी. सी.3टी./521/147, वेस्ट नाडा, फोर्ट तिरुवन्थापुरम, केरल — 695023.	डीएचएमएस	1980		केरल	30.4.80	1958		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	544/410
259	डॉ० पाटिल प्रदीप सुरेन्द्र	सुरेन्द्र नारश गुड्डा पाटिल	'चारवक' 6564, पुरानी कुपवाड़ रोड, होलाकर चौक, होटल लवली के सामने, सांगली — 416416, महाराष्ट्र.	जी.सी.ई.एच.			कर्नाटक	25.2.85	3176		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	12451/9583
260	डॉ० के.के. सोमासुन्दरम	के.सी. कुट्टन	उसहुस, जिला कोर्ट वाई, आलप्पुझा, केरल — 688001.	डी.एच.एम.	1968		केरल	19.9.68	416		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	17668/13628
261	डॉ० जेठमलानी ज्योति प्रेमचन्द	हरचन्द राय	301, 302, प्लाजा टावर, सेक्शन 17, तिलक कालोनी, उलहासनगर—सिंधुनगर, पिन. 421003, जिला. थाने, महाराष्ट्र.	एलसीईएच	मई, 1987		महाराष्ट्र	25.1.88	16015		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11674/8975

262	डॉ० भुटाडा सुनिल शंकरलाल	शंकरलाल	686, 2ए+2बी, बीबवेवडी, प्लैट नं० 1, बिल्डिंग नं० एफ, गंगा जमुना हाउसिंग सोसायटी के आगे, पुणे - 411037.	एलसीईएच	1982		महाराष्ट्र	8.6.83	10025		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	2064/1568
263	डॉ० महात्रे सुरेश शिवराम	शिवराम	ऐट.- मनडवा, (दसतुरी), पो०- धोखावडे, तालुक- अलीबाग, रायगढ़, महाराष्ट्र.	डी.एच.बी.	अप्रैल, 1965		महाराष्ट्र	25.11.65	3355		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9747/7490
264	डॉ० पाटिल सुनन्दा सुरेश (पाटिल सुनन्दा पाण्डुरंग)		75 विकास कालोनी, सकरी रोड, धुले, पिन- 424001.	एलसीईएच	दिसम्बर, 80		महाराष्ट्र	5.6.61	8180		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	12590/9700
265	डॉ० अलवानी प्रकाश नरुमल	नरुमल	प्लैट नं० 8, यूनाईटेड हाउस, कुलकरनी कालोनी, सारणपुर रोड, नासिक - 422002.	डी.एच.बी.	1976		महाराष्ट्र	7.6.83	10013		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	491/366
266	डॉ० अम्बेकर महानंदा (श्रीमति नंदनी जोशी)	नागेश	विश्वा प्लौट नं० 21, सेन्ट ऐकनाथनगर-II, बीबवेवडी, पुणे - 37.	एलसीईएच	1985		महाराष्ट्र	1.9.86	14472		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	509/380
267	डॉ० अजगोनकर उमेश दिगम्बर	दिगम्बर	1-7, सारादशरम, भवानी-शंकर रोड, दादर (वेस्ट), मुम्बई - 400028.	एलसीईएच	1982		महाराष्ट्र	8.6.83	10022		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	374/275
268	डॉ० डेनियल सी.जे.	जोसेफ सी. टी.	कॉलेराथु हाउस, केलाकम पो०, कन्नुर (जिला), केरल स्टेट, पिन- 670674.	डीएचएमएस	1976		केरल	4.3.76	1161		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	3137/2403
269	डॉ० चेलम्मा चन्द्रिका देवी	रामाकृष्णा पिल्लई के.	ईल्लाकुलाथु मंजूषा, चेरावलै, कायामकुल्लम.	डीएचएमएस	1975		केरल	20.11.75	1127		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	3717/2837
270	डॉ० उषा देवी कुरुर जयन्थन	जयन्थन नमबुदरी	अमबाड़े 49/210 3ए, ईदाक्कत रोड लेन - 3, ईदाप्पल्लै पो०, कोचिन - 682024.	डीएचएमएस	1975		केरल	17.12.75	1144		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	3792/2891
271	डॉ० थोमस एस. आर. थरेसिअम्मा	ई.एम. थोमस	देवामाथा प्रोविनसियल हाउस, चंगनाचैरी पो०, कोट्टायम जिला, पिन. - 686101.	डीएचएमएस	1975		केरल	22.10.75	1047		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	18794/14466
272	डॉ० जैन महेन्द्राकुमार मंगीलाल	मंगीलाल	सी/ओ. इडना ब्रोकर कम्पनी, 13 भाटिया मार्केट ।। पलोर, अशोक सिनेमा के पास, जलगाँव, पिन - 425001, (महाराष्ट्र).	डीएचएमएस	मई, 1980		महाराष्ट्र	6.6.81	8221		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	6021/4593

273	डॉ० पटेल श्रीमति नन्दनी	रामेश्वर	403, मॉरनिंग ग्लोरी, ठकर पार्क, अराम सोसायटी रोड, वकोला, सांताक्रुज (पूर्व), मुम्बई — 400055.	डीएचएमएस	सितम्बर, 1985		महाराष्ट्र	24.1.86	13569		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6048/4611
274	डॉ० जैन नेमीचन्द किशनलाल	किशनलाल	52, कल्पना नगर, शाहदा, जिला. नन्दूरबार, 425409.	डीएचएमएस	नवम्बर, 1980		महाराष्ट्र	14.7.81	8348		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6058/4618
275	डॉ० प्रकाश चन्द्र जैन	प्रभु लाल जैन	मात्रछाया होम्यो क्लीनिक, सुचित्रा सिनेमा के सामने, नयाबडी महाउ-निमुच रोड, मंडसौर (म०प्र०).	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	16.7.74	6328		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6081/4634
276	डॉ० प्रमोद चन्द्र जैन	चंदभान जैन	ग्राम.पोस्ट— मवाई, जिला— टिकामगढ़, 472001, (म०प्र०).	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	16.1.79	7757		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6089/4642
277	डॉ० जैन पुष्पिन्दर कुमार	एस.डी. जैन	399, लाजपत नगर, जलंधर सिटी, 144001.	डीएचएमएस	नवम्बर, 1981		पंजाब	28.9.83	733		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6099/4650
278	डॉ० जैन रमेश लखीचन्द	लखीचन्द	51, नटेश्वर हाउसिंग सोसाइटी, वखारकर नगर, धुले.	डीएचएमएस	अप्रैल, 1976		महाराष्ट्र	27.9.76	5737		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6117/4663
279	डॉ० जैन उत्तमचंद बस्तीमल	बस्तीमल	102, गिरनाल अपार्टमेंट्स, एन. एल. हाई स्कूल के सामने, एस. वी. रोड, मलाद (डब्ल्यू), मुम्बई—400064.	एलसीईएच	मई, 1983		महाराष्ट्र	30.8.83	10376		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6182/4710
280	डॉ० जैन विमल कुमार	कनक मल जैन	सितोन की पोल, सगवारा, जिला डुंगरपुर (राजस्थान).	डीएचएमएस			राजस्थान	4.4.83	2797		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6187/4714
281	डॉ० जयसवाल राधेशाम	मिश्रीलाल	ऐट एण्ड पो यलदारी (कैम्प), तालुक जिनतुर, जिला— परभानी (महाराष्ट्र).	डी.एच.बी.	अप्रैल, 1973		महाराष्ट्र	3.8.73	4917		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6222/4744
282	डॉ० जलजा कुमारी जी.	पी. गोविन्दा सेनोई	वलीपरामविल हाउस, पोथोथ रोड, कलुर, कोच्ची — 682017.	डी.एच.एम.	1974		केरल	30.12.74	948		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6250/4765
283	डॉ० सोफिया टेरेसा जेम्स	जेम्स जोसेफ	शान्ति क्लीनिक, योगशाला रोड, कन्नुर—670001, केरल	डीएचएमएस	1984		केरल	28.9.84	2532		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	6284/4790
284	डॉ० लखानी प्रीति राम	रामजीभाई	202/203 मोनटाना—सी विंग, सम्राट क्रॉस रोड नं.2, लोखंडवाला काम्पलेस, अम्बेरी (वैस्ट), मुम्बई—400053.	एलसीईएच	मई, 1985		महाराष्ट्र	28.8.85	12908		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6291/4796
285	डॉ० जानकी कुटटी वी.एम.	इ. रमन मैन्नन	प्लैट नं. 2511—एफएफ (2ए), केसवा मेनन नगर, हाउसिंग कॉलोनी, बिलाठीक्कुलम, पो. ऐरनीपलम, कोझीकोड — 6, केरल स्टेट.	बी.एच.एम.एस.	1982		केरल	26.3.83	2269		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6295/4800

286	डॉ० गंधारे दनयानेश्वर लक्ष्मणराव	लक्ष्मणराव	श्री शिवाजी हाई स्कूल के सामने, वघापुर रोड, यवतमल, 445001, (महाराष्ट्र).	डीएचएमएस	मई, 1980		महाराष्ट्र	3.2.81	7858		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6302/4806
287	डॉ० जनयानी थानवेर हसानन्द	हसानन्द	गुरु नानक भवन, ब्लॉक नं० 9-बी., सिन्धु को०-ऑ०५० हाउसिंग सोसाइटी, अशोक नगर, नागपुर, 440017.	डीएचएमएस	अप्रैल, 1977		महाराष्ट्र	11.1.78	6080		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6315/4817
288	डॉ० अलकुटकर मेधा प्रकाश (जवाडेकर मेधा शरदचन्द्र	शरदचन्द्र	उडलैंड अपार्टमेंट, बी-25, कोठरुड, गाँधी भवन, पुणे — 411029, महाराष्ट्र.	एलसीईएच	जनवरी, 1980		महाराष्ट्र	25.4.80	7240		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6340/4838
289	डॉ० चोदावरपु जयालक्ष्मी	सी.एच. सुब्बा राव	म.नं. 16/82, सत्यनारायणापुरम गुड्डीवडा, कृष्णा जिला.	डी.एच.एम.	1980		आन्ध्र प्रदेश	5.5.64	1880		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6371/4860
290	डॉ० कुन्जुवीडू सौदामिनी अम्मा जयालक्ष्मी	शिवाशंकरा पिल्लई के.	“दीप्थी” टी.सी. कोडियर पोस्ट, तिरुवनंतपुरम — 3.	डी.एच.एम.	1971		केरल	26.5.72	683		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6374/4863
291	डॉ० वी. जयाप्रकाश	वामदेवा पनीकर वी.	लक्ष्मी भवन, कनाविला, ऊरुत्तमबलम पोस्ट, त्रिवेन्द्रम, केरल.	डीएचएमएस	1977		केरल	21.3.77	1457		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6385/4871
292	डॉ० एस. जयाराजन	ए. सुहादेवन	पद्मा भवन, मंगलम पोस्ट, थरीक्कुन्नापुझा, अल्लेप्पी जिला, 690515, केरल.	डीएचएमएस	1983		केरल	3.2.84	2427		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6388/4873
293	डॉ० कार्थियायनी कुट्टी जयाश्री	कृष्णन नायर आर.	श्रीवलसम, पुन्नापुरम, पेड्राह पो०, तिरुवनंतपुरम — 24.	डीएचएमएस	1976		केरल	28.4.76	1231		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6399/4881
294	डॉ० जैसवाल राजेन्द्र पूनमचन्द	जैसवाल पूनमचन्द	अंजना क्लीनिक, वडबाजार, झलोड, जिला. धहोद, पिन— 389170, गुजरात.	डीएचएमएस			गुजरात	15.12.81	जी: 537		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6409/4887
295	डॉ० एम.पी. जॉनसन	मैकहेल पिल्लई ए.	सिमोन विला काझाकुट्टम पोस्ट, त्रिवेन्द्रम, पिन. 695582, केरल.	डी.एम.एस.	1969		केरल	24.11.72	714		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6509/4962
296	डॉ० स्टेला कुरीयन (मैरी स्टेला जॉन)	के.सी. जॉन	किझाक्केथोट्टम हाउस, पुनजार साउथ पो०, कोट्टायम जिला, 686582, केरल.	डीएचएमएस	1979		केरल	30.1.80	1912		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6513/4966
297	डॉ० कारलोसे जॉन पी.	कारलोसे	पलानीलकुमकलयाईल हाउस, मनजुर पो०, कुरुप्पन थारा, कोट्टायम. केरल.	डी.एच.एम.	1976		केरल	11.3.76	1188		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6515/4967

298	डॉ0 जॉन विलोमीना	वी.वी. जॉन	नीलीकुन्नाथ हाउस, मुलानथुरुथे पेरुमपिल्लै पो0, पिन. 382314, एर्नाकुलम जिला, केरल.	डी.एच.एम.	1975		केरल	1.1.66	249		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	6524/4974
299	डॉ0 के.के. जोसे	कुरुविला पी.एस.	कलारीपरामपील, कंजर पो0, कुडयाथूर, इडुक्की.	डी.एच.एम.	1975		केरल	27.11.75	1131		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6537/4984
300	डॉ0 जोसे एन. जे.	एन. वी. जोसफ	नीडूमकल्लेल, वेडाकोड पो0, मुवात्तुपुझा, केरल.	डीएचएमएस	1979		केरल	4.8.79	1844		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6543/4986
301	डॉ0 वर्गीज जोसे	पी.के. वर्गीज	मोहन बिल्डिंग, ओबसर वटोरी लेन, त्रिवेन्द्रम — 33.	डीएचएमएस	1979		केरल	27.6.79	1822		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6545/4988
302	डॉ0 सी.सी. जोसफ	सी.आई. चेरप्पन	चेरुवथूर हाउस, थेक्केपुरम, कन्नामकुल्लम पो0, 680503.	डीएचएमएस	1984		केरल	24.8.84	2506		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6557/4996
303	डॉ0 जोसफ सी.जे.	जोसफ जोसफ	चाकलाथारा हाउस, करिक्कतुर सी.पी.ओ. कोट्टायम, केरल, 686544.	डीएचएमएस	1978		केरल	3.4.78	1673		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	6558/4997
304	डॉ0 जोसफ एलजीमटौम मैथ्यू	जोसफ मैथ्यू	एलजीमटौम कुराविलंगद पो0, 686633, केरल स्टेट.	डी.एच.एम.	1969		केरल	27.9.66	304		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	6561/4999
305	डॉ0 जोसफ जॉर्ज	सी.जे. जॉर्ज	चारीवूपरामपिल, थोन्निमला पो0, पत्तनमतिट्टा, 689668.	डी.एम.एस.	1972		केरल	9.4.74	840		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6565/5002
306	डॉ0 के.ए. जोसफ	के.ए. अन्थो	कोच्चुपरामवील हाउस, हिलव्यू अपार्टमेंट, एफ-4, थरीक्काकारा पो0, कक्कानंद, काच्ची, पिन. 382021.	डी.एच.एम.	1969		केरल	25.4.69	465		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6573/5008
307	डॉ0 के. जे. जोसफ	जोसफ	किरनचिया, पी.ओ.एस. बथेरी, वयानाद जिला, केरल — 673592.	डीएचएमएस	1976		केरल	14.9.76	1287		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6577/5011
308	डॉ0 टी.जे. मेनुएल	जोसफ टी. एम.	थोत्तुमकल हाउस, इदीनजामाला पोस्ट, इडुक्की जिला, पिन. 685514, केरल.	डीएचएमएस	1983		केरल	28.5.83	2300		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6587/5020
309	डॉ0 जोसफ मैरी	लुके जोसफ	मनावथु हाउस, पुन्नाथुरा वेस्ट, इत्तुमानूर, कोट्टायम जिला, पिन. 686631.	डीएचएमएस	1977		केरल	3.11.77	1608		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6591/5022
310	डॉ0 मैथ्यू जोसफ	जोसफ पी. जे.	पलकल, इचीनय पो0, कोट्टायम जिला, केरल.	डीएचएमएस			केरल	6.1.79	1765		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	6593/5024
311	डॉ0 जोसफ एन.पी.	एन.एम. फिलिप	नीलिकुन्नाथ हाउस, मुलानथुरुथे, पेरुमपिल्लै पो0, एर्नाकुलम, पिन. 682314, केरल.	डी.एच.एम.			केरल	10.6.64	134		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6600/5029

312	डॉ० जोसफ थोनुमगल लीलम्मा	टी.सी. जोसफ	वडाक्केडाथु हाउस, ओरम्माना पो०, एर्नाकुलम जिला, केरल — 686730.	डी.एच.एम.			केरल	25.10.65	225		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6602/5031
313	डॉ० जोसफ पी.ए.	ऐनटोनी पी. एन.	पलकुनल हाउस, पो०. परम्पनाचेरी, चंगनाचेरी, कोट्टायम, जिला.	डीएचएमएस			केरल	12.3.77	1423		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6616/5043
314	डॉ० जोसफ सिनम्मा	जोसफ के. जे.	कोट्टराथिल मनालईल, मनकोमपु थीक्केकारा पो०, आलप्पुझा, पिन. 688503, केरल.	डीएचएमएस			केरल	27.8.84	2514		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6620/5046
315	डॉ० टी.जे. सेबस्टीन	सी.एस. जोसफ	थेक्केथेनकारा हाउस, वेटीमुकल पो०, कोट्टायम जिला, पिन. 686631.	डीएचएमएस			केरल	26.5.80	1990		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6627/5050
316	डॉ० जोसफ वलसम्मा	चाको जोसफ	कुन्नुमपुरम, बीआईओएस. एन. एच. बाई पास, चेथल्ला पो०, केरल.	डी.एच.एम.	1974		केरल	7.3.75	998		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6636/5058
317	डॉ० (श्रीमति) जोशी नूतन प्रदीप	लक्ष्मीकान्त	ओम नमः शिवाय बिल्डिंग, पीएल. 18ए, एस.आर. नं० 93/3, शीशक नगर, लेन नं० 9, वनाजिन्द पंड रोड के सामने, कोथरुड, पिन. 411038, पुणे.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1982		महाराष्ट्र	10.6.83	10041		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6701/5110
318	डॉ० सतेन्द्र कुमार जोशी	नारद जोशी	137, धर्म नगर कॉलोनी, महीदपुर, जिला. उज्जैन, 456443.	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	8.8.85	9637		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6742/5140
319	डॉ० जोशी बसंत बल्लभ	हरिश चन्द्र जोशी	प्लॉट नं० 63, अनुपम विहार, ग्राम — लोहारियासल (एम.), पो०— कथघरिया, हलदवानी — 263139, जिला — नैनीताल (उत्तराखण्ड).	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	9.11.78	7703		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6776/5169
320	डॉ० जोशकुट्टे पी. एस.	पी.वाई. सैमुल	रेहाबोथ हाउस, वडावथुर कोट्टायम, केरल, 686010.	डी.एच.एम.	1967		केरल	27.6.68	394		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6789/5178
321	डॉ० मैथ्यू जोय	मथाई चेरुची	पुथोर शंकरालाल (एच.), किरामपारा पो०, कोटामंगलम, एर्नाकुलम जिला, केरल — 686691.	डी.एच.एम.			केरल	25.5.69	469		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6791/5180

322	डॉ० (श्रीमति) पनसकर नीता राजाराम (कुमारी कदम नीता नारायण)	नारायण	गंगा हास्पिटल, लाईब्रेरी चौक, ऐट.पोस्ट.तालुक— पटन, जिला— सतारा, पिन. 415206, महाराष्ट्र.	जी.सी.ई.एच.	मई, 1987		महाराष्ट्र	21.3.88	16220		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6846/5220
323	डॉ० कडिवर रमेशचन्द्र भागवानजी	कडीवर भागवानजी	144, अमिननगर सोसाइटी, पो० चानी— 360530, जिला. वडोदरा, (गुजरात).	डी.एम.एस.	दिसम्बर, 1976		गुजरात	19.3.83	जी: 656		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6856/5225
324	डॉ० कामता रोहिणी राघवेन्द्र	राघवेन्द्र वैकुण्ठ कामट	'श्रीकृष्णा निवास', टी.एस.एस. रिंग रोड, नियर भूमा हाई स्कूल, ए.पी.एम.सी. मार्केट यार्ड, सिरसी, 581402, कर्नाटक.	एलसीईएच	जुलाई, 1983		कर्नाटक	17.7.84	3030		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	6974/5316
325	डॉ० कानाकम्मा वी.के.	कृष्णन	वलिअपरम्पिल साउथ परावूर पोस्ट, त्रिपुनिथूरा, एर्नाकुलम (जिला), केरल.	डी.एच.एम.	1976		केरल	11.3.79	1179		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7026/5356
326	डॉ० कमल कान्त	नन्द लाल	गली नं० 17, तानाजी नगर, अजमेर (राजस्थान).	डीएचएमएस			दिल्ली	13.10.78	एच.डी. / 1341 / बी.एच. एस.		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	7059/5386
327	डॉ० करकारा स्वतंत्र	ओम प्रकाश करकारा	डब्ल्यू नं० 12, किला रोड के पास, अमलोह — 147203, (एफजीएस) पंजाब.	डीएचएमएस	1981		पंजाब	20.9.81	371		के० हो० परिषद् अधिनियम 1973 की धारा 25(1) के तहत हटाए गए	7177/5471
328	कटोच खेम सिंह	गोविन्द सिंह	64, सिटी एन्क्लैव, II, नजदिक प्रभात रोड, जिराकपुर, जिला— मोहाली, पिन— 140603, (पंजाब).	डीएचएमएस			पंजाब	22.9.79	106		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7248/5526
329	डॉ० श्रीमति गुरमेल कौर	मलकियत सिंह	एच.नं०. 4934, गली नं० 6, पुरानी पुलिस चौकी रोड, शिमलापुरी, लुधियाना, पंजाब.	डीएचएमएस	अक्टूबर, 1980		पंजाब	26.2.82	589		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7272/5548
330	डॉ० उप्पल मनजीत कौर	जी.एस. गुप्ता	जीडी-17, गली नं० 14, जी-ब्लॉक, हरी नगर, नई दिल्ली — 110058.	डीएचएमएस			दिल्ली	25.8.83	एच.डी. / 1631 / बी.एच. एस.		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7291/5563
331	डॉ० कौशल राज कमल	मोहन लाल	एच.नं०. बी-VIII / 373, किला के अंदर — बरनाला, 148101.	डीएचएमएस	दिसम्बर, 1982		पंजाब	12.4.83	684		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7329/5595

332	डॉ० कवड़कर शोभा नारायण	नारायण	ऐट.पोस्ट. पंढारकवड़ा, कौटन मार्केट बार्ड, जिला. यवतमाल — 445302.	डी.एच.बी.	अक्टूबर, 1969		महाराष्ट्र	27.1.71	4289		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7355/5614
333	डॉ० काजी मोहम्मद आरीफ नवीसाब	नवीसाहेब काजी	अनीटी नर्सिंग होम, येलापुर ओनी, हुबली — 580020, (कर्नाटक).	जी.सी.ई.एच.	मई, 1986		कर्नाटक	17.10.86	3574		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7390/5642
334	डॉ० खान मसखुर उल्लाह	असहद उल्लाह खान	काजी पुरा, अस्था, जिला. सेहोरे, (म०प्र०).	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	6.3.85	9499		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7571/5781
335	डॉ० खातेब राजअहमद मीरा साहेब		बस स्टैंड के पास, पो०. देवर हिप्परगी, 586115, जिला. बीजापुर, कर्नाटक.	एलसीईएच	जून, 1973		कर्नाटक	29.5.74	2225		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7730/5908
336	डॉ० पाटिल संध्या सत्यानधर	सुरेश	ऐट./पोस्ट. कुमभोज, तालुक. हटकनउगले, जिला. कोल्हापुर.	एलसीईएच	मई, 1984		महाराष्ट्र	15.1.88	15985		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7813/5981
337	डॉ० खुडसिया नावेद	जाकिरा खातुन	नं० 655, 14 मेन 38 क्रॉस 4 'टी' ब्लॉक, जयानगर, बैंगलोर.	जी.सी.ई.एच.	मई, 1986		कर्नाटक	13.8.86	3455		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7817/5983
338	डॉ० अनंथा वेंनकिटेशवरा किलीकर	एन. अनंथा किलीकर	8/1350ए, टी.डी. ईस्ट रोड, मदर डेयरी, कोच्ची — 682002.	एल.आर.सी.एच.पी.			केरल	16.9.69	485		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7849/6004
339	डॉ० (श्रीमति) अकाली ज्योति दिलीपसिंह (कोच्चर मोहिन्दर कौर)	जोगिन्दर	दीप-गीत सी.एच.एस. प्लॉट, 10/6, सेक्टर — 15, नेरुल (पूर्व) नवी मुम्बई — 400706 .	एलसीईएच	1977		महाराष्ट्र	15.5.78	6216		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7876/6026
340	डॉ० शाह रूपल सुनील	रमेश	401, स्पेक्ट्रा अपार्टमेंट्स, नाडियाडवाला कालोनी नं० 1, एस.वी. रोड, मलाड़ (पश्चिम), मुम्बई.	एलसीईएच	मई, 1985		महाराष्ट्र	29.7.85	12856		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	7934/6072
341	डॉ० कत्रिकी किसतैयाह	के. हनुमानथैया ह	हलवी — पोस्ट — 518333, अडोनी — तालुक, करनुल — जिला, आन्ध्र प्रदेश.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1986		कर्नाटक	31.3.87	3650		2004 के के० हो० रजि० से हटाया गया कमांक सं० 24378	8075/6182
342	डॉ० चत्ताथारा गौरीअम्मा कृष्णअम्मा	आर. नारायण नायर	कुथाकारा हाउस (बिंदु), नाट्टाकोम पो०, कोट्टायम — 686013, केरल.	डी.एच.एम	1964		केरल	6.8.65	211		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8079/6185

343	डॉ० वल्लाला रामाकृष्णा कुमार	वि. आर. नायडू कुमार	39/633-4-10, पटेल रोड, वाई. एस. नगर, कडपा पो०, पिन - 516001, (आन्ध्र प्रदेश).	डीएचएमएस			आन्ध्र प्रदेश	30.8.79	4245		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8213/6293
344	डॉ० गिरिधर रजिन्दर कुमार	कशमिरी लाल	कैम्पस होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज, अमोर, पंजाब.	डीएचएमएस	1983		पंजाब	12.12.84	787		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8271/6340
345	डॉ० कुमार रजिन्दर	रामजी दास	हाउस नं० 380/20, हुडा कैथल (हरियाणा).	बी.एम.एस.	अगस्त, 1979		हरियाणा	28.5.82	3451		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8273/6342
346	डॉ० कुमार रजिन्दर	हरि ओम गुप्ता	हाउस नं० 368, सेक्टर 20-ए, चण्डीगढ़.	डीएचएमएस			यू.टी. चण्डीगढ़	20.1.88	63		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8274/6343
347	डॉ० कुमार सुरिन्दर मोहन	एच. एल. कुमार	बी.-3/21, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110063.	डीएचएमएस			दिल्ली	19.3.75	एच.डी. / 1048 / बी.एच. एस.		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8319/6382
348	डॉ० विजेन्द्र कुमार टी. आर.	रामाकृष्णा राव	हाउस नं० 720/1, मंजुनाथा करुपा, II मेन, 13 क्रॉस, के. टी.जे. नगर, दावनगेरे-2, कर्नाटक.	जी.सी.ई.एच.	नवम्बर, 1985		कर्नाटक	31.7.86	3425		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	8331/6390
349	डॉ० मोहना कुमारन पी.एन.	नारायणन के.एन.	पुथेदु (हाउस), इरुमेले पोस्ट, कोट्टायम केरल - 686509.	डीएचएमएस	1981		केरल	16.2.83	2184		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	8341/6397
350	डॉ० पद्मावती अम्मा कुसुमाकुमारी	विरामन नायर जी.	स्मेविसखस कुडाप्पनेकुनु, तिरुवन्थापुरम - 695043.	डीएचएमएस	1983		केरल	8.9.83	2353		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8358/6409
351	डॉ० कुमभारे दत्तात्रेया रामचन्द्र	रामचन्द्र	होम्यो हॉस्पिटल, रामनगर, लेपोसे फाउन्डेसन, वरधा, (महाराष्ट्र).	डी.एच.बी.			महाराष्ट्र	27.9.75	5533		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8398/6441
352	डॉ० कुनचेरिया एम. ए.	के.के. अगस्टीन	मनीवेलील हाउस, थुरुथे पो०, चंगनाचैरी, कोट्टायम - 686535.	डीएचएमएस	1980		केरल	29.1.81	2096		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8410/6452
353	डॉ० कुंचेरिया पुष्पम	के.सी. कुंचेरिया	त्रिरुवेथुकल हाउस, सी.एम.सी. 28, चेरथाला पो०, आलप्पुझा जिला, 688524.	डीएचएमएस	1980		केरल	26.5.80	1995		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8411/6453
354	डॉ० डी. ओमना कुंजमा	पी. शंकरा पिल्लई	थेक्का विट्ट, नजारककोल, पेरिनाड पो०, कोल्लम, केरल.	डीएचएमएस	1978		केरल	8.12.78	1745		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8427/6465
355	डॉ० शेराफुदिन पुलियाथविडु मोहम्मद कुंजु	एम. मोहम्मद कुंजु	नसीर मंजील, कुट्टीचीरा टी.के. एम.सी. पो०, कोल्लम - 5, केरल.	डी.एच.एम.	1973		केरल	13.2.74	814		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8441/6478

356	डॉ० अबदुल नजर कुरिक्कल	अबदुराहिम न कुरिक्कल	'लमिस' साउथ अनारा तिरूर, मलाप्पुरम, केरल — 676101.	डीएचएमएस	1983		केरल	27.8.84	2518		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8456/6490
357	डॉ० सुलिखा कुंजु खुरैशा बेगम	ए. अबदुल खदेर	थेके विटील, अथेनाडूथेकु कट्टीकाडाउ पो०, पिन. 690547, करुनागपल्लै, कोल्लम, केरल.	डीएचएमएस	1978		केरल	8.12.78	1747		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8457/6491
358	डॉ० कुरियाकोसे एलेक्स	कुरियाकोस टी.सी.	थिरुवथुक्कल होम, सी.एम.सी. 28, चेरथला पो०, आलप्पुझा जिला, 688524.	डीएचएमएस	1978		केरल	24.4.78	1689		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8461/6495
359	डॉ० कुरियाकोसे अन्निअम्मा	कुरियाकोसे टी.सी.	कंडीरीकल हाउस, कंडालीकड़ पो०, मवाट्टट्टुप्पुझा, एर्नाकुलम जिला.	डीएचएमएस	1978		केरल	20.4.78	1691		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8463/6497
360	डॉ० पी.के. कुरियाकोस	पी.के. कुरियाकोस	पल्लीकापरामबिल हाउस, कुझीमतौम पो०, केरल.	डी.एच.एम.	1963		केरल	4.5.64	117		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8475/6506
361	डॉ० कुरुप सी.आर. राधा कृष्णा	के.के. रामाकृष्णा कुरुप	चोरा कुन्नाथु हाउस, पी.सी. कवला पो०, चंगना चेरी, कोट्टायम, केरल — 686537.	डीएचएमएस	1984		केरल	15.5.84	2462		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8503/6527
362	डॉ० कुरुवीला कुरीयन	के. कुरीयन	उडुमपनाट्टु हाउस, अमयानूर पो०, कोट्टायम — 686025, केरल.	डी.एच.एम.	1971		केरल	28.6.72	691		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8507/6527
363	डॉ० कुट्टे अल्लये टी.डी.	देवासिया	पुल्लानिकवील, कुंडूथोडे पो०, कविलुमपारा — 673513.	डीएचएमएस	1976		केरल	28.9.76	1298		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8525/6545
364	डॉ० एस.आर. अनित्ता (एस.आर. अन्ना कुट्टे टी.वी.)	स्टेल्ला मारिया	मेलुकावुनाथम पो०, कोट्टायम, पिन. 686652.	डी.एच.एम.	1973		केरल	16.5.73	777		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8526/6546
365	डॉ० के.जी. राजुकुट्टे	वी.के. गोपालन	कप्पियील हाउस, माला (पोस्ट), करकला (तालुक), उडुपी (जिला), कर्नाटक, पिन. 574122.	डीएचएमएस	1980		केरल	19.7.80	2029		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8546/6558
366	डॉ० किशोरभाई लाभुभाई लखानी	लखानी लाभुभाई	221, संत जलाराम सोसायटी, वेद रोड, सुरत, गुजरात.	डीएचएमएस			गुजरात	27.8.84	जी: 866		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8591/6595
367	डॉ० ललना पी.एस.	सुब्रमणियन पी.के.	कईपल्लितारा हाउस, मुरावन्थुरुथ, वड़ाक्केकारा पो०, एन. पराउर, एर्नाकुलम (जिला), केरल, पिन. 683522.	डीएचएमएस	1980		गुजरात	9.9.80	2061		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8638/6630

368	डॉ० ललिता कुमारी	अप्युकुट्टन ऐडिसन	थोपिल बंगलाड, परुमला पो०, पत्तनमतिट्टा (जिला), केरल, पिन. 689626.	डी.एच.एम.		केरल	28.3.70	515		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8643/6633
369	डॉ० भराथे ललिता	एन. पुन्न	कविव टीसी / 12 / 195-4 थेक्कुनमुडु, वेन्चीयुर पो०, त्रिवेन्द्रम.	डीएचएमएस	1979	केरल	27.6.79	1824		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8644/6634
370	डॉ० वलिथापरामविल गोपालन ललिताकुमारी	गोपालन वी. एल.	मुलेपरामविल कुकुमुलुर कोट्टायम, केरल, पिन. 686632.	डीएचएमएस	1980	केरल	30.8.80	2053		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8652/6641
371	डॉ० आशा लथा जी.	गोपालन नायर एन.	चीत्तेदथले हाउस, मरीयापल्लै पो०, कोट्टायम, केरल — 686023.	डीएचएमएस	1977	केरल	19.11.77	1610		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8682/6664
372	डॉ० एस. लथामोनी	कंजु पिल्लई पी. के.	अम्बाडी कृष्णा सरस पेरुन्ना पो०, चंगनाचैरी — 2, कोट्टायम जिला, केरल.	डीएचएमएस	1983	केरल	4.8.83	2327		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8685/6667
373	डॉ० लाठी उजवला अशोक	अशोक	264, रिद्धी सिद्धी, ईन्द्रप्रस्थ सोसायटी, आकाशवाणी हड़ापसर के पास, पुणे — 28.	एलसीईएच	मई, 86	महाराष्ट्र	24.2.87	14930		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8689/6671
374	डॉ० के.पी. लेगीया	के.ए. पुरुषोत्तमन	अवस्थे — द्वारका लेन, एन.सी. सी. रोड, पेरुरक्काड़ा पो०, तिरुवनंतपुरम, केरल.	डीएचएमएस	1979	केरल	30.1.80	1932		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8732/6703
375	डॉ० लक्ष्मी राधा	माधवन वैदयन	अम्बाडी चेप्रा (पो०) कोल्लम (जिला), केरल, 691520.	डीएचएमएस	1980	केरल	19.12.81	2158		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8736/6706
376	डॉ० लीहारे मणिराम	सोहनलाल लीहारे	ऐट.+पो. कुलपा, तालुक. लंजी, जिला. बालाघाट, मध्य प्रदेश — 481224.	डी.एच.बी.		मध्य प्रदेश	13.11.80	8212		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8754/6719
377	डॉ० लुनकड़ अशोक रत्नलाल	रत्नलाल	तिलक रोड, नन्दुरबार, पिन. 425412, महाराष्ट्र.	एलसीईएच	मई, 83	महाराष्ट्र	22.6.84	11387		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8816/6771
378	डॉ० पुलिथारा सरंगाधारन लिलम्मा	पी.एम. समगधरन	थईमाटथईल, मुहामा पो०, आलप्पुझा, केरल.	डीएचएमएस	1983	केरल	4.1.84	2415		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8826/6777
379	डॉ० मचादो जरोम	लेट जोहान जलीन मचादो	ज्योथि निलाया, ज्योथिनगरा पोस्ट — 577102, चिकमगलुर जिला, कर्नाटक.	एलसीईएच		कर्नाटक	26.9.87	3780		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8828/6779
380	डॉ० माधवन बाबुजी	आई. माधवन	प्लौट नं० 1, यदुकल मुलावट्टाम पो०, कोट्टायम — 686026.	डीएचएमएस	1980	केरल	18.12.81	2150		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8846/6788

381	डॉ० महाजन वरिन्दर	मीलखी राम महाजन	362-ए, नजदीक हॉलिवुड पब्लिक स्कूल, न्यू शास्त्री नगर, पठानकोट, पंजाब.	डीएचएमएस	1981		पंजाब	4.9.81	383		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8904/6829
382	डॉ० महाजन विकांत रामचन्द्र	रामचन्द्र	60/1, त्रिमुर्ति, भारती निवास सोसायटी, ईरनडवाना, पुणे - 411004, महाराष्ट्र.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1985		महाराष्ट्र	7.4.86	13951		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	8935/6859
383	डॉ० मलेवार सालिकराम	चैतराम मलेवार	पारसनगर, मुक्तिधाम लेन के पास, देवेन्द्र नगर, रायपुर, (छत्तीसगढ़).	डीएचएमएस	अप्रैल, 1979		मध्य प्रदेश	15.5.81	8412		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9032/6930
384	डॉ० मेहरोत्रा विनय नारायण	श्याम नारायण मेहरोत्रा	प्लॉट नं० 125, पाथ नं० 6, विजयवारी, सीकर रोड, जयपुर - 302039.	बी.एम.एस.	1976		राजस्थान	25.4.77	2506		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9084/6969
385	डॉ० मलिक एम. शरीफ निजामुद्दीन	निजामुद्दीन	बाम्बे क्लीनिक, गायत्री मंदिर के पास, बोरसद, 388540 (गुजरात).	डीएचएमएस			गुजरात	4.3.78	जी: 240		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9095/6980
386	डॉ० मलिक कुमार सुसान्ता	लेट नरहारी मलिक	ऐट. पोस्ट - अनिकाना, वाया - काईपारा, जिला - जजपुर, ओडिशा.	डीएचएमएस			ओडिशा	30.11.76	सी-285		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9100/6984
387	डॉ० मलवनिया सउनिल शांतिलाल	मलवनिया शांतिलाल	'आदर्श', 1, भवितनगर सोसायटी, राजकोट - 360002.	डीएचएमएस			गुजरात	15.10.83	जी: 738		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9105/6989
388	डॉ० माधव कृष्ण मालवीय	मोहन कृष्ण मालवीय	मालवीय स्कूल बदराव, जिला - रीवा, मध्य प्रदेश.	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	9.8.84	9379		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9106/6990
389	डॉ० माम चन्द वर्मा	श्री राजे राम	डब्ल्यू० जेड० 6-बी, नारायणा, नई दिल्ली - 110028.	डीएचएमएस			दिल्ली	19.3.75	एचडी. / 1044 / बीएचएस		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9116/6999
390	डॉ० मनचन्दा ओम प्रकाश	श्री सरदारी लाल	एफ 801, सुखदेव नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली.	डीएचएमएस			दिल्ली	26.11.73	एचडी. / 967 / बीएचएस		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9122/7005
391	डॉ० मंगुकिया भवीन नारनभाई	मंगुकिया नारनभाई	"मुगुकिया" क्लीनिक, 100/ए, सरिता सोसायटी, गली नं० 7, गढ़ेची वडला, भावनगर - 364003, (गुजरात).	डीएचएमएस			गुजरात	20.10.86	जी: 1264		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9185/7062
392	डॉ० अर्चना जगदिशभाई गोंधी	अरविन्दभाई	के०/ओ० श्रीमान सुबोद्ध डी. गोंधी, ब्राह्मण शेरी, स्वामी नारायण मंदिर के पास, उंझा - 384170, गुजरात.	डीएचएमएस			गुजरात	30.1.78	जी: 230		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9197/7071

393	डॉ० पिल्लरीसेट्टी मंजुला	पी. लक्ष्मीपथी	हाउस नं० 50-70-33/10, साईकुटिर अपार्टमेंटस, राजेन्द्र नगर विशाखापटनम — 530016, आंध्र प्रदेश.	डीएचएमएस		आंध्र प्रदेश	11.2.75	3427		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	9215/7085
394	डॉ० मनकर नथुराम	सोमुजी मनकर	राजेन्द्र नगर (डब्ल्यू.सी.एल.) एन.आई.डी.सी., ऐट. पथाखेरा, जिला. बेतुल, मध्य प्रदेश.	डी.एच.बी.		मध्य प्रदेश	8.11.82	8692		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9223/7091
395	डॉ० मैरी चाको चेम्मासरील	चाको सी. टी.	पोय्याथुरवथील मट्टम्मल रोड, एन. परायुर, पिन— 683513, एर्नाकुलम.	डीएचएमएस		केरल	20.4.78	1694		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	9311/7158
396	डॉ० के.जी. मैरी मेरकी	के.ए. जॉर्ज	परामबलोथ हाउस, कारथेडोम मालीपुरम पो०, एर्नाकुलम (जिला), पिन— 682511, केरल.	डीएचएमएस	1979	केरल	4.8.79	1840		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9316/7162
397	डॉ० सी.एम. मैनुअल	सी.जे. मैथ्यू	अगनेश मेमोरियल होमियो क्लीनिक, चुंगाप्पुरा (एच.), वडाकेनचैरी (पो०), पलाक्कड (जिला), पिन— 678683.	डीएचएमएस	1977	केरल	12.3.77	1420		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9369/7201
398	डॉ० मैथ्यू जोसफ के.	जोसफ के. एम.	कुट्टुम्मल हाउस, अय्याप्पनकवड वेस्ट रोड, कोच्ची — 682018.	डी.एच.एम.	1976	केरल	22.3.76	1200		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9386/7213
399	डॉ० मैथ्यू मैथ्यू	के.आई. मैथ्यू	कडाथुकलाम आई.ई. नगर, चंगनाचैरी, केरल.	डी.एच.एम.	1969	केरल	6.3.69	457		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9403/7225
400	डॉ० मैथ्यू निरमला	मैथ्यू पी.टी.	नीलानूर (एच.), प्रियादर्शनी नगर, थिरुवनचुर पो०, कोट्टायम — 686037, केरल.	डीएचएमएस	1977	केरल	18.1.78	1626		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9409/7228
401	डॉ० मैथ्यू रॉय	टी.के. मैथ्यू	अलुम्मुट्टील हाउस (करुनया) पुलपल्ले पो०, वयनाद जिला, केरल — 673579	डीएचएमएस	1981	केरल	20.3.82	2201		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9420/7234
402	डॉ० मैथ्यू टेस्सीमोले	एम.टी. मथाई	पथेनथारयायील, जउथा रोड, कलाडी, टुपन — 695002.	बी.एच.एम.एस.	1983	केरल	8.9.83	2362		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9431/7242
403	डॉ० मैथ्यू वी.एम.	मैथ्यू	वडाक्केकुट्ट, मनालुमकल पो०, कोट्टायम, 686503, केरल.	डीएचएमएस	1978	केरल	25.3.78	1662		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9438/7247
404	डॉ० मथुरिया सावित्री	आर.जी. मथुरिया	28, न्यू सुभाष नगर— II, लेयरर्स कॉलोनी, आगरा — 282005 (उत्तर प्रदेश).	डी.एच.बी.		मध्य प्रदेश	28.8.84	9390		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9487/7290 CCH-213
405	डॉ० मटलानी राम मंगलदास	मंगलदास	जी-602, कंट्री पार्क, टाटा एस.एस.एल. के सामने, दत्तापाड़ा रोड, बोरीवली (मुम्बई) — 400066.	एलसीईएच	मई, 1967	महाराष्ट्र	5.10.67	3812		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9490/7292

406	डॉ० पी. मायादसन	पप्पुकुट्टी ए.	मन्नेरायाथु विडु, कवलायुर पो०, मुंगोडु (वाया), तिरुवनंतपुरम, केरल, पिन— 695144.	डी.एच.एम.	1971		केरल	16.10.71	634		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9522/7320
407	डॉ० महथा अरविन्द नरसिदास मेहता	नरसिदास	दामोदर क्लीनिक, मुम्बई—गोवा रोड, ऐट.पोस्ट.ताल.— मंगगोव, जिला— रायगढ़, पिन— 402104, (महाराष्ट्र).	एलसीईएच	जुलाई, 1983		महाराष्ट्र	22.6.84	11379		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9562/7349
408	डॉ० बुच विपिनचन्द्र हिमनगिनी	मुलशंकर	802 विल्ला वेलोजे, सेन्ट्रल ऐवेन्यू, सांताकुज (वेस्ट), मुम्बई — 400054.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1967		महाराष्ट्र	25.3.68	3889		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9578/7360
409	डॉ० मेहता निना धनवन्त्री	धनवन्त्री	अजितनाथ, निलकंठ ऐन्क्लेव, 13 प्लोर, 1301—02, एल.बी. एस. रोड, घाटकोपर (वेस्ट) मुम्बई — 400086, महाराष्ट्र.	एलसीईएच	जनवरी, 1980		महाराष्ट्र	3.5.80	7263		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9614/7388
410	डॉ० प्रकाश रामचन्द्र मेहता	रामचन्द्र	ऐट.पोस्ट— मोरबा, तालुक— मनगोव, जिला—रायगढ़, (महाराष्ट्र).	जी.सी.ई.एच.	जून, 1984		महाराष्ट्र	23.8.84	11618		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9628/7399
411	डॉ० मेहता श्रीदेवी रमेश	रमेश	68/7, शिवाजी पार्क, माधव निवास, दादर, मुम्बई — 400028.	एलसीईएच	मई, 1970		महाराष्ट्र	8.7.70	4186		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9652/7418
412	डॉ० मेहता जरीना फरामरोजे	फरामरोजे	7, चेपसे ट्रेस, 30, अलटामाउन्ट रोड, मुम्बई, पिन— 400026.	एलसीईएच	मई, 1985		महाराष्ट्र	30.1.86	13633		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9667/7420
413	डॉ० महतो रविप्रकाश	श्री रवि	159, फाईन ऐवेन्यू, फेस—1, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश), पिन— 642003.	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	20.4.61	2088		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	<u>9668/7430</u> CCH-294
414	डॉ० मिरजनकर स्मिता मारुति	मारुति	ई. 66, यशोधन, ईरला बृज, ईरला फायर स्टेशन के पास, एस.वी. रोड, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई — 400058.	डीएचएमएस	अगस्त, 84		महाराष्ट्र	18.12.85	13420		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9771/7511
415	डॉ० मिश्रा भद्र शील	रामादार मिश्रा	ग्राम— भरखारी, पो०— उमरी, जिला— हमीरपुर, (उ०प्र०) — 210501.	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	9.8.84	9374		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9790/7528
416	डॉ० मिश्रा सत्यदेव गुरुप्रसाद	गुरुप्रसाद	मिश्रा भवन, पुरानी कौंटन मार्केट चौक, अमरावती (महाराष्ट्र).	डी.एच.बी.	अप्रैल, 61		महाराष्ट्र	27.10.61	2269		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9871/7597

417	डॉ० मोधा कमलेश वी.	वल्लभ दास	ए-602, श्री राज रिजेन्सी, बिल्डिंग नं० 144, बल्लभ बाग लेन (एक्सटेंशन), घाटकोपर (ईस्ट), मुम्बई - 400075.	जी.सी.ई.एच.	मई, 84		महाराष्ट्र	28.11.84	11841		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9924/7635
418	डॉ० (श्रीमति) मेहता मीता भरे	जगमोहन दास	11, वलेनटिना, एस.एन. गमदिया रोड, ऑफ पेडर रोड, मुम्बई - 400026.	एलसीईएच	मई, 78		महाराष्ट्र	21.8.78	6307		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9937/7647
419	डॉ० ऐ. मोहम्मद हनीफा	के. अबुबेकर कुन्जु	जुबैरिया मंजिल, मेकोने चन्दनाथोपे पो०, कोल्लम, पिन- 691014.	डी.एच.एम.	1974		केरल	20.6.74	848		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9970/7672
420	डॉ० मोहम्मद ईब्राहिम रईस मोहिउद्दीन	मोहम्मद खाजा यूसुफुद्दीन	17-3-118/24ए, विहाईन्ड कॉलनी, याकुतपारा, हैदराबाद - 500023.	डीएचएमएस	अक्टूबर, 71		आंध्र प्रदेश	12.9.72	652		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	9974/7675
421	डॉ० मोहम्मद ईकबाल	मोहम्मद शफी	हाउस नं० 5-706, मार्केट रोड, पोस्ट- मनचेरियल, जिला- अदिलाबाद, पिन- 504208 (आंध्र प्रदेश).	एम.बी.एस. (एच.)	अप्रैल, 86		आंध्र प्रदेश	7.1.87	107		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9977/7678
422	डॉ० एस. मुहम्मद नजीर	सैयद मोहम्मद ऐवुथेर	चालीपरामबील, थोडुपुझा ईस्ट पो०, इडुक्की जिला, 685585.	डीएचएमएस	1977		केरल	3.11.77	1602		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9982/7681
423	डॉ० मुहम्मद सधिक वी.ए.	वी.के. अब्दुलकादी र	वलियावीटिल वेलारापिल्लै सूथ पो०, श्रीमुलानगरम, एर्नाकुलम - 683580, केरल.	डीएचएमएस	1984		केरल	3.5.84	2460		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	9985/7684
424	डॉ० करुणाकरण मोहनन	करुणाकरण के.	होमियो भवन, अवलुक्कुनु पो०, आलप्पुझा.	डी.एच.एम.	1972		केरल	14.3.73	748		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10014/7707
425	डॉ० मुलेपरामबिल नारायणन मोहनदास	अचुतेन नारायणन	मुलेपरामबिल, क्रुमुज्जुर कनाक्कारी, 686632, कोट्टायम, केरल.	डी.एच.एम.	1975		केरल	27.10.75	1067		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10016/7709
426	डॉ० शिवाशंकरन नायर मोहन दास	आर. शिवाशंकरन नायर	कुलंगरा हाउस, कनियापुरम पो०, तिरुवनंतपुरम (जिला), पिन- 695301.	डीएचएमएस	1979		केरल	4.1.80	1908		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10019/7712
427	डॉ० मोहाने सुरेश रामकृष्णा	राम कृष्णा	113, अजय अपार्टमेंट, 16, हंसराज लेन, बाइकुला (ईस्ट), मुम्बई - 400027.	डीएचएमएस	मई, 80		महाराष्ट्र	4.4.81	8055		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10022/7714
428	डॉ० महापात्रा सरोज कुमार	लेट सुबल चरण महापात्रा	ऐट./पो.- शास्त्रीनगर - 3, गोसनीनुआगोन, बेरहामपुर-3, (जी.एम.), उड़ीसा - 760003.	बी.एच.एम.एस.			उड़ीसा		सी/1070		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	10067/7752

429	डॉ० एस.के. मोहिउद्दीन	सीराजुद्दीन	एय.के. बाजार, कटक-4, उड़ीसा.	डी.एम.एस.			उड़ीसा	3.4.74	सी / 861		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10082/7764
430	डॉ० मोलनकर कल्पना बाबुराव	बाबुराव	6, सुखानगंड क्रुपा सी.एच.एस. लिमिटेड, हाई लाईफ कमपाउंड, फेरोज रोड, सांताक्रूज वेस्ट, मुम्बई — 400054.	एलसीईएच	जून, 84		महाराष्ट्र	13.12.84	11910		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10091/7772
431	डॉ० आर. मोले	के.के. सदानंदन	चोथी महादेवीकडु पो०, कार्थिकापल्ले, आलप्पुझा, 690555.	डीएचएमएस	1978		केरल	8.12.78	1742		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10094/7775
432	डॉ० मोरे मारुति हरि		ऐट./पो.— मंगाले, तालुक— शिराला, जिला— सांगली.	डीएचएमएस	मई, 80		महाराष्ट्र	29.11.80	7720		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10136/7805
433	डॉ० मोटला अब्बास मोहम्मद		मोटला स्ट्रिट, कोसमबा (आर. एस.) जिला— सुरत, पिन— 394120.	डीएचएमएस			गुजरात	15.7.77	जी: 204		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10154/7820
434	डॉ० मोटला अनवर सुलेमान	मोटला सुलेमान	पीपरड शेरी, ऐट./पो.— कोसंबा (आर.एस.) जिला— सुरत — 20.	डीएचएमएस			गुजरात	30.11.85	जी: 1024		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10155/7821
435	डॉ० मुल्ला इमतियाज अहमद अबदुल रहिमान	अबदुल रहिमान	ऐट./पो.— मशूर, तालुका— कराड, जिला— सतारा, महाराष्ट्र.	जी.सी.ई.एच.	नवम्बर, 81		महाराष्ट्र	16.5.83	9899		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10225/7873
436	डॉ० मुलतानी मोतीलाल	बालचन्द मुलतानी	240, मसकस्थ रेलवे वृज के पास, ईटवारी, नागपुर, (महाराष्ट्र).	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	22.1.79	7797		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10239/7883
437	डॉ० दामोदरन मुरलीधरन	दामोदरन	आनंद विहार, पौडडीकोनम पो०, त्रिवेंद्रम — 695587.	डी.एच.एम.	1976		केरल	10.3.76	1165		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10288/7920
438	डॉ० पी. मुरलीधरन	टी.के. पविधरन	मारुथी निवास टी.सी. 43/1557, मकनगेवड पो०, त्रिवेंद्रम — 695009.	डी.एच.एम.	1968		केरल	29.5.69	473		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10294/7923
439	डॉ० नरेल्ला कृष्णा मूर्ति	एन. वेंकटा सुब्बा राव	डी. नं० 5-15-47, दुर्गादास स्ट्रिट, कोथापेटा, टुनी — 533401.	डीएचएमएस			आंध्र प्रदेश	20.9.75	3819		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10314/7940
440	डॉ० बोल्ला श्री रामा चन्द्र मुर्शि	श्री सुब्बा राव	हाउस नं० 12-7-133/102/10/एफ— 205, श्री हरि नगर, मुसापेट, पिन— 500018, हैदराबाद.	डीएचएमएस			आंध्र प्रदेश	7.1.82	1420		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10332/7955

441	डॉ० ममिल्लापल्ली वेंकटा दक्षिणा मुर्ति	वेंकटा राव	लक्ष्मी नर्सिंग होम, इब्राहिमपत्तनम (पो०), कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश, 521456.	डीएचएमएस			आंध्र प्रदेश	30.10.76	4113		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10342/7963
442	डॉ० (श्रीमति) नगोसे विजया दादाजी	दादाजी	24, नागपुर नागरिक कॉ-ऑपरेटिव बैंक के पिछे, जोगीथाना पेट, ऐट, पोस्ट/तालुक— उमरेद, जिला— नागपुर (महाराष्ट्र), 441203.	डीएचएमएस	अप्रैल, 1978		महाराष्ट्र	25.7.79	6775		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10414/8016
443	डॉ० संचेती प्रमिला राजेश		रो बंगलो 18—ए, क्लाउड—9, अग्रवाल ईस्टेट, चाणक्य पुरी, दरया रोड, औरंगाबाद, (महाराष्ट्र).	एलसीईएच	मई, 1985		महाराष्ट्र	16.5.86	14132		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10444/8039
444	डॉ० नायर बालाचन्द्रन बी.	भाषकरण नायर आर.	टी.सी. 27 / 1388, आर.आर.ए. ई. 87 गौरीशंकरम, ऋषिमंगलम, वैनचियुर पो०, त्रिवेन्द्रम — 695035, केरल.	डीएचएमएस	1981		केरल	16.2.82	2190		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10486/8070
445	डॉ० नायर भाषकरण पी.पी.	परमेश्वरन नायर एन. डी.	49/1854 —ए, "विनायक" ऐलामाक्कारा रोड, ऐदापल्लै कोच्ची, पिन— 682024.	डीएचएमएस	1978		केरल	4.4.78	1675		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10491/8075
446	डॉ० नायर सी.पी. गोपालाकृष्णन	सी.के. परमेश्वरन नायर	"अनुसदानम्" अटारीकोम, ओमाल्लुर पो०, पिन— 689647, पत्तनमतिट्टा (जिला), केरल.	डी.एम.एस.	1973		केरल	19.7.80	2051		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10499/8080
447	डॉ० नायर गोपालाकृष्णन पी.	पद्मनाभन नायर	कुथाकारा हाउस (बिन्दु) नाट्टाकोम पो०, कोट्टायम, पिन— 686013, केरल.	डी.एच.एम.	1976		केरल	21.4.76	1216		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10500/8081
448	डॉ० नायर गोपीनाथन के.आर.	रमन पिल्लई ई.	पोरनामी, मादापल्लै पो०, पिन— 686546, कोट्टायम जिला, केरल.	डी.एच.एम.	1972		केरल	14.12.72	722		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10503/8084
449	डॉ० नायर गोपीनाथन आर.के.	कृष्णा नायर एन.	टी.सी.— 31 / 2449, हाउस नं० ए—83, शांथि मंदिरम, श्री रंगम रोड, सारथामंगलम, त्रिवेन्द्रम — 10, साउथ केरल.	डी.एच.एम.	1972		केरल	18.11.72	713		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10504/8085
450	डॉ० नायर मुरलीधरन पी.	पुरुषोत्तमन नायर	अलुरुमपील (एच.) ऐलिकुलम पो०, कोट्टायम (जिला), केरल — 686577.	डी.एच.एम.	1970		केरल	8.10.70	552		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10525/8099

451	डॉ० नायर मुरलीधरन पी.वी.	वसु पिल्लई पी.	मणिमलासरिल हाउस, चेरुकाला पो०, अलेप्पेय जिला, पिन- 688506.	डीएचएमएस	1978		केरल	8.12.78	1751		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10526/8100
452	डॉ० नायर प्रभाकरण टी.	थनकप्पन पिल्लई एन.	पद्मा प्रभा, मेदाईल जक्शन थोप्पिल नगर, कवानाड पो०, कोल्लम-3, केरल.	डीएचएमएस	1978		केरल	18.3.78	1646		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10536/8108
453	डॉ० नायर के.जी. पुरुषोत्तमन	पी.एन. गोपालन नायर	किचेरिल, पोस्ट - थमपलकड़, (वाया), कंजिरापल्लै, कोट्टायम (जिला), केरल.	डी.एच.एम.	1964		केरल	6.8.65	209		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10537/8109
454	डॉ० नायर रविन्द्रनाथन पी.सी.	पी.एन. पदनाभा पिल्लई	कार्तिका, इडुक्की कॉलोनी पो०, इडुक्की जिला, केरल - 685602.	डी.एम.एस.	1961		केरल	7.2.62	56		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10562/8125
455	डॉ० नायर वी. सदाशिवन	वेलु पिल्लई के.एन.	सभालया, कोडुनगनुर पो०, वाया. वट्टीयुरकव, तिरुवनंतपुरम, केरल.	डी.एच.एम.	1977		केरल	25.4.73	759		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10567/8126
456	डॉ० नायर श्रीकुमारन शंकरापिल्लई	शंकरा पिल्लई के.एन.	सबारीस्वरम, छावरा बी.पी.ओ, पिन- 691583, कोल्लम जिला, केरल.	डीएचएमएस	1978		केरल	20.4.78	1681		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10584/8139
457	डॉ० नायर सुदेवन एस.	शंकरा पिल्लई एम.	माधवी मंदिरम्, पल्लीपुरम पो०, त्रिवेन्द्रम (जिला), केरल, पिन- 695316.	डी.एच.एम.	1975		केरल	6.11.75	1099		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	10586/8140
458	डॉ० नायर सुकुमारन वी.बी.	बालकृष्णा कुरुप के.	पोउरनामी, पनानगोडे पो०, पेरिंगमला, तिरुवनंतपुरम, 695563, केरल.	डीएचएमएस	1976		केरल	13.9.76	1265		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10589/8142
459	डॉ० नायर उषा गंगाधरण	गंगाधरण	पंचीकल हाउस ई-1, चिथरा नगर, भट्टीयुरकौग पो०, तिरुवेन्द्रम, 695013.	डीएचएमएस	1980		केरल	30.4.80	1950		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10591/8144
460	डॉ० नलीनी गेन्दुलालजी करनावत	गेन्दुलालजी	जथारपेथ, आईस फैक्ट्री कि सामने, अकोला (महाराष्ट्र), पिन- 444001.	डीएचएमएस	अप्रैल, 1977		महाराष्ट्र	25.1.78	6114		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10624/8169
461	डॉ० नलीनी वड़ाक्केथ	नारायणन नामबीसन	“देवारगम” टमारासरे (पो०), कोझीकोड, केरल, पिन- 673573.	डीएचएमएस	1983		केरल	9.6.83	2316		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10628/8172
462	डॉ० एम.एन. नारायणन नामबुदीरी	नारायणन नामबुदीरी एम.जे.	मरुथुर (एच.), ननमीनडा पो०, कोझीकोड जिला, केरल, पिन- 673613.	डीएचएमएस	1976		केरल	24.3.76	1208		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10638/8180

463	डॉ० के.एस. पुरुषोत्तमन नामबुथीरीपड़	गोदाम नामबुथीरीप ड के.जी.	किञ्जाकुमभागथु मना, भक्थानंथा पुरम (पो०), पुथेनक्रुजे (वाया), एर्नाकुलम, 682308, केरल.	डीएचएमएस	1977		केरल	20.9.77	1562		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10640/8182
464	डॉ० नन्दाकुमार के. आर.	रविन्द्रनाथ	कृष्णा (हाउस), अमेदा रोड, उदयामपेरूर पो०, एर्नाकुलम (जिला), केरल — 682307.	डीएचएमएस	1980		केरल	19.7.80	2046		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	10665/8200
465	डॉ० पारिख चेतना वत्सल	मथुरादास	210—211, राधे वल्लभ सी.एच. एस., फ्रेंच ब्रिज कॉनर, ओपरा हाउस, मुम्बई — 400007.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1983		महाराष्ट्र	19.4.84	11086		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	10677/8211
466	डॉ० नंजाराजु सी.बी.	सी.एस. वसावे गोड़ा	“सुश्री” एन.सी.सी. रोड के सामने, हसन — 573202, कर्नाटक.	जी.सी.ई.एच.	नवम्बर, 1985		कर्नाटक	27.3.86	3389		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10690/8221
467	डॉ० ननु रघुदास	ननुक	रघुमंदीराम, वड़ाक्केविक पो०, कोल्लम, कर्नाटक, 691010.	डीएचएमएस	1978		केरल	20.3.78	1654		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10692/8223
468	डॉ० एन.के. नारायणन	ए. कृष्णन	चुपराथु हाउस, पट्टानाकड़ पो०, चेरथला, आलपुझा जिला, पिन— 688531.	डी.एच.एम.	1973		केरल	11.3.74	831		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10719/8242
469	डॉ० नरखी केतन कुमार महेन्द्रभाई	नरखी महेन्द्र भाई	22, वैभव बंगलो, इन्दिरा गॉंधी मार्ग, नाडियाड, जिला— खेड़ा, 387002 (गुजरात).	डीएचएमएस			गुजरात	20.9.86	जी: 1204		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10742/8257
470	डॉ० नरवानी राम चन्द	भगचन्द नरवानी	दौलत गंज, राजा बक्सर कि गोथ, लश्कर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश).	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	20.2.75	6777		दो क्र.सं. प्रकाशित होने पर हटाया	10764/8274
471	डॉ० नटराज जी.बी.		मेन रोड कलशा चिकमागलुर, कर्नाटक — 577124.	जी.सी.ई.एच.	मई, 82		कर्नाटक	20.12.82	2718		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10774/8285
472	डॉ० नवाब अब्बास अली	असगर अली नवाब	के.डी. गेट, कमरु बाग कि गली, उज्जैन (मध्य प्रदेश).	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	31.3.75	6797		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10792/8298
473	डॉ० नायक राजाश्री राजेन्द्र	देवरा नायक	“रामानाथ” प्लॉट नं० 42, 202 / 1, वसुधा हाउसिंग कॉलनी, 3 लेन, अल्टो स्ट्रिट क्रुज, बॉम्बोलीम कॉम्प्लेक्स (गोवा) 403202.	एलसीईएच	नवम्बर, 1985		कर्नाटक	27.11.86	3597		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10843/8338
474	डॉ० निकम नारायण ट्रिम्बक	ट्रिम्बकराव	सचिन क्लीनिक, ऐट./पो०— बाजार स्वंगी, तालुक— खुलटाबाद, जिला— औरंगाबाद, महाराष्ट्र.	डीएचएमएस	मई, 1980		महाराष्ट्र	5.9.80	7499		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10935/8416

475	डॉ० नीमबलकर विक्रम बाबुराव	बाबुराव	ऐट./पो०— हिंगनगॉव, तालुक— फलटॉन, जिला— सतारा — 415523, महाराष्ट्र.	डी.एच.बी.	मई, 1975		महाराष्ट्र	1.9.75	5523		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	10956/8432
476	डॉ० निरमलानंदन कुनीसेरी पंगनचदेथ	के. पदमानाभन नायर	गौरी पदमन, रौबीनसो रोड, पलक्कड़ — 678001, केरल.	डी.एच.एम.	1967		केरल	29.11.87	360		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	10990/8453
477	डॉ० वी.ए. निजार	अब्दुल जब्बार वी.एस.	वेलुपरामबील, डाउन हिल पोस्ट मलप्पुरम, मलप्पुरम जिला, केरल.	डीएचएमएस	1983		केरल	22.9.83	2368		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11006/8465
478	डॉ० कुन्नेल	के.के. जे. चुथान	कुरुमदाधील हाउस, पेरुवा पो०, पिन— 686610, कोट्टायम, केरल.	डीएचएमएस	1982		केरल	20.12.82	2246		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11075/8523
479	डॉ० ओमन लीलम्मा	सी.वी. ओमन	पुथुपरामपील, तिरुवला, एस.सी. एस. जक्शन के पास, केरल.	डी.एच.एम.	1967		केरल	30.8.68	406		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11079/8526
480	डॉ० ओझा जयप्रकाश दिलीपभाई	ओझा दिलीपभाई	नं० 17, नीलकमल सोसायटी, निजामपुरा, वडोदरा, गुजरात.	डीएचएमएस			गुजरात	5.2.83	जी: 650		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11109/8552
481	डॉ० पॉल जेम्स	पी.सी. पॉल	पनाकल (एच.), पुजापुरा रोड, पोस्ट— अरूर, केरल— 688534.	डीएचएमएस			केरल	5.12.81	2123		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11215/8628
482	डॉ० पॉल मैरी	पॉल के.एम.	सेंट मैरी क्लीनिक, थाबुर पोस्ट, अंगामले एर्नाकुलम (जिला), केरल.	डीएचएमएस	1983		केरल	9.6.83	2313		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11221/8631
483	डॉ० पॉल प्रेम कृष्णा		ऐट. रोड, बोकाखत टाउन, वार्ड नं० 1, पो०— बोकाखत (बी.डी.ओ. ऑफिस के सामने), जिला— गोलाघाट, असम, पिन— 785612.	डीएचएमएस	जुलाई, 83		असम	16.11.84	100		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	11227/8636
484	डॉ० शेख सारा नजीर (काट्टुमंगट्टु सारा पॉल)	काट्टुमंगट्टु	ए/4 नवीन—आशा सी.एच.एस., रामबाग लेन, कलयाण (वेस्ट) — 421301, मुम्बई.	एलसीईएच	दिसम्बर, 70		महाराष्ट्र	17.4.71	4363		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11231/8640
485	डॉ० पी.पॉल सुमिथरन	पॉलदास	पीला भवन, हितायत, पुञ्जावथु, चंगनाचैरी पो०, कोट्टायम जिला, केरल — 686101.	डीएचएमएस	1984		केरल	30.3.84	2431		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11234/8642
486	डॉ० पांडे अशोक कुमार	राजमणि शर्मा	270, आनंद नगर, आधारतल, जबलपुर.	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	29.11.49	7691		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11316/8695

487	डॉ० पांडे दिनेश चन्द्र	जय दत्त पांडे	112—सचमी नं० 3, बसंत विहार, अलवर (राजस्थान) — 301001.	डीएचएमएस	1982		राजस्थान	17.3.83	2774		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11320/8699
488	डॉ० पांडे प्रेमदास शंकर राव	शंकर राव	प्लॉट नं० 24, नारायण नगर, बजाज शो रूम के पीछे, उमरेर, जिला— नागपुर (महाराष्ट्र).	डी.एच.बी.	अक्टूबर, 66		महाराष्ट्र	10.2.67	3681		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11343/8718
489	डॉ० श्याम नारायण पांडे	हरि नारायण पांडे	रघुनाथ कॉलोनी, लखनादोन, जिला— शिवानी (मध्य प्रदेश).	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	4.12.75	7002		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11382/8748
490	डॉ० पण्डया हितेन्द्रकुमार भावनीशंकर	पण्डया भावनीशंकर	दरबरगढ़ के पास, पोस्ट— दाहेवन, तालुक— बोरसद, जिला— आनंद, गुजरात, पिन— 388550.	डीएचएमएस			गुजरात	31.8.87	जी: 1486		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11417/8778
491	डॉ० पण्डया मिलनकुमार रमेशचन्द्र	पण्डया रमेशचन्द्र	महावीर पार्क सोसायटी, मेहुल नगर रोड़, गजन्न स्कूल के पास, जामनगर, गुजरात.	डीएचएमएस			गुजरात	20.9.86	जी: 1217		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11422/8782
492	डॉ० पणिकर एम. रामभद्र	माधवा कुरुप पी.के.	रगोम, कवियूर पो०, तिरुवेल्ला, पत्तनमतिट्टा, केरल, पिन— 689582.	डी.एच.एम.			केरल	6.11.75	1097		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11444/8798
493	डॉ० रामचन्द्र पणिकर सी.के.	वी.ए. कुमार कुरुप	इन्द्रा निवास, त्रिचट्टकुलम पो०, पुचक्कल, आलप्पुझा, केरल.	डीएचएमएस	1976		केरल	10.11.76	1364		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11445/8799
494	डॉ० शशिन्द्र नाथ पणिकर सी.पी.	पंकजाकशन नायर के.	पुथेन विडु, पेरुम पलम पोस्ट, (वाया) पुचक्कल, अलेप्पेय जिला, केरल.	डीएचएमएस	1981		केरल	20.3.82	2209		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11449/8802
495	डॉ० पंजवानी खानचन्द	भगवान दास पंजवानी	हाउस नं० 1194, जहॉगीराबाद, जबलपुर (मध्य प्रदेश).	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	15.2.83	8796		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11469/8819
496	डॉ० जी. पंकजावलै	गोपाला पिल्लई	श्री नारायणा विल्ला एन.—इ. —वार्ड, वैकॉम — 686141, कोट्टायम जिला, केरल.	डीएचएमएस	1975		केरल	7.11.75	1107		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11471/8821
497	डॉ० पन्नाकल जयाकुमार मथाई	मथाई पन्नाकल	मान्शी, एम.एस. बहुरत रोड़, कल्लई पो०, कालीकट, पिन— 673003, केरल.	डीएचएमएस	1984		केरल	24.8.84	2503		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11475/8825
498	डॉ० पनवाला रेखा तरुण	तरुण	6, विन्को अपार्टमेंट, चपेल रोड़, बान्द्रा (वेस्ट), मुम्बई — 400050.	एलसीईएच	जनवरी, 72		महाराष्ट्र	28.03.72	4597		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11493/8839

499	डॉ० पारेख देवेन्द्र ठाकोरलाल	पारेख ठाकोरलाल	खड़िया पोले-2, राजमहल रोड़, बड़ौदा- 390001 (गुजरात).	डीएचएमएस			गुजरात	15.12.81	जी: 539		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11575/8901
500	डॉ० परमार चिमनभाई फकीरभाई	परमार फकीरभाई	खादोधी, तालुक- कामबे, जिला- आनंद, पिन- 388610, गुजरात.	डीएचएमएस			गुजरात	28.2.86	जी: 1108		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	11636/8943
501	डॉ० परमार दादुभा	परमार किरटशीश	अराधना पार्क, एल-56, मेघनी रोड़, मेघनी बाग स्वीमिंग पुल के सामने, सुरेन्द्रनगर, पिन- 363002, गुजरात.	डीएचएमएस			गुजरात	30.4.86	जी: 1159		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11637/8944
502	डॉ० पटेल अशोककुमार पुनमभाई	पटेल पुनमभाई	'धनन्जय क्लीनिक' 'आजाद चौक' ऐट- कंजारी, तालुक- नंदीद, जिला- खेदा.	डीएचएमएस			गुजरात	30.9.86	जी: 1247		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11713/9004
503	डॉ० पटेल भानुभाई छगनभाई	पटेल छगनभाई	ऐट./पो.- गमभाई, तालुक- हिममतनगर, जिला- साबरकांठा, गुजरात.	डी.एम.एस.			गुजरात	3.12.81	जी: 531		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11736/9018
504	डॉ० पटेल भानुप्रसाद हंसराजभाई	हंसराजभाई पटेल	'गायत्री क्लीनिक', मेगानगर के पास, परनचानी रोड़, नादिया - 387002.	डीएचएमएस			गुजरात	21.10.87	जी: 1530		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11737/9019
505	डॉ० पटेल दीपक रमनलाल	पटेल रमनलाल	ए-5, गोवर्धन पार्क सोसायटी, नतीबनगर सोसायटी के सामने, हरनी रोड़, वड़ोदरा - 390022.	डीएचएमएस			गुजरात	23.4.86	जी: 1158		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11793/9063
506	डॉ० पटेल गुरुसरन	पटेल मुन्नीभाई	सुषरूत क्लीनिक, ऐट./पो. /तालुक- नाशादी - 391150 (गुजरात).	डीएचएमएस			गुजरात	18.2.85	जी: 959		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11805/9071
507	डॉ० पटेल ईकबाल बी.	वाली भाई	दाऊद शहीद चौक, याकुतपारा, बड़ौदा - 390006.	डीएचएमएस			गुजरात	29.6.77	जी: 197		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11830/9095
508	डॉ० पटेल जयंतिलाल जादव भाई	पटेल जादव भाई	3, नवलनगर, "श्रीजी सदन" मवड़ी रोड़, राजकोट - 4.	डीएचएमएस			गुजरात	20.4.87	जी: 1359		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11854/9112
509	डॉ० कमलेश नतुभाई पटेल	नतुभाई पटेल	15/नेहरू नगर सोसायटी, बस डिपो के सामने, ऐट. जम्बुसर, जिला- भरुच, पिन- पिन- 392150, गुजरात.	डीएचएमएस			गुजरात	20.12.85	जी: 1056		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11876/9126
510	डॉ० पटेल कमलेशकुमार शांतिलाल	पटेल शांतिलाल	16, नंदनवन को.-ऑप. सोसायटी, अमुल डेयरी रोड़, आनंद, गुजरात.	डीएचएमएस			गुजरात	20.2.86	जी: 1080		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11878/9127

511	डॉ० पटेल मनीष कुमार गोकल भाई	पटेल गोकल भाई	13, वैभव सोसायटी, कलेक्टर रेजिडेंस, बी./एच. गनेश डेयरी, आनंद — 388001.	डीएचएमएस			गुजरात	20.3.86	जी: 1127		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11931/9171
512	डॉ० पटेल मोहनभाई दानाभाई	पटेल दानाभाई	आस्था मेडिकेयर, ऐट.पो. तालुक— सतलासना, जिला— मेहसाणा, 384330 (गुजरात).	डीएचएमएस			गुजरात	24.2.84	जी: 812		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11935/9175
513	डॉ० पटेल मुकेशकुमार रमेशभाई	पटेल रमेशभाई	'सतसंग' विजय ईस्टेट तसादी, कोसंबा (आर.एस.) जिला— सूरत, गुजरात, पिन— 394120.	डीएचएमएस			गुजरात	20.8.87	जी: 1453		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11946/9185
514	डॉ० पटेल प्रविनभाई रेवाभाई	पटेल रेवाभाई	13/बी, वीरविजय सोसायटी, संगवी स्कूल के पास, नारणपुरा, अहमदाबाद — 13, गुजरात.	डीएचएमएस			गुजरात	20.4.87	जी: 1366		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	11998/9226
515	डॉ० अकाली दिलीपसिंह होलासिंह	होला सिंह	दीप गीत सी.एच.एस. प्लॉट—1016, सेक्टर—15, नेरूल, नवी मुम्बई—400706.	एलसीईएच	1977		महाराष्ट्र	2.5.1978	6165		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	395/287
516	डॉ० सुरतिया हरेन्द्रसिंह	बलवन्त सिंह सुरतिया	ऐट एण्ड पोस्ट ऑफिस—जनूर, तालुक एण्ड जिला—भारुच, गुजरात.	डीएचएमएस			गुजरात	17.4.84	जी— 843		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	18219/14031
517	डॉ० अम्पत जैकब थोमस (जैकब थोमस ए)	सी.टी. थोमस	अम्पत हाउस, थिरुवल्ला, पोस्ट ऑफिस—थिरुवल्ला (वाया), पटानमथिता, जिला—केरल, पिन—689589.	डी.एच.एम.	1978		केरल	9.11.1978	1718		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5810/4442
518	डॉ० वाझाकला ओलहानन थोमस वी.ओ.)	थोमस ओलहानन	वझाकला (एच) थिरिकोथामंगलम, पोस्ट ऑफिस—कोट्टयाम, जिला—केरला, 686011.	डीएचएमएस	1979		केरला	26.6.1981	2114		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	18797/14469
519	डॉ० प्रबीन कुमार घोष	पी.सी. घोष	राजामैडम रोड (कलिस्थान), जोरहाट—1, असम.	डीएचएमएस	1985		असम	26.9.86	183		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	<u>4797/3676</u> CCH-380
520	डॉ० मिण्डा अशोक कुमार	तुलसी राम मिण्डा	159, मनु कुटीर, दौसा गेट, संगानेर, जयपुर.	डीएचएमएस	1981		राजस्थान	28.7.82	2694		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	1968/1494
521	डॉ० बादशाह नन्दकिशोर	नन्दकिशोर	303, राजनीलुम, डॉ० आर० पटेल रोड, अपॉजिट ब्रिच कैन्डी हॉस्पिटल, मुम्बई—400026.	एलसीईएच	1974		महाराष्ट्र	5.2.1975	5397		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	1066/803

522	डॉ० भांगदे बिपिन रामजी	रामजी	510, मेवावला निवास, एम.जी. रोड, मुलन्द (डब्ल्यू), मुम्बई-400080.	एलसीईएच	1985		महाराष्ट्र	3.4.1986	13920		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	1650/1252
523	डॉ० चण्डीरमाणी श्याम	दयाल	83/4, जल दर्शन, नेपन सी रोड, मुम्बई-400036.	एलसीईएच	1976		महाराष्ट्र		5842		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	1926/1465
524	डॉ० भट्ट निरंजन दोलरकुमार	डॉलर कुमार	एच-113, नूतन नगर, गुरु नानक रोड, बान्द्रा, मुम्बई-400050.	एलसीईएच	1972		महाराष्ट्र	22.2.72	4576		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	1883/1432
525	डॉ० राजेश्वरी भट आर.	रामचन्द्र भट	डब्ल्यू/ओ डॉ० एम.आर. प्रकाश, आर्दशा क्लीनिक, के. आर. एक्सटेंशन, बी.एच. रोड, तिपतुर-572202, कर्नाटक.	एलसीईएच	1984		कर्नाटक	29.1.85	3132		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	1887/1436
526	डॉ० कोठारी कल्पना कमलेश	जादवजी	1902, त्रिदेव टॉवर, भक्ती मार्ग, मुलन्द (डब्ल्यू), मुम्बई-400080.	एलसीईएच	1983		महाराष्ट्र	29.1.86	11115		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	1679/1278
527	डॉ० बनसोड शरद तुलसीराम	तुलसीरामजी	ऐट-पोस्ट जारुद, तालुक-वारुद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र.	डीएचएमएस	1986		महाराष्ट्र	18.6.81	8262		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	1346/1016
528	डॉ० शर्मा त्रिलोक चन्द	लकश्री राम	वी.पी.ओ. लम्बलू, जिला-हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), पिन-177029.	डीएचएमएस			हिमाचल प्रदेश	31.1.89	56-ए		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	3260/2509
529	डॉ० कुलदीप अंगीरस	के.डी. शर्मा	विलेज/पोस्ट ऑफिस-सराहकार, तहसील/जिला-हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) 177027.	डीएचएमएस			हिमाचल प्रदेश	30.6.87	46-ए		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	3279/2525
530	डॉ० देसाई अशोक सुबराव		ऐट/पो-दुन्दगे, तालुक-गडिंगलज, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र.	जी.सी.ई.एच.	1982		कर्नाटक	8.2.1983	2738		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	3488/2660
531	डॉ० दादु लाल देशमुख	किशनलाल देशमुख	पाण्डिया छपरा केआलरी सिओनी (म0प्र0) 480996.	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	20.12.82	8718		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	3560/2713
532	डॉ० गोपाला पिलई पारुकुत्तयम सथी देवी (सथी देवी जी. पी.)	आर. गोपाला पिल्लई	'रेशमी' अट्रा-37, प्लेस रोड, अतिंगल-695101.	डीएचएमएस	1977		केरला	9.3.1977	1403		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	3773/2876
533	डॉ० दरदा विजयकुमार मोतीलाल	मोतीलाल	2432, एम.जी. रोड, अदत बाजार, ए/पी-घोदनदी, जिला-पूना (महाराष्ट्र).	एलसीईएच	1983		महाराष्ट्र	7.2.1984	10834		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	3150/2414

534	डॉ० ओसतवाल चन्दा ग्यानचन्द	विमल चन्द	16, हिवरी लेआउट, अपॉजिट-पियशन्त स्कूल, नागपुर-440008.	डीएचएमएस	1979		महाराष्ट्र	12.2.1981	7875		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	3044/2333
535	डॉ० आर. देवाशंकर	पी. राजादोराय	राजपोन इल्लम, आर.एच.-146, इल्लिस नगर, मदुरई-10.	डीएचएमएस			तमिल नाडू	19.9.80	145		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	3704/2826
536	डॉ. के.के. चन्द्रमथी	के.पी. कुमारन	पराप्पिल हाउस, पुहहापरा, पोस्ट ऑफिस, अलाप्पुझे, केरला, पिन-688004.	डीएचएमएस	1984		केरला	18.4.84	2447		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	2443/1870
537	डॉ० चौधरी सुधाकर धर्मा	धर्मा	ऐट/पोस्ट-नीमभोरा, तालुक-रॉवर, जिला-जलगाँव, महाराष्ट्र.	डीएचएमएस	1979		महाराष्ट्र	14.3.80	7137		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	2966/2277
538	डॉ० चवन दीपा अन्नासाहेब		बी-1, हाईवे अपार्टमेन्ट सिओन त्रोमबय रोड, मुम्बई-440022.	एलसीईएच	1976		महाराष्ट्र	28.3.77	5865		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	2604/1993
539	डॉ० गुप्ता ओम प्रकाश	सन्नुलाल गुप्ता	वार्ड न०.34, हाउस न०.1050, नियर मॉर्डन स्कूल, कमल सिंह का बाग, सिन्दे की छावनी लसकर, ग्वालियर, (म०प्र०).	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	7.1.1985	9452		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5283/4040
540	डॉ० गुप्ता रामेश्वर शंकर लाल	शंकर गुप्ता	52, सुभाष मार्ग, दत्ताहरी चौक, नियर लक्ष्मी टेम्पल, श्रीराम औशधालय कुकशी, धार, (म०प्र०) 454331.	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	22.1.76	7098		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	5325/4074
541	डॉ० दिनेश कुमार गोयल	रामेश्वर प्रसाद	बी-39/40, गोयल क्लीनिक, दयानन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, जयपुर-302004.	डीएचएमएस	1983		राजस्थान	30.10.85	3113		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5063/3878
542	डॉ० गोस्वामी सुधाकर शंकरगिर	शंकरगिर	ऐट/पोस्ट-सुरजी अंजनगाँव दुर्गा नगर, तालुक-सुरजी अंजनगाँव, जिला-अमरावती, 444728.	डी.एच.बी.	नवम्बर, 1973		महाराष्ट्र	27.5.74	5139		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5026/3852
543	डॉ० गुजलवर भैया धोनदोपन्त		ऐट/पोस्ट ऑफिस-सलोद, वाया-अकोला बाजार, तालुक/जिला-यवतमाल, महाराष्ट्र.	डीएचएमएस	1978		महाराष्ट्र	25.9.78	6365		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5101/3905
544	डॉ० गुजर नलिनी सदाशिव	सदाशिवराव	नियर जैन मन्दिर, बड़ा बाजार, मलकापुर-443101 (महाराष्ट्र).	डीएचएमएस	दिसम्बर, 1979		महाराष्ट्र	19.9.81	8500		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5103/3907
545	डॉ० गुजराथी अनिलकुमार नवनितलाल	नवनित लाल	श्रीजी हॉस्पिटल गोडहोले लेन, परोला, जिला-जलगाँव, पिन-425111.	डीएचएमएस	अप्रैल, 1978		महाराष्ट्र	4.1.1979	6501		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5107/3911

546	डॉ० गुलहने रमेश पाण्डुरंग		वार्ड न०.34, तिलकवाडी, बिहाईन्ड 'गुप्ता बिल्डिंग' यवतमाल.	डीएचएमएस	1979		महाराष्ट्र	27.2.80	7092		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	5138/3930
547	डॉ० गुप्ता प्रदीप रामकिशन		प्लॉट न०.332, गौंधी नगर, नागपुर-10.	डीएचएमएस	मई, 1980		महाराष्ट्र	16.10.80	7594		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	5292/4048
548	डॉ० गुप्ता सुभाष सीताराम	सीताराम	सी/ओ श्री विनायक टेडर्स, अपॉजिट सिटी पुलिस स्टेशन, मेन रोड, गोन्डिया.	डीएचएमएस	1979		महाराष्ट्र	13.6.80	7359		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5371/4111
549	डॉ० हतनगर जयन्त लक्ष्मणराव	लक्ष्मणराव	ऐट एण्ड पोस्ट -पोहरा, तालुक-लखानी, जिला-भण्डारा (महाराष्ट्र).	डी.एच.बी.	1975		महाराष्ट्र	28.2.76	5620		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5556/4250
550	डॉ० हेमंग जे. महिहतुरा	जतिन	701, परशवा, 91-डी, बनगंगा रोड, मुम्बई-40006.	एलसीईएच	1983		महाराष्ट्र	19.7.85	12787		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5583/4271
551	हिंगे वसन्त बापुराव	बापुराव	ऐट/पोस्ट-अलीपुर, तालुक-हिंगाघाट, जिला-वरधा.	डी.एच.बी.	अप्रैल, 1974		महाराष्ट्र	3.6.1976	5673		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5600/4283
552	डॉ० लैला सुल्तान विरानी (लैला तपुभाई हुडा)	तपुभाई	14/बी-6, हुडा होम्योपैथिक फार्मसी, मनीष नगर सी.एच. एस. जे.पी. रोड, अंधेरी (वेस्ट) 400053.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1976		महाराष्ट्र	28.3.77	5867		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5646/4319
553	डॉ० इम्रियाज निसारली	निसारली	101, कोहिनूर अपार्टमेन्ट यरी रोड, वेरसोवा, मुम्बई-400061.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1983		महाराष्ट्र	24.1.86	11144		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5706/4362
554	डॉ० इनामदार गजानन दिगम्बर	दिगम्बर	चैतन्या हॉस्पिटल, ऐट/पोस्ट-वदय, तालुक-खाटवा, जिला-सतारा.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1978		महाराष्ट्र	24.1.86	6624		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5708/4363
555	डॉ० बोरा महेश पन्नालाल	पन्नालाल	बोरा हॉस्पिटल, 589, गणेश पीठ, पुणे-4110002.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1986		महाराष्ट्र	20.3.87	15074		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5760/4406
556	डॉ० जडेजा महेन्द्र मेरामनजी	मेरामनजी	502, सुन्दर अपार्टमेन्ट, मजगाँव, मुम्बई-400010.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1980		महाराष्ट्र	4.4.1981	8058		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5815/4447
557	डॉ० जाधव अशोक गोपालराव	गोपालराव	502, पारले पियरल सी.एच.एस. जी.बी. इन्दुलकर मार्ग, विले पारले (ईस्ट), मुम्बई-400057.	एलसीईएच	मई, 1964		महाराष्ट्र	1.9.1964	2974		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5822/4453
558	डॉ० जाधव भौसाहेब शंकर	शंकर	ऐट/पोस्ट-कुम्भहरी, तालुक-निफड, जिला-नासिक.	डीएचएमएस	अप्रैल, 1979		महाराष्ट्र	17.12.79	6988		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5824/4455
559	डॉ० जाधव प्रदीपकुमार बुवासाहेब	बुवासाहेब	हाउस न०.2305, ऐट/पोस्ट-करमला, जिला-सोलापुर, पिन-413203.	एलसीईएच	जुलाई, 1981		महाराष्ट्र	22.6.84	11346		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5846/4470

560	डॉ० जाधव सुरेशराव मरोतराव	मरोतराव	ऐट/पोस्ट-तलनी, तालुक-हदगाँव, जिला-नांदेड, पिन-431743.	डीएचएमएस	अप्रैल, 1978		महाराष्ट्र	25.9.78	6352		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5858/4480
561	डॉ० जाधव यशवन्त आन्नदराव	आन्नदराव	ए/पी-मिनाची, तालुक-हटकोनंगल, जिला-कोल्हापुर, पिन-416109.	जी.सी.ई.एच.	नवम्बर, 1984		महाराष्ट्र	5.1.1988	15948		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5863/4483
562	डॉ० चन्द्रकान्त वमन जगदले पाटिल	वमन पाटिल	1, लक्ष्मी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी, नरदास नगर, टीपी. रोड, भनदुप (वेस्ट) मुम्बई-400078.	जी.सी.ई.एच.	मई, 1984		महाराष्ट्र	7.10.1985	13067		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5885/4500
563	डॉ. जगियासी किशिन पहिलाजराय	पहिलाजराय	बी.के.-945, आर/11, 12 सेक्टर-22, उल्हासनगर-3, जिला-थाणे (महाराष्ट्र).	एलसीईएच	1969		महाराष्ट्र	28.4.70	4163		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5894/4509
564	डॉ० जैन अरविन्द उमरावचन्द	उमरावचन्द	शॉप न०. 3, नैक चुवल नटवर नगर रोड न०.1, जोगेश्वरी (ईस्ट) मुम्बई-60 (महाराष्ट्र).	एलसीईएच	दिसम्बर, 1983		महाराष्ट्र	24.4.84	11143		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5934/4539
565	डॉ० जैन दयाचन्द चौदमलजी	चौदमल	ऐट/पोस्ट-नन्दसावंगी, तालुक-नंदगाँव, खण्डेश्वर, जिला-अमरावती, 444701.	डी.एच.बी.	अप्रैल, 1972		महाराष्ट्र	14.9.72	4706		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5964/4560
566	डॉ० बिजोय गुप्ता	डी.पी. गुप्ता	ई.ए.-1/64, इन्द्रपुरी, न्यू दिल्ली-110012.	डीएचएमएस			दिल्ली	16.12.87	बी.एच. एस.डी. /1868		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5193/3972
							राजस्थान	8.9.87	3320			5388/4125
567	डॉ० गुम्बर केवल कृष्णन	जगन नाथ गुम्बर	22 बी नई धन मण्डी, हनुमान गढ़ टाउन, पिन-335513.	डीएचएमएस	नवम्बर, 1981		पंजाब	17.12.81	510		के० हो० परिषद् अधिनियम 1973 की धारा 25(1) के तहत हटाए गए	5148/3937
568	डॉ० गुप्ता शंकर लाल	ग्यासी राम गुप्ता	ग्राम+पोस्ट ऑफिस-मउसहानिया, जिला-छततरपुर (म०प्र०)	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	23.12.81	8454		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	5356/4099
569	डॉ० अंगादला गाँधी	ए. हनुमन्था राव	डोर न०. 59.5.22, पी एण्ड टी कॉलोनी, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, राजामुवद्री-5 (आन्ध्र प्रदेश).	डीएचएमएस			आन्ध्र प्रदेश	2.12.72	3017		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4457/3418

570	डॉ० ए.वी. डौली (डौली जार्ज)	वरगिस ए. के.	वडाक्ककुन्नेल, चुन्नाम, इरनहोली, पोस्ट ऑफिस, थलाससरी-670107, कन्नूर जिला.	डीएचएमएस	1978		केरला	20.4.78	1686		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4117/3144
571	डॉ० डिवडे मोहम्मद शाफी मोहम्मद सिद्धिकी	सिद्धिकी	ऐट एण्ड पोस्ट ऑफिस-तलोजा, तालुक-पनवेल, जिला-रायगड, महाराष्ट्र, पिन-410208.	एलसीईएच	1977		महाराष्ट्र	11.7.1977	5934		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4007/3061
572	डॉ० मिसेज गौंधी सरिता अतुल (मिस दोबहडा सरिता हुकुमचन्द)	हुकुमचन्द	श्री हॉस्पिटल, संग्राम नगर, ऐट/पोस्ट-अकलुज, जिला-सोलापुर, स्टेट महाराष्ट्र.	एलसीईएच	1985		महाराष्ट्र	25.7.86	14344		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4042/3886
573	डॉ० दोशी सुजाता अमोद	गज कुमार	एम/6, प्रथमेश सोसायटी वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई-400025.	एलसीईएच	1982		महाराष्ट्र	28.3.85	12430		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	<u>4062/3102</u> CCH- 42
574	डॉ० दोये दीपक मधुकर राव	मधुकर राव	पाल चौक, रेल टोली, गोनडिया.	डीएचएमएस	1980		महाराष्ट्र	17.8.83	10263		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4070/3107
575	डॉ० उत्तमराव पी. दोईफोडे	पाण्डुरंगजी	ऐट/पोस्ट-वाडनेर गंगई, तालुक-दरयापुर, जिला-अमरावती.	डीएचएमएस	1980		महाराष्ट्र	16.3.81	7952		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4109/3137
576	डॉ० दोईजद रुखमनगद बालाजी		ऐट-काटली, पोस्ट ऑफिस-साखरा, तालुक/जिला- गडचिरोली.	डीएचएमएस	1978		महाराष्ट्र	25.6.79	6717		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4110/3138
577	डॉ० दोशी अरिनजय धनंजयाकुमार	धन्याकुमार	विपुलहर्ष हॉस्पिटल, पोस्ट रोड, कुरदुवाडी-413208, जिला-सोलापुर.	एलसीईएच	1981		महाराष्ट्र	2.1.1984	10745		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	4137/3163
578	डॉ० दोशी दीपक अमृतलाल	अमृत लाल	3, हुमलुत सोसायटी, ग्राउण्ड फ्लोर, शंकर लेन, कान्दीवली (वेस्ट), मुम्बई-400064.	एलसीईएच	1983		महाराष्ट्र	24.4.84	11172		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4139/3165
579	डॉ० दोशी निरंजन विजयकुमार	विजय	'ओम' प्लॉट न०.10, नागई कॉलोनी, चाँदवाड, जिला-नासिक, 423101, महाराष्ट्र.	एलसीईएच	जून, 1984		महाराष्ट्र	26.2.85	12275		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4148/3173
580	डॉ० दोशी संतोष कान्तीलाल	कान्तीलाल	जीवन ज्योथ हॉस्पिटल, इसाबावी, पन्ढारपुर, सोलापुर, पिन-413304.	एलसीईएच	1983		महाराष्ट्र	9.1.1984	10758		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4155/3178

581	डॉ० दुददो सत्याजीत पन्नाचन्द	पन्नाचन्द	ऐट/पो.—कुरोली, सिद्धेश्वर, तालुक—खाटव, जिला—सतारा, महाराष्ट्र, 415527.	जी.सी.ई.एच.	1984		महाराष्ट्र	8.5.1985	12491		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4187/3203
582	डॉ० गाँधी सुभदा अजीतकुमार (दुददो शुभदा पन्नाचन्द)	पन्नाचन्द	ऐट/पो.—यावत, तालुक—दाउण्ड, जिला—पुणे, महाराष्ट्र, 412214.	एलसीईएच	1985		महाराष्ट्र	4.6.1986	14184		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4188/3204
583	डॉ० दुरतकार नन्दकिशोर लक्ष्मणराव	लक्ष्मणराव	ओल्ड टाउन बदनेरा तालुक, जिला—अमरावती.	डीएचएमएस	1979		महाराष्ट्र	1.2.1981	7864		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4207/3217
584	डॉ० फर्नांडिस जॉन जुजेलुईस	जुजेलुईस	5/7, जोसफ नर्सिंग होम, होदावाडा, वेंगुरला सिन्धुदुर्गा—416527.	एलसीईएच	जनवरी, 1982		महाराष्ट्र	26.10.82	9508		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4320/3304
585	डॉ० फन्डे महादेव पुन्डलिक		ऐट/पोस्ट ऑफिस—भुटे ताकली, तालुक—पत्थरदी, जिला—अहमदनगर (महाराष्ट्र).	डीएचएमएस	दिसम्बर, 1979		महाराष्ट्र	16.6.81	8272		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4346/3324
586	डॉ० हेब्लकर गीता तुशार (गदा गीता धन्जी)	राघवजी	बी-6, दीप ज्योति सोसाईटी नेस्ट टू वन्दना सोसायटी, एल. बी.एस. मार्ग, नउपदा थाने (वेस्ट) 400602, मुम्बई, महाराष्ट्र.	एलसीईएच	1978		महाराष्ट्र	21.7.78	6291		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4352/3330
587	डॉ० गदा प्रकाश दामजी	दामजी	सरस्वती धाम, 5 फ्लोर, वी.एम. मार्ग, गोखल रोड (नार्थ), दादर, मुम्बई—400028.	डीएचएमएस	1984		महाराष्ट्र	18.12.84	11982		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4355/3333
588	डॉ० गडेकर सखाराम किसन	किसन	ऐट+पोस्ट—धरगाँव, तालुक—संगमनेर, जिला—अहमदनगर (महाराष्ट्र).	जी.सी.ई.एच.	जून, 1981		महाराष्ट्र	7.8.1987	15518		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4367/3344
589	डॉ० गडेवर दिलिप उधवारराव	उधवारराव	वैशमवी अपार्टमेन्ट, फ्लैट न०.2 (3 एण्ड 4) न०. प्लॉट न०.322, न्यू सुभेदार, नागपुर—440024.	डीएचएमएस	अप्रैल, 1978		महाराष्ट्र	12.2.1979	6561		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	<u>4370/3346</u> CCH- 290
590	डॉ० गडवानी थानवर करमचन्द	करमचन्द	देवली रोड, दयाल नगर सिन्धी कॉलोनी, वरधा.	डीएचएमएस	दिसम्बर, 1979		महाराष्ट्र	9.3.1981	7912		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4385/3360
591	डॉ० गईधने मीताराम लक्ष्मण	लक्ष्मणराव	ऐट+पोस्ट ऑफिस—संगदी, तालुक—सकरोली, जिला—भण्डारा.	डीएचएमएस	दिसम्बर, 1979		महाराष्ट्र	3.1.1981	7763		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4389/3363
592	डॉ० गायकवाड भीमराव गोविन्दराव	गोविन्दराव	ऐट/पोस्ट—देवलगाँव कोलकत्ता, तालुक—सिन्दखेड, जिला—बुलदना, महाराष्ट्र.	डीएचएमएस	नवम्बर, 76		महाराष्ट्र	22.6.77	5914		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4393/3367

593	डॉ0 गाँधी अशोक बाबूलाल	बाबूलाल	'कलपल्लू' बाजार पीठ, रहमतपुर-415511, सतर जिला.	जी.सी.ई.एच.	नवम्बर, 1985		महाराष्ट्र	16.3.88	16219		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4458/3419
594	डॉ0 गाँधी अतुल धन्याकुमार	धन्या कुमार	श्री हॉस्पिटल, संग्राम नगर, ऐट/पोस्ट-अकलुज, जिला-सोलापुर, 413101, महाराष्ट्र.	एलसीईएच	1983		महाराष्ट्र	23.8.85	12891		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4459/3420
595	डॉ0 गरिबा दीप्ति चन्दूलाल	चन्दूलाल	807, हिमाचल, जुहु लेन, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई.	एलसीईएच	1985		महाराष्ट्र	16.10.85	13118		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4582/3518
596	डॉ0 गावण्डे मनोहर दामोदर	दामोदर	ऐट+पोस्ट ऑफिस-हिवरखेड (रूप), तालुक-तेलहरा, जिला-अकोला, 444103.	डीएचएमएस	मई, 1980		महाराष्ट्र	22.4.81	8118		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4622/3547
597	डॉ0 गेमननी इन्द्रलाल तख्तामल	तख्तामल	रामपुरी कैम्प, पोस्ट ऑफिस-शिवाजी नगर, अमरावती 444603.	डी.एच.बी.	1973		महाराष्ट्र	16.8.73	4923		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4726/3619
598	डॉ0 घाडगे नारायण उत्तमराव	उत्तमराव	कृपा हॉस्पिटल कामगर नगर, सापुर, नासिक-7.	डीएचएमएस	नवम्बर, 1980		महाराष्ट्र	19.5.81	8161		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4729/3622
599	डॉ0 घरे तनजी लक्ष्मण	लक्ष्मण	घरे क्लीनिक, एम.जी. रोड, तालुक-हवेली, उरुलिकंचन, पुणे, 412202 (महाराष्ट्र).	एलसीईएच	मई, 1979		महाराष्ट्र	11.7.1980	7372		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4750/3642
600	डॉ. घोडेकर अशोक मुरलीधर	मुरलीधर	घोडेकर माला, जोरुई रोड, नियर एसटी. मैरी चर्च, ऐट/पो. संगमनेर, जिला-ए. नगर, 422605 (महाराष्ट्र).	एलसीईएच	1985		महाराष्ट्र कर्नाटक	24.3.88 2.6.86	16248 3421		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4775/3659
601	डॉ0 घोडकी सिद्धेश्वर हरी भाउ	हरीभाउ	ऐट/पोस्ट-गुमनी, तालुक-बुलदना, जिला-बुलदना, महाराष्ट्र.	डी.एच.बी.	अप्रैल, 1972		महाराष्ट्र	21.3.73	4852		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4777/3661
602	डॉ0 घोरपडे शाहजीराव भाउराव	भाउराव	ऐट/पोस्ट-वानदरी, तालुक-संगमेश्वर, जिला-रतनगिरी.	डीएचएमएस	मई, 1980		महाराष्ट्र	19.9.80	7541		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4789/3669
603	डॉ0 घोटिकर अविनाश भानुदास	भानुदास	'भानू रतना' क्लीनिक, ऐट/पोस्ट/ताल-पलुस, जिला-संगली, पिन-416310.	एलसीईएच	दिसम्बर, 1980		महाराष्ट्र	2.7.1986	14271		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4805/3681
604	डॉ0 गोधिया त्रिभोवन किशनचन्द	किशनचन्द	'दर्शन' फ्लैट-7, दत्ता मन्दिर रोड, दहनुकर वाडी, कान्दीवली (वेस्ट) मुम्बई-400067.	एलसीईएच	1963		महाराष्ट्र	17.3.81	2850		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4885/3737

605	डॉ० गोयल सुभाष किशोरीलाल	किशोरीलाल	40, बॉम्बे पुणे-पुणे रोड, किरकी, पुणे-411003.	एलसीईएच	मई, 1983		महाराष्ट्र	30.9.83	10515		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4905/3753
606	डॉ० दातर संगीता मकरन्द	विश्वानाथरा व	अभिषेक, 14, सनेवदी, आई.टी. आई. रोड, अनुघ, पुणे-411007.	एलसीईएच	जनवरी, 1985		महाराष्ट्र	29.5.85	12564		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4925/3771
607	डॉ० ओमप्रकाश पुन्डलिकराव गोरे	पुन्डलिकरा व	हरिहर पीठ वासलिम रोड, ओल्ड सिटी अकोला-444002.	डी.एच.बी.	अप्रैल, 1974		महाराष्ट्र	7.10.1974	5296		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4973/3809
608	डॉ० गोरादिया रजनी विठलदास	विठल दास	लक्ष्मी भुवन, 9थ रोड, खर, मुम्बई-400052.	एलसीईएच	1961		महाराष्ट्र	13.3.62	2377		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4975/3810
609	डॉ० गोर्धनदास जयेश रतनलाल	रतनलाल	10/बी, धीरज अपार्टमेन्ट्स, 11 पिद्दर रोड, मुम्बई-400026.	एलसीईएच	1983		महाराष्ट्र	23.11.83	10579		फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4976/3811
610	डॉ० दूबे कमल नाथ	छोटे लाल दुबे	पी-290, जे.डी. ए-5, विकास नगर, बिहाईन्ड के.यू. मण्डी, जबलपुर-482002 (म०प्र०).	डी.एच.बी.			मध्य प्रदेश	25.8.72	5704		सूचना प्राप्त नहीं हुआ	<u>4104/3132</u> CCH- 43
611	डॉ० फनी भूषण देवा गोस्वामी		सी/ओ कमला होम्यो. क्लीनिक, पोस्ट ऑफिस-कैथलकुची, जिला-नलबरी, पिन-781370, (असम).	डीएचएमएस	जुलाई, 1983		असम	16.11.84	109		Removed (for Want of Authority granted State Registration & date thereof)	4997/3829

डॉ. ललित वर्मा
रजिस्ट्रार

सं. 13-32/2011-के.हो.प./के.हो.र. भाग-II/1993/बहाल—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (पंजीकरण) विनियम 1982 के विनियम 9 जिसे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 की 59वीं) की धारा 21 एवं 15 के साथ पढ़ा जाए, पंजिका जिसे केन्द्रीय होम्योपैथी पंजिका के नाम से जाना जाता है। (जिसे भारत के राजपत्र में 02.01.1993 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त राजपत्र से हटाये नामों को भारत के राजपत्र दिनांक 09.08.2008 में छापा गया था) के कुछ पुनः स्थापित नामों को भारत के राजपत्र में, दिनांक मई 18, 2013 में प्रकाशित सूची की तारतम्यता में कुछ और नाम पुनः स्थापित कर साधारण सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं।

डॉ. ललित वर्मा
रजिस्ट्रार

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता (क) निवास स्थान (ख) व्यवसाय	राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकृत हैं तथा राज्य रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी	राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण दिनांक	राज्य रजिस्टर में दिया गया रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	यदि केन्द्रीय रजिस्टर से हटाया गया है, तो उसकी तारीख और उसका/उसके कारण	टिप्पणियां मूल केन्द्रीय पंजिका भाग II जो 02.01.93 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था के क्र.सं./केन्द्रीय पंजिका जो अगस्त 9, 2008 में प्रकाशित हुआ था से हटाये चिकित्सको के नामों की क्र.सं.
431	डॉ० जोगेश चन्द्र दास		ग्राम+पो.— औरेंज, जिला— उदलगुरी (दारंग), असम, पिन— 784114.	असम	10.8.78	1208	फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	4357/3640
432	डॉ० मजूमदार सिसिर कान्ति	अविनाश चन्द्रा मजूमदार	मजूमदार होमियो क्लिनिक, बिधानपल्ली, पो०— नोना चंदनपुकुर, कोलकाता — 700122, वेस्ट बंगाल.	हरियाणा	7.12.77	2704	फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	13038/10966
433	डॉ० धनशाम सचदेवा	जीवन दास सचदेवा	99—एल., मॉडल टाउन, करनाल — 132001.	हरियाणा	24.2.77	717	फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	22409/18358
434	डॉ० विक्रम बहनोत	वी. बी. बहनोत	मकान नं० बी— 111/469, पुराना बाजार, लुधियाना, पंजाब.	हिमाचल प्रदेश	15.6.85	473—बी	वापसी	2599/2149
435	डॉ० उज्जागर सिंह	तारसेम सिंह	ग्राम.— लोहट, पो.— बालाचौर, जिला— एस.बी. एस. नगर, (पंजाब).	पंजाब	24.8.77	4421	फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	26744/22167
436	डॉ० प्रकाश चन्द मित्तल	जी.आर. मित्तल	मकान नं० 464, गली नं० 8, अहाता बदन सिंह मोगा — 142001 (पंजाब).	हिमाचल प्रदेश	15.6.85	476—बी	वापसी	13480/11337
437	डॉ० जगजीत हरि मित्तल	जी.आर. मित्तल	182, बी सन्नी एन्कलेव खरड़, जिला— मोहाली, (पंजाब), पिन— 140301.	हिमाचल प्रदेश	31.5.85	457—बी	वापसी	13476/11335
438	डॉ० एस. पूरन सिंह	हरनाम सिंह	ग्राम.पोस्ट ऑफिस— लोहियन मेन रोड़, तहसील— नाकोदर, जिला— जलंधर, (पंजाब).	पंजाब	14/15.2.76	2435—बी	फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	26803/22218
439	डॉ० सिंह रनवीर	करम सिंह	भारत फ्लोर मिलस के सामने, खुशी नगर डलहौस रोड़, पटानकोट, पंजाब.	पंजाब	5.8.77	4090—बी	फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	26872/22276
440	डॉ० सिंह प्रीत पाल	हरनाम सिंह	मकान नं० 6224, शहीद भगत सिंह नगर, गली नं० 3, अबोहर — 152116.	पंजाब	13.3.75	829—बी	फार्म 'एफ' प्राप्त नहीं हुआ	26799/22214

डॉ. ललित वर्मा
रजिस्ट्रार

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 22nd July 2014

No. A-12(11)/1/2013-Estt. I— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation Principal Private Secretary Recruitment Regulations, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Principal Private Secretary in the Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Principal Private Secretary Recruitment Regulations, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification, Pay Band and Grade Pay/Pay scale.— The number of posts, their classification, Pay Band and Grade Pay or Pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
3. The Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification. — No person, —
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. Power to relax. — Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, after taking the prior approval of the Central Government and in consultation with the Union Public Service Commission, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.
6. Residuary matters.— Subject to the provisions of these regulations, all other regulations and instructions, laid down in the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965 as amended from time to time, applicable to the corresponding category of posts in the Employees' State Insurance Corporation, shall apply to the post specified in the Schedule annexed to these regulations.
7. Savings.— Nothing in these regulations shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of Post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/Pay scale.	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Principal Private Secretary	18* (2014)* *(Subject to variation dependent on work load.)	Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600-39100 and Grade Pay Rs. 6600/-	Selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 Years	By promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion /deputation / absorption to be made.

(11)

Promotion :

Private Secretary with six years' regular service in Pay Band -2 in the pay scale of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 (including the service rendered as Private Secretary in Non-functional pay scale in Pay Band-3 in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100 with grade pay of Rs. 5,400/-).

Promotion shall be subject to completion of training for promotion to the post of Principal Private Secretary devised by the Employees' State Insurance Corporation.

Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training :

Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee.

Note1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended, based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Autonomous Bodies:

(A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department, or

(II) with 6 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800 in Pay Band-2 (including the service rendered as Private Secretary in Non-functional pay scale in Pay Band-3 in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400/,if any), or equivalent in the parent cadre/department and

(b) possessing 5 years experience in Stenography work (English/Hindi).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(The Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or

department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Insurance Commissioner (Recruitment), Employees' State Insurance Corporation - Member 3. Insurance Commissioner (P&A), Employees' State Insurance Corporation - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

A.K. AGARWAL
Director General

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

New Delhi

No. 13-32/2013-CCH/CRH-Part-I/1993/Restore—The Central Council of Homoeopathy in pursuance of regulation 9 of Homoeopathy Central Council (Registration), 1982, read with Sections 21 & 15 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), renews the Register known as Central Council of Homoeopathy (published in Gazette of India of 02.01.1993 and to read said Gazette with list of removed names notified in the Gazette of India on 19.07.2008) by restoring some names in a list being published in Gazette of India, dated 02.11.2013 and in continuation to it, some more names are being restored as being published in the Gazette of India for general information.

LALIT VERMA
Registrar

S. No.	Doctor's Name	Father's/ Husband's Name	Address a) Residential b) Professional	Qualifications a) General b) Medical	Date on which qualifications were obtained	Name of the institution from which registrable qualification were obtained	State in which Registered and the authority granting the State Registration	Date of registration in State Register	Registration number given in the State Register	Additional Medical qualification with date of obtaining and name of authority granting the qualification	Date and reason (s) for removal from the Central register, if any	Remarks: Entries of CRH S.No. in the principal Central Register Part-I Published on 02.01.93 & S.No. Published in list of name of practioners removed on 19 July, 2008.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	Dr. Divakaran Ajayan	Divakaran	Sreevilasam Kallickad, Arattupuzha PO., Via. Muthukulam, Alleppey Dt, Kerala, Pin. 690565.	DHMS	1983		Kerala	1.6.84	2471		Form 'F' Not Received	4003/3059
169	Dr. Dobhada Rajashree Harshavadan	Rajashree Harshavadan	992/23, Dobhada Surgical Nursing Home, Bhagwan Mahavir Path, Akluj - 413101, Maharashtra.	LCEH	May. 1985		Maharashtra	30.4.86	14081		Form 'F' Not Received	4041/3085
170	Dr. Dode Arvind Damodar		1319, Prasad Chambers, Opera House, Mumbai - 40004.	LCEH	Dec. 1964		Maharashtra	16.1.65	3089		Form 'F' Not Received	4046/3089
171	Dr. Gulab Singh Dodiya	Jujhar Singh Dodiya	Khimiakhedir Po. (Hatai), Nagda Juction, Dist. Ujjain (M.P.)	DHB			Maharashtra	27.5.86	9813		Form 'F' Not Received	4049/3091
172	Dr. D'silva Philomina	Francis D'silva	Alummoottil House (Karunya) Pulpally Po., Wayanad Dt., Kerala State, 673579.	DHMS			Kerala	20.3.82	2202		Form 'F' Not Received	4072/3109
173	Dr. (Mrs.) Turel Meherzin Cyrus	Noshir	170-A, Mahrugh Mansion, Ist Floor Lamington Cross Road, Mumbai - 400007.	LCEH	1985		Maharashtra	3.3.86	13826		Form 'F' Not Received	4082/3116
174	Dr. Dongare Ganeshsingh Rajahanssingh	Rajahanssingh	At. Khanajama Nagar, Po. Haram, Tq. Achokpur, Dt. Amravati (M.S.)	DHMS	1976		Maharashtra	4.12.78	6446		Form 'F' Not Received	4120/3127

175	Dr. Duragkar Pushpa Chakradhari	Chakradhari	Plot No. 424, New Subedar Layout, Coperation Colony, Nagpur.	DHB	1966		Maharashtra	29.10.86	3568		Form 'F' Not Received	4205/3215
176	Dr. Dutta Rathindra Nath	Debendra Nath Dutta	S-37, Maitry Vihar, PO.- S.E. Rly. (P) Complex, Bhubaneswar - 751023.	BHMS			Orissa	6.1.82	C/644		Form 'F' Not Received	4227/3229
177	Dr. Dwivedi Sushil Mohan	Jagdev Sharma	Surya Nagar, Dhola Bhata, Ajmer – 305001, (Rajasthan).	DHMS	1986		Rajasthan	25.10.86	3190		Form 'F' Not Received	4252/3251
178	Dr. S. John Sujatha	Eapen Enchakalodi	Flat No. 402, Mudiyl Apartment Karikkamuri, Kochi - 682011, Kerala.	DHM	1969		Kerala	1.10.69	492		Form 'F' Not Received	4262/3260
179	Dr. Elamma Erattamundakal Mathai	Mathai	Carmelite Provincial House, Nadavayal PO, Pin. 670721, Wayanad Dt., Kerala.	DHMS	1976		Kerala	11.3.76	1181		Form 'F' Not Received	4265/3263
180	Dr. Eliamma Madathiparambil Yohannan	M. P. Yohannan	Madathil Parambi House, Kokkappilly Po., Emakulam.	DHM	1976		Kerala	20.10.76	1354		Form 'F' Not Received	4274/3268
181	Dr. K. M. Elias	Kurain Mani	Karamayil, Koovappallil Malikiyil, Karikode Po, 686610, Kottayam, Kerala.	LRCHP	1962		Kerala	18.11.72	711		Form 'F' Not Received	4275/3269
182	Dr. Falfale Gangadhar Namdeo		At. Post. Mungi, Tahasil. Sheogaondi, A-Nagar, Pin. 414503, Maharashtra.	DHMS	Apr. 1977		Maharashtra	29.10.77	6008		Notice Received Undelivered	4287/3278
183	Dr. G. P. Farrington	Palani Velu G.	North Mettu Street, Thiruparankundram, Madurai - 625005.	DHMS	1983		Kerala	8.9.83	2357		Form 'F' Not Received	4291/3281
184	Dr. Farani Jaweed Ahmed M.D. Siddique	Siddique	Golden Nagar, Malegaon, Nasik, Pin. 423203.	LCEH	1973		Maharashtra	9.1.74	5077		Form 'F' Not Received	4300/3288
185	Dr. Fegade Ananda Laxman	Laxmanrao	At.Po. Salva, Tal. Dharmgaon, Dist. Jalgaon, 425121, (M.S.)	DHB	Apr. 1966		Maharashtra	17.11.67	3855		Notice Received Undelivered	4314/3299
186	Dr. Moyalan Vareed Francis	M.P. Vareed	Moyalan House 'Flower Niwas' Gramodharanam Road, Ollur - 680306, Trichur Dt., Kerala.	DHM	1975		Kerala	14.1.66	252		Form 'F' Not Received	4337/3317

187	Dr. Gaikwad Pandurang Baburao	Baburao	Parth Hospital, A/P Kedgam Station, Tal. Daund, Dist. Pune -412203.	LCEH	1985		Maharashtra	1.7.86	14261		Form 'F' Not Received	4396/3370
188	Dr. Gaikwad Ramrao Kisanrao	Kisanrao	Beauty Hill Society, Plot - 6/6, M-Sector, N-11, Hudco, Aurangabad - 431003. M.S.	DHMS	1980		Maharashtra	2.2.81	7836		Form 'F' Not Received	4398/3371
189	Dr. Gala Morarji Vijpal	Vijpal	9-Mahavir Darshan, Sanghani Estate, Ghatkopar, Mumbai - 400086.	DMS	1969		Maharashtra	6.10.79	6847		Form 'F' Not Received	4427/3396
190	Dr. Gandhi Geetali Pramod	Pramod	8, Dhavir Krupa, Varse Roha - Raigad, Pin. 402109.	LCEH	June. 1981		Maharashtra	21.1.83	9739		Form 'F' Not Received	4462/3423
191	Dr. Gandhi Hasu Atulkumar	Atul Kumar	Gokul Vihar, 1 Co- op. Hsg. Society, Flat No. G-602, Thakur Complex, Kandivli (E), Mumbai - 400101.	LCEH	Dec. 1964		Maharashtra	2.2.65	3120		Form 'F' Not Received	4465/3425
192	Dr. Gandhi Rajashree Revindra	Revindra	Raviraj Hospital, Shahapur (Thane) - 421601. M.S.	LCEH	1984		Maharashtra	10.3.87	15009		Form 'F' Not Received	4485/3439
193	Dr. Gandhi Vijay Amritlal	Amritlal	303.304, Rohini, Kores Nakshtra Complex, Vartak Nagar, Thane - 400606.	LCEH	May. 1986		Maharashtra	10.6.87	15244		Form 'F' Not Received	4497/3449
194	Dr. Mary Thomas	George K.S.	J.V.S.. Villa, Kizhakekara, ThevalaKara, Kollam, Kerala, Pin. 690524.	DHMS	1975		Kerala	7.11.75	1105		Form 'F' Not Received	4538/3482
195	Dr. Garasia Pravinsinh Fulabhai	Garasia Fulabhai	At/Po.Rudel, Ta. Borsad, Dist. Anand, Pin. 388140, Gujarat.	DHMS			Gujarat	29.9.86	G-1214		Form 'F' Not Received	4541/3485
196	Dr. Gawhare Suresh Dajiba	Dajiba	At.Post.- Talodhi Mokasa, Tal.- Chamorshi, Dist.- Gadchiroli. M.S.	DHMS	1980		Maharashtra	2.2.81	7831		Form 'F' Not Received	4630/3553
197	Dr. M.G. Geetha	K.N. Gopinatha Pillai	Thottathil House, Kadappakada Po., Quilon Kerala, 691008.	DHMS	1981		Kerala	12.3.84	2153		Form 'F' Not Received	4644/3560

198	Dr. Koshy K. George	K.C. George	Asha Bhavan, Adoor Po., Kerala, 691523.	DHM	1966		Kerala	9.12.66	318		Form 'F' Not Received	4682/3587
199	Dr. Naduvileth George Jacob	N.J. Chacko	Naduvileth, Kumbanad PO, Kerala, Pin. 689547.	DHM	1966		Kerala	24.9.66	298		Form 'F' Not Received	4694/3596
200	Dr. Perumpallithara Anthonis George	P.M. Anthonis	Perumpallithara Veedu, Oyoor Po, Kottarakara, Quilon, Kerala.	DHMS	1980		Kerala	8.4.80	1946		Form 'F' Not Received	4697/3599
201	Dr. George Raju P.	P. Geoge	Kudakara House, Kizhakketheruvu P.o. Kottarakkara, Kollam Dist. Kerala.	DHB			Kerala	24.8.84	2510		Form 'F' Not Received	4712/3608
202	Dr. Ghodeshwar Prabhakar Shankarrao	Shankarrao	At.Post. Nachangaon, Tah. Dedi, Dist. Wardha, 442306, (Maharashtra).	DHMS	Apr. 1979		Maharashtra	16.11.79	6899		Form 'F' Not Received	4776/3660
203	Dr. Ghuguskar Prema Raghobaji	Raghobaji	Shivaji Choule, Wardha.	DHMS	Sep. 1977		Maharashtra	22.12.77	6029		Form 'F' Not Received	4808/3684
204	Dr. Gurbax Singh Gill	Hari Singh Gill	Moh. Sant Nagar, V.P.O. Chachoki, T. Phagwara, Dist. Kapurthala (P.B.)	DHMS	1981		Punjab	4.9.81	387		Notice Received Undelivered	4835/3700
205	Dr. B. Girijamma	N. Govinda Pillai	Chandra Vilas, Karimpani P.O., Kottayam, Kerala, 686564.	DHMS	1984		Kerala	3.5.84	2461		Form 'F' Not Received	4855/3715
206	Dr. Sreemathiamma Girija	Gopala Pillai	Arun Nivas, Chithara P.O, Kollam - 69559.	DHMS	1982		Kerala	25.6.82	2232		Form 'F' Not Received	4861/3720
207	Dr. Geeta	Sh. Durga Singh	H.No. 270-B/Sector 51-A, Chandigarh.	DHMS	July. 1984		Punjab	22.9.87	434		Form 'F' Not Received	4866/3723
208	Dr. Goyal Balkishan	Ram Sahai Goyal	1/2238, East Ram Nagar, Mandoli Raod, Shahdara, Delhi - 110032.	DHMS			Delhi	27.8.87	BHSD/1817		Notice Received Undelivered	4888/3740
209	Dr. Rajesh Kumar Goel	Hari Chandra Gupta	1-C/ 208, N.I.T. Faridabad.	DHMS	1986		Rajasthan	27.5.87	3248		Form 'F' Not Received	4894/3743
210	Dr. Gogoi Hem Chandra		South Amolapatty, P.O. Mohanaghat, Dist. Dibrugarh - 786008, (Assam).	DHMS	1983		Assam	16.11.84	107		Form 'F' Not Received	4911/3759
211	Dr. K.A. Gomathy	P.A. Ayyappan	Koitholtathu House, Keohepre Mannar, Pathenenthill Po, Kerala Dist.	DHM	1963		Kerala	15.6.63	75		Form 'F' Not Received	4934/3779

212	Dr. Nanukurup Gopakumar	Nanukurup P.	G.J. Bhavan (Janatha Clinic), Kavalayoor P.o, Moongode (Via), Varkala, Pin. 695144.	DHMS			Kerala	24.3.77	1473		Form 'F' Not Received	4949/3793
213	Dr. Gopalswami Jayalakshmi		102, Kailash Dham, Thomas D'Silva Road, Near Dahisar Bridge, Dahisar (E), Mumbai - 400068.	LCEH	1978		Maharashtra	7.5.79	6689		Form 'F' Not Received	4954/3797
214	Dr. Pradip Kumar Goyal	Shiv Narain Goyal	46-A, D.D.A. Flats Shahpur Jat, New Delhi - 110099.	DHMS			Delhi	26.12.76	HD/1353/BHS		Form 'F' Not Received	5073/3886
215	Dr. Grewal Sarbjeet Kaur	Malkit Singh Grewal	V.+Po.- K.C. Gurusar Sudhar, Dist. Ludhiana, Pul Sudhar, 141104.	DHMS	Jan. 1981		Punjab	11.3.81	298		Notice Received Undelivered	5091/3900
216	Dr. Gune Mohan Sharaschandra		2121 'C' Dhruva, Bhansingji Road, Kolhapur - 416002.	LCEH	Dec. 1968		Maharashtra	12.5.69	4044		Form 'F' Not Received	5159/5946
217	Dr. Arun Gupta	Dr. D.P. Gupta	10-F, Kalmla Nagar, New Delhi - 7.	DHMS			Delhi	3.10.72	HD/840/BHS		Form 'F' Not Received	5181/3963
218	Dr. Gupta Krishan Lal	Banwari Lal Gupta	House No. 2611, Aggarwal Colony, Gidderbaha - 152101, Dist. Muktsar, Punjab.	DHMS	1981		Punjab	31.2.81	361		Remove U/S 25(1) of HCC Act, 73	<u>5243/4008</u> CCH-228
219	Dr. Gupta Maheshkumar Babubhai	Gupta Babubhai	'Ramdarshan' 3A/406 Nukem Society, Morarji Circle, Gide Vapi - 396195 (Gujarat).	DHMS			Gujarat	20.1.87	G-1336		Form 'F' Not Received	5255/4017
220	Dr. Gupta Mukesh Chandra	K.C. Gupta	A-12, Nirman Vihar, Delhi - 110092.	DHMS			Delhi	17.2.77	HD/1301/BHS		Form 'F' Not Received	5271/4030
221	Dr. Gupta Nirmal Rajkumar (Maker Nirmal Apparsingh)	Rajkumar	Maker Tower - F, 1st Floor, Cuffe Parade, Mumbai - 400005.	LCEH	1966		Maharashtra	14.11.66	3600		Form 'F' Not Received	5279/4036
222	Dr. Bansal Renu	K.P. Gupta	14, Anand Nagar, Ajmer.	DHMS	1987		Rajasthan	12.10.88	3520		Form 'F' Not Received	5330/4078
223	Dr. Gurjar Taruna Arjunsinh	Arjun Sinh	Jaya Clinic, Palace Road, Idar (S.K.) Gujarat - 383430.	DHMS			Gujarat	5.10.78	G-268		Form 'F' Not Received	5408/4138
224	Dr. Hada Vijay Raj Singh	Mahendra Singh Hada	241, Amarit Kunwa House, Retwali Kota, 324006. (Rajasthan)	DHMS	1983		Rajasthan	6.7.84	2962		Form 'F' Not Received	5437/4158

225	Dr. K.M. Harilal	Madhavan	Puthanpurackal House, C.M.C. 21, Shertallay P.o, Aley Dist., Pin. 688524.	DHMS	1976		Kerala	11.3.76	1192		Form 'F' Not Received	5525/4224
226	Dr. Hari Kumar G.	Gangadharan Nair P.	Gangadhar Gardens, Kumarapuram, Medical College Po., Trivandrum - 695011.	DHMS	1978		Kerala	21.11.78	1726		Form 'F' Not Received	5526/4225
227	Dr. N. Hariharan	Narayana Pillai N.	Narayana Bhavan, Komana, Ambalapuzha Po, Alapuzha Dt., Kerala, 688561.	DHMS	1977		Kerala	15.4.77	1495		Form 'F' Not Received	5530/4229
228	Dr. R. Hariharan	Ramaswamy S.	Subha Bhavan, T.B. Junction, Nedumangad P.o, Trivandrum (Dist.), Kerala State.	DMS	1969		Kerala	14.12.72	727		Form 'F' Not Received	5531/4230
229	Dr. Harkut Jainarayan Dhondiram	Dhondiram	At.Po. Madalmohi, Tq. Georai, Dist. Beed.	DHB	1973		Maharashtra	14.1.74	5018		Form 'F' Not Received	5536/4233
230	Dr. Hashmi Akhlaque Ahmed	M.A. Hashmi	Bharat Chikitsalaya Mangrol Road Baran, Dist. Baran (Raj.) 325205.	DHMS	1984		Rajasthan	8.7.85	3039		Form 'F' Not Received	5546/4242
231	Dr. Harimkar Pralhad Lodabaji	Lodabaji	A/P. Jaipur, Tq. Sengaoon, Dist. Hingoli, Maharashtra.	DHMS	1980		Maharashtra	20.4.81	8096		Form 'F' Not Received	5573/4214
232	Dr. Hingade Bhaskar Rajaram	Rajaram Gurjar	At.Post. Mulawa, Tal. Umarched, Dist. Yeotmal.	DHMS	1986		Maharashtra	18.9.80	7511		Form 'F' Not Received	5596/4281
233	Dr. Idhole Murlidhar Laxman	Laxman	Deo Nagar, Khamla Road, Nagpur, Pin. 440015.	DHB	Apr. 1974		Maharashtra	4.7.75	5471		Form 'F' Not Received	5690/4351
234	Dr. Ignatius Lovely	V.T. Ignatius	Thekkeveetil (H), XIV/764 (A), Mattancherry Po, Cochin - 682002.	DHMS	1981		Kerala	16.2.82	2193		Form 'F' Not Received	5699/4359
235	Dr. N. Indira	Narayanan Nair G.	Alurumpil (H), Elikulam Po, Kottayam Dt., Kerala, 686577.	DHMS	1977		Kerala	18.9.78	1716		Form 'F' Not Received	5723/4373
236	Dr. Jacob Varghese	George Kutty P.C.	721, S. Holiday Dr. Grand Prairie, TX 75052 USA.	DHM	1974		Kerala	5.12.74	913		Form 'F' Not Received	5811/4443

237	Dr. Vaidyan Jacob P. J.	Jacob Vaidyan K.	Kadayattu Puthen Veedu, Thadiyoor (Po.), Kerala - 689545.	DHMS	1975		Kerala	7.11.75	1110		Form 'F' Not Received	5812/4444
238	Dr. Daiya Pravin Jadavji		2, Ambaji Dham, M.G. Road, Mulund (W), Mumbai - 400080.	LCEH	Dec. 1977		Maharashtra	8.5.78	6195		Form 'F' Not Received	5827/4458
239	Dr. Nerella Jagadeeshwaraiah	Bhadraiah	Post & Village.- Chilpur, Via.- Milkapur, Mandal.- Ghanpur (Stn), Dist.- Warangal, Pin.- 506145, (A.P.)	DHMS	Aug. 1981		Andhra Pradesh	5.10.81	1397		Form 'F' Not Received	5878/4493
240	Dr. Kondala Jagannadham	K. Appanna	Beside Municipal Office, Palasa - 532221, Srikakulam Dt., Andhra Pradesh.	DHMS			Andhra Pradesh	13.6.75	3464		Form 'F' Not Received	5882/4497
241	Dr. M.P. Jainamma	M.J. Philip	S.V. Puthenveedu, Thalachira, Po. Kottarakara, Kollam Dt., Kerala State.	DHMS	1983		Kerala	5.5.83	2282		Form 'F' Not Received	5913/4524
242	Dr. Jain Anand Mohan	Hukum Chand Jain	Near B.D. High School, Po. Sihora Road, Dist. Jabalpur, M.P.	DHB			Madhya Pradesh	16.1.87	9914		Form 'F' Not Received	5925/4532
243	Dr. Deepak Jain	Prem Chandra Jain	Charak Ausadhi Bhandar, 120, Parkota Hills, Sagar.	DHB			Madhya Pradesh	21.6.84	9345		Form 'F' Not Received	5966/4562
244	Dr. Chauhan Ramesh Chand	Bishamber Singh	B-5/129, Yamuna Vihar, Delhi.	DHMS			Delhi	12.11.81	BHSD/1547		Form 'F' Not Received	<u>2578/1970</u> CCH/313
245	Dr. Banerji Soumitra	Monindranath	Keshov Kunj, No. 9, Adarsh Marve Road, Malad (W), Mumbai - 400064.	DHMS	Aug. 84		Maharashtra	28.3.85	12411		Form 'F' Not Received	1303/985
246	Dr. Somanandan Thulasi	Karunakaran P.R.	Sreenilayam, Angilipra, Thattarambalam PO., Mavelikara Alleppy.	DHMS	1975		Kerala	13.11.75	1118		Form 'F' Not Received	1151/867
247	Dr. Bhaskaran Somarajan	R. Bhaskar	Somasadanam, Muttom, Po. Hari pad, Alapuzha (Dist), Kerala, Pin. 690511.	DHMS	1976		Kerala	9.11.76	1362		Form 'F' Not Received	1747/1330
248	Dr. Thomas Daniel Premkumar	Thomas K.T.	39/42, Sakthi Vinayakar Koll St. Mahalingapuram Pollachi.	DHM			Tamil Nadu	31.12.77	60		Form 'F' Not Received	3141/2406

249	Dr. Daniel Zachariah	P.C. Daniel	Panacha Kunnil Thumpamon North, 689625, Pathanamthitta, Kerala.	DHM	1966		Kerala	24.9.66	299		Form 'F' Not Received	3142/2407
250	Dr. Agrawal Manisha Nandkishor	Bhikamchand ji	V/C 17/1, Vishnu Nagar, Jawahar Colony Road, Aurangabad - 431005.	DHMS	1980		Maharashtra	6.6.81	8241		Form 'F' Not Received	190/142
251	Dr. (Mrs.) Kardak Taruna Milind	Mol Singh	701, Sanman, Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai - 400058.	LCEH	1983		Maharashtra	21.4.84	11125		Form 'F' Not Received	396/288
252	Dr. Alreja Kiran Girdharilal	Kiran Girdharilal	Block No.8, 1st Floor, Kalyan Apartment 286, Sion Rd (E), Mumbai - 22.	LCEH	Dec. 61		Maharashtra	11.9.62	2439		Form 'F' Not Received	489/364
253	Dr. Ambole Rajendra Nishikant	Nishikant	Housing Colony, Main Road, At.Post-Kodoli, Tal.-Panhala, Dist.-Kolhapur, 416114.	DHMS	1979		Maharashtra	11.7.80	7364		Form 'F' Not Received	517/388
254	Dr. Kusum Lata Agarwal	Kamlesh Kumar Gupta	21, Gaytri Nagar, Tanoen Road, Gwalior - 474002, (M.P.)	DHB			Madhya Pradesh	13.1.83	8337		Form 'F' Not Received	177/130
255	Dr. P. Abdul Azeez	P.A. Mohamed Kutty	Peringattuthodiyil, Irimbiliyam P.O., Malappuram (Dt.) Kerala.	DHM	1971		Kerala	21.7.72	700		Form 'F' Not Received	20/13
256	Dr. Ajitha Kumari A.	Appukuttan Adissar K.	Thoppil Bungalow, Parumala P.O., Tirumalla, Kerala - 689626.	DHMS	1983		Kerala	26.10.83	2386		Form 'F' Not Received	381/280
257	Dr. Aleyamma K.V.	Varkey	Athirithimukkil Manippara P.O, Karimpan, Idukki, Pin. 685602.	DHMS	1983		Kerala	31.12.83	2403		Form 'F' Not Received	421/309
258	Dr. Amma Karthiayani K.R.	Lambodharan Pillai	Padmapriya, W.S.R.A. TC3T/521/147, West Nada, Fort Thiruvananthapuram, Kerala, 695023.	DHMS	1980		Kerala	30.4.80	1958		Form 'F' Not Received	544/410

259	Dr. Patil Pradeep Surendra	Surendra Naras Gouda Patil	'Charvak' 6564, Old Kupwad Road, Holakar Chowk, Opp. Hotel Lovely, Sangli - 416416, Maharashtra.	GCEH			Karnataka	25.2.85	3176		Form 'F' Not Received	12451/9583
260	Dr. K.K. Somasundaram	K.C. Kuttan	Ushus, Zilla Court Ward, Alappuzha, Kerala - 688001.	DHM	1968		Kerala	19.9.68	416		Form 'F' Not Received	17668/13628
261	Dr. Jethmalani Jyoti Premchand	Harchand Rai	301, 302, Plaza Tower, Section 17, Tilak Colony, Ulhasnagar-Sindunagar, Pin. 421003, Dist. Thane, Maharashtra.	LCEH	May, 1987		Maharashtra	25.1.88	16015		Form 'F' Not Received	11674/8975
262	Dr. Bhutada Sunil Shankarlal	Shankarlal	686, 2A+2B, Bibwewadi, Flat No.1, Bldg. No. F, Next to Ganga Jamuna HSG Society, Pune - 411037.	LCEH	1982		Maharashtra	8.6.83	10025		Form 'F' Not Received	2064/1568
263	Dr. Mhatre Suresh Shivram	Shivaram	At.- Mandwa (Dasturi), Po.- Dhokawade, Tal.- Alibag, Raigad, Maharashtra.	DHB	Apr. 1965		Maharashtra	25.11.65	3355		Form 'F' Not Received	9747/7490
264	Dr. Patil Sunanda Suresh (Patil Sunanda Pandurang)		75 Vikas Colony, Sakri Road, Dhule, Pin. 424001.	LCEH	Dec. 80		Maharashtra	5.6.81	8180		Form 'F' Not Received	12590/9700
265	Dr. Alwani Prakash Narumal	Narumal	Flat No. 8, United House, Kulkarni Colony, Sharanpur Road, Nashik - 422002.	DHB	1976		Maharashtra	7.6.83	10013		Form 'F' Not Received	491/366
266	Dr. Ambekar Mahananda (Mrs.) Nandini Joshi	Nagesh	Visawa Plot No. 21, Sent Eknathnagar - II, Bibewewodi, Pune - 37.	LCEH	1985		Maharashtra	1.9.86	14472		Form 'F' Not Received	509/380
267	Dr. Ajgaonkar Umesh Digambar	Digambar	I - 7, Sharadashram, Bhavani-Shankar Road, Dadar (W), Mumbai - 400028.	LCEH	1982		Maharashtra	8.6.83	10022		Form 'F' Not Received	374/275
268	Dr. Daniel C. J.	Joseph C.T.	Collerathu House, Kelakam P.O., Kannur (Dt.), Kerala State, Pin. 670674.	DHMS	1976		Kerala	4.3.76	1161		Form 'F' Not Received	3137/2403

269	Dr. Chellamma Chandrika Devi	Ramakrishna Pillai K.	Illakulathu Manjusha, Cheravally, Kayamkullam.	DHMS	1975		Kerala	20.11.75	1127		Form 'F' Not Received	3717/2837
270	Dr. Usha Devi Kuroor Jayanthan	Jayanthan Namboodiri	Ambady 49/210 3A, Edakkatt Road Lane - 3, Edappally P.O., Cochin - 682024.	DHMS	1975		Kerala	17.12.75	1144		Form 'F' Not Received	3792/2891
271	Dr. Thomas Sr. Thresiamma	E.M. Thomas	Devamatha Provincial House, Changanacherry Po, Kottayam Dist., Pin. 686101.	DHMS	1975		Kerala	22.10.75	1047		Form 'F' Not Received	18794/14466
272	Dr. Jain Mahendrakumar Mangilal	Mangi Lal	C/o Indna Brokers Co., 13, Bhatia Market II Floor, Near Ashok Talkies, Jalgaon, Pin. 425001, (Maharashtra).	DHMS	May. 1980		Maharashtra	6.6.81	8221		Notice Received Undelivered	6021/4593
273	Dr. Patel Mrs. Nandini	Rameshwar	403, Morning Glory, Thakar Park, Aram Society Road, Vakola, Santacruz (E), Mumbai - 400055.	DHMS	Sep. 1985		Maharashtra	24.1.86	13569		Form 'F' Not Received	6048/4611
274	Dr. Jain Nemichand Kisanlal	Kisanlal	52, Kalpana Nagar, Shahada, Dist. Nandurbar, 425409.	DHMS	Nov. 1980		Maharashtra	14.7.81	8348		Form 'F' Not Received	6058/4618
275	Dr. Prakash Chandra Jain	Prabhu Lal Jain	Matrachhaya Homoeo Clinic, Opp. Suchitra Cinema, Naiabadi Mhow-Neemuch Road, Mandsaur (M.P.)	DHB			Madhya Pradesh	16.7.74	6328		Form 'F' Not Received	6081/4634
276	Dr. Pramod Chandra Jain	Chandbhan Jain	VPO. Mawai, Dist. Tikamgarh, 472001, M.P.	DHB			Madhya Pradesh	16.1.79	7757		Form 'F' Not Received	6089/4642
277	Dr. Jain Pushpinder Kumar	S. D. Jain	399, Lajpat Nagar, Jalandhar City, 144001.	DHMS	Nov. 1981		Punjab	28.9.83	733		Form 'F' Not Received	6099/4650
278	Dr. Jain Ramesh Lakhichand	Lakhichand	51, Nateshwar Housing Society, Wakharkar Nagar, Dhule.	DHMS	Apr. 1976		Maharashtra	27.9.76	5737		Form 'F' Not Received	6117/4663
279	Dr. Jain Uttamchand Bastimal	Bastimal	102, Girnar Apts, Opp. N.L. High School, S.V. Rd, Malad (W), Mumbai - 400064.	LCEH	May. 1983		Maharashtra	30.8.83	10376		Form 'F' Not Received	6182/4710

280	Dr. Jain Vimal Kumar	Kanak Mal Jain	Sethon ki Pole, Sagwara, Dist. Dunderpur (Rajasthan).	DHMS			Rajasthan	4.4.83	2797		Form 'F' Not Received	6187/4714
281	Dr. Jaiswal Radhesham	Mishrilal	At. & Po.- Yeldari (Camp), Tq.- Jintur, Dist.- Parbhani (M.S.)	DHB	Apr. 1973		Maharashtra	3.8.73	4917		Form 'F' Not Received	6222/4744
282	Dr. Jalaja Kumari G.	P. Govinda Sheno	Veliparambil House, Ponoth Road, Kaloore, Kochi - 682017.	DHM	1974		Kerala	30.12.74	948		Form 'F' Not Received	6250/4765
283	Dr. Sophia Teresa James	James Joseph	Santhi Clinic, Yogasala Road, Kannur - 670001, Kerala.	DHMS	1984		Kerala	28.9.84	2532		Notice Received Undelivered	6284/4790
284	Dr. Lakhani Priti Ram	Ramjibhai	202/203 Montana- C Wing, Samarth Cross Road No. 2, Lokhandwala Complex, Andheri (W), Mumbai - 400053.	LCEH	May. 1985		Maharashtra	28.8.85	12908		Form 'F' Not Received	6291/4796
285	Dr. Janaki Kutty V.M.	E. Raman Menon	Flat No. 2511- FF (2A), Kesava Menon Nagar, Housing Colony, Bilathikkulam, Po. Eranipalam, Kozhikode - 6, Kerala State.	BHMS	1982		Kerala	26.3.83	2269		Form 'F' Not Received	6295/4800
286	Dr. Gandhare Dnyaneshwar Laxmanrao	Laxmanrao	Opp. Shri Shivaji High School, Waghapur Road, Yavatmal, 445001, (M.S.)	DHMS	May. 1980		Maharashtra	3.2.81	7858		Form 'F' Not Received	6302/4806
287	Dr. Janyani Thanwer Hasanand	Hasanand	Guru Nanak Bhawan, Block No. 9-B, Sindhu Co-op. Hsg. Society, Ashok Nagar, Nagpur, 440017.	DHMS	Apr. 1977		Maharashtra	11.1.78	6080		Form 'F' Not Received	6315/4817
288	Dr. Alkutkar Medha Prakash (Jawadekar Medha Sharadchandra)	Sharadchandra	Woodland Apt, B-25, Kothrud, Gandhi Bhavan, Pune - 411029, Maharashtra.	LCEH	Jan. 1980		Maharashtra	25.4.80	7240		Form 'F' Not Received	6340/4838
289	Dr. Chodavarapu Jayalakshmi	Ch. Subba Rao	H.No. 16/82, Satyanarayannapuram Gudivada, Krishna Dist.	DHM	1880		Andhra Pradesh	5.5.64	1880		Form 'F' Not Received	6371/4860

290	Dr. Kunjuveedu Soudhamini Amma Jayalekshmi	Sivasankara Pillai K.	"Deepthi" T.C. 5/2170, Kowdiar Post, Tvpm -3.	DHM	1971		Kerala	26.5.72	683		Form 'F' Not Received	6374/4863
291	Dr. V. Jayaprakash	Vamadeva Panicker V.	Lekshmi Bhavan, Kanavila, Ooruttambalam Po, Trivandrum, Kerala.	DHMS	1977		Kerala	21.3.77	1457		Form 'F' Not Received	6385/4871
292	Dr. S. Jayarajan	A. Suhadevan	Padma Bhavan, Mangalam Po, Thrikkunnapuzha, Alleppey Dist., 690515, Kerala.	DHMS	1983		Kerala	3.2.84	2427		Form 'F' Not Received	6388/4873
293	Dr. Karthiayani Kutty Jayasree	Krishnan Nair R.	Sreevalsam, Punnapuram, Pettah Po, Thiruvananthapuram - 24.	DHMS	1976		Kerala	28.4.76	1231		Form 'F' Not Received	6399/4881
294	Dr. Jayswal Rajendra Punamchand	Jayswal Punamchand	Anjana Clinic, Vadbajar, Jhalod, Dist. Dahod, Pi. 389170, Gujarat.	DHMS			Gujarat	15.12.81	G: 537		Form 'F' Not Received	6409/4887
295	Dr. M.P. Johnson	Michael Pillai A.	Simon Villa, Kazhakuttam P.o, Trivandrum, Pin. 695582, Kerala.	DMS	1969		Kerala	24.11.72	714		Form 'F' Not Received	6509/4962
296	Dr. Stella Kurian (Mary Stella John)	K.C. John	Kizhakkethottam House, Poonjar South P.o, Kottayam Dist. - 686582, Kerala.	DHMS	1979		Kerala	30.1.80	1912		Form 'F' Not Received	6513/4966
297	Dr. Karlose John P.	Karlose	Palanilkumkalayil House, Manjoor P.o, Kuruppan Thara, Kottayam, Kerala.	DHM	1976		Kerala	11.3.76	1188		Form 'F' Not Received	6515/4967
298	Dr. John Vilomina	V.V. John	Neelikunnath House, Mulanthuruthy Perumpilly Po, Pin. 382314, Ernakulam Dt. Kerala.	DHM	1975		Kerala	1.1.66	249		Notice Received Undelivered	6524/4974
299	Dr. K.K. Jose	Kunuvilla P.S.	Kalariparampil, Kanjar P.o, Kudayathoor, Idukki.	DHM	1975		Kerala	27.11.75	1131		Form 'F' Not Received	6537/4984
300	Dr. Jose N. J.	N. V. Joseph	Nedumkallel, Vedakod Po, Muvattupuzha, Kerala.	DHMS	1979		Kerala	4.8.79	1844		Form 'F' Not Received	6543/4986

301	Dr. Varghese Jose	P.K. Varghese	Mohan Building, Obser Vatory Lane, Trivandrum - 33.	DHMS	1979		Kerala	27.6.79	1822		Form 'F' Not Received	6545/4988
302	Dr. C.C. Joseph	C.I. Cherappen	Cheruvathoor House, Thekkepuram, Kannamkulam Po., 680503.	DHMS	1984		Kerala	24.8.84	2506		Form 'F' Not Received	6557/4996
303	Dr. Joseph C. J.	Joseph Joseph	Chackalathara House, Karikkttur C.P.O. Kottayam, Kerala, 686544.	DHMS	1978		Kerala	3.4.78	1673		Notice Received Undelivered	6558/4997
304	Dr. Joseph Elanjimattom Mathew	Joseph Mathew	Elanjimattom Kuravilangad Po, 686633, kerala State.	DHM	1969		Kerala	27.9.66	304		Notice Received Undelivered	6561/4999
305	Dr. Joseph George	C.J. George	Charivuparampil, Thonniamala Po, Pathanamthitta, 689668.	DMS	1972		Kerala	9.4.74	840		Form 'F' Not Received	6565/5002
306	Dr. K. A. Joseph	K.A. Antho	Kochuparambil House, Hillview Apartments, F-4, Thrikkakara Po, Kakkanad, Kochi, Pin. 682021.	DHM	1969		Kerala	25.4.69	465		Form 'F' Not Received	6573/5008
307	Dr. K. J. Joseph	Joseph	Keeranchia, P.O.S. Bathery, Wayanad Dt., Kerala - 673592.	DHMS	1976		Kerala	14.9.76	1287		Form 'F' Not Received	6577/5011
308	Dr. T. J. Manuel	Joseph T.M.	Thottumkal House, Idinjamala Post, Idukki Dist., Pin. 685514, Kerala.	DHMS	1983		Kerala	28.5.83	2300		Form 'F' Not Received	6587/5020
309	Dr. Joseph Mary	Luke Joseph	Manavathu House, Punnathura West, Ettumanoor, Kottayam Dist., Pin. 686631.	DHMS	1977		Kerala	3.11.77	1608		Form 'F' Not Received	6591/5022
310	Dr. Mathew Joseph	Joseph P. J.	Palackal, Inchiany Po, Kottayam Dt, Kerala.	DHMS			Kerala	6.1.79	1765		Notice Received Undelivered	6593/5024
311	Dr. Joseph N.P.	N.M. Phillip	Nellikunnathu House, Mulanthuruthy, Perumpilly P.o, Ernakulam, Pin. 682314, Kerala.	DHM			Kerala	10.6.64	134		Form 'F' Not Received	6600/5029
312	Dr. Joseph Thenumgal Leelamma	T.C. Joseph	Vadakkedathu House, Ooramana P.o, Ernakulam Dist., Kerala - 686730.	DHM			Kerala	25.10.65	225		Form 'F' Not Received	6602/5031

313	Dr. Joseph P.A.	Antony P.N.	Palakunnel House, Po. Permpnanachey, Changanacherry, Kottayam Dist.	DHMS			Kerala	12.3.77	1423		Form 'F' Not Received	6616/5043
314	Dr. Joseph Sinamma	Joseph K.J.	Kottarathil Manalayil, Mancompu Thekkekara Po, Alappuzha, Pin. 688503, Kerala.	DHMS			Kerala	27.8.84	2514		Form 'F' Not Received	6620/5046
315	T. J. Sebastian	C.S. Joseph	Thekkethenakara House, Vettimukal P.o, Kottayam Dt., Pin. 686631, Kerala.	DHMS			Kerala	26.5.80	1990		Form 'F' Not Received	6627/5050
316	Dr. Joseph Valsamma	Chacko Joseph	Kunnumpuram, Bios NH. Bye Pass, Cherthala P.o, Kerala.	DHM	1974		Kerala	7.3.75	998		Form 'F' Not Received	6636/5058
317	Dr. (Mrs) Joshi Nutan Pradeep	Laxmikant	Om Numas Shiva Bldg., Pl. 18A, Sr.No. 91/3, Shishak Nagar, Lane No. 9, Opp. Vanazind Pand Road, Kothrud, Pin. 411038, Pune.	LCEH	Dec. 1982		Maharashtra	10.6.83	10041		Form 'F' Not Received	6701/5110
318	Dr. Satyendra Kumar Joshi	Narad Joshi	137, Dharm Nagar Colony, Mahidpur, Dist. Ujjain, 456443.	DHB			Madhya Pradesh	8.8.85	9637		Form 'F' Not Received	6742/5140
319	Dr. Joshi Basant Ballabh	Harish Chandra Joshi	Plot No. 63, Anupam Vihar, Village - Lohariasal (M), P.O.- Kathgharia, Haldwani - 263139, District - Nainital (U.K.)	DHB			Madhya Pradesh	9.11.78	7703		Form 'F' Not Received	6776/5169
320	Dr. Joykutty P.S.	P.Y. Samuel	Rehaboth House, Vadavathur Kottayam, Kerala, 686010.	DHM	1967		Kerala	27.6.68	394		Form 'F' Not Received	6789/5178
321	Dr. Mathew Joy	Mathai Cheruchi	Puthoor Sankaralal (H), Keerampara P.o, Kothamangalam, Ernakulam Dist., Kerala - 686691.	DHM	1969		Kerala	25.5.69	469		Form 'F' Not Received	6791/5180
322	Dr. (Mrs) Panaskar Neeta Rajaram (Miss Kadam Neeta Narayan)	Narayan	Ganga Hospital, Library Chowk, At.Post.Tal.- Patan, Dist.- Satara, Pin. 415206, Maharashtra.	GCEH	May. 1987		Maharashtra	21.3.88	16220		Form 'F' Not Received	6846/5220

323	Dr. Kadivar Rameshchandra Bhagvanji	Kadivar Bhagvanji	114, Aminnagar Society, Po. Chhani - 360530, Dist. Vadodara, (Gujarat).	DMS	Dec. 1976		Gujarat	19.3.83	G: 656		Form 'F' Not Received	6856/5225
324	Dr. Kamta Rohini Raghavendra	Raghavendra Vaikuntarao Kamat	'Shrikrishna Nivas', T.S.S. Ring Road, Near Bhuma High School, A.P.M.C. Market Yard, Sirsi, 581402, Karnataka.	LCEH	Jul. 1983		Karnataka	17.7.84	3030		Form 'F' Not Received	6974/5316
325	Dr. Kanakamma V.K.	Krishanan	Valiapampil, South Paravoor Post, Tripunithura, Ernakulam (Dist.), Kerala.	DHM	1976		Kerala	11.3.79	1179		Form 'F' Not Received	7026/5356
326	Dr. Kamal Kant	Nand Lal	Gali No. 17, Tanaji Nagar, Ajmer (Raj.)	DHMS			Delhi	13.10.78	HD/1341/ BHS		Notice Received Undelivered	7059/5386
327	Dr. Karkara Swatantar	Om Prakash Karkara	W.No.12, Near Quila Road, Amlah - 147203, (FGS) Punjab.	DHMS	1981		Punjab	20.9.81	371		Remove U/S 25(1) of HCC Act, 73	7177/5471
328	Dr. Katoch Khem Singh	Gobind Singh	64, City Enclave II, Near Pabhat Road, Zirakpur, Teh. Derabassi, Distt. Mohali, (Punjab) - 140603.	DHMS			Punjab	22.9.79	106		Form 'F' Not Received	7248/5526
329	Dr. Mrs. Gurmel Kaur	Malkiat Singh	H.No. 4934, Street No.6, Old Police Chowki Road, Shimlapuri, Ludhiana, Punjab.	DHMS	Oct. 1980		Punjab	26.2.82	589		Form 'F' Not Received	7272/5548
330	Dr. Uppal Manjit Kaur	G.S. Gupta	GD-17, Street No. 14, G-Block, Hari Nagar, New Delhi - 110058.	DHMS			Delhi	25.8.83	HD/1631/ BHS		Form 'F' Not Received	7291/5563
331	Dr. Kaushal Raj Kamal	Mohan Lal	H.No. B-VIII/373, Inside Quila - Barnala. 148101.	DHMS	Dec. 1982		Punjab	12.4.83	684		Form 'F' Not Received	7329/5595
332	Dr. Kawadkar Shobha Narayan	Narayan	At.Post. Pandharkawada, Cottan Market ward, Dist. Yavatmal - 445302.	DHB	Oct. 1969		Maharashtra	27.1.71	4289		Form 'F' Not Received	7355/5614
333	Dr. Kazi Mohammed Arif Nabisab	Nabisahab Kazi	Unity Nursing Home, Yellapur Oni, Hubli - 580020, (Karnataka).	GCEH	May. 1986		Karnataka	17.10.86	3574		Form 'F' Not Received	7390/5642

334	Dr. Khan Mashkoor Ullah	Ashad Ullah Khan	Qazi Pura, Ashta, Dist. Sehore, M.P.	DHB			Madhya Pradesh	6.3.85	9499		Form 'F' Not Received	7571/5781
335	Dr. Khateeb Rajahmed Meera Saheb		Near Bus Stand, P.O. Devar Hippargi, 586115, Dist. Bijapur, Karnataka.	LCEH	June. 1973		Karnataka	29.5.74	2225		Form 'F' Not Received	7730/5908
336	Dr. Patil Sandhya Satyandhar	Suresh	At./Po. Kumbhoj, Tal. Hatkanaugale, Dist. Kolhapur, Pin. 416111.	LCEH	May. 1984		Maharashtra	15.1.88	15985		Form 'F' Not Received	7813/5981
337	Dr. Khudsia Naveed	Zakira Khatoon	No. 655, 14th Main 38th Cross 4th 'T' Block, Jayanagar, Bangalore.	GCEH	May. 1986		Karnataka	13.8.86	3455		Form 'F' Not Received	7817/5983
338	Dr. Anantha Venkiteswara Kilikar	N. Anantha Kilkar	8/1350 A, T.D. East Rd, Mother Dairy, Kochi - 682002.	LRCHP			Kerala	16.9.69	485		Form 'F' Not Received	7849/6004
339	Dr. (Mrs) Akali Jyoti Dilipsingh (Kochhar Mohinder Kaur)	Joginder	Deep-Geet CHS Plot 10/6, Sector -15, Nerul (E), Navi Mumbai - 400706.	LCEH	1977		Maharashtra	15.5.78	6216		Form 'F' Not Received	7876/6026
340	Dr. Shah Roopal Sunil	Raamesh	401, Spectra Apartments, Nadiadwala Colony No.1, S.V. Road, Malad (W), Mumbai - 400064.	LCEH	May. 1985		Maharashtra	29.7.85	12856		Form 'F' Not Received	7934/6072
341	Dr. Katriki Kristaiah	K. Hanumanthaiah	Halvi - Post - 518333, Adoni - Taluk, Kurnool - District, Andhra Pradesh.	LCEH	Dec. 1986		Karnataka	31.3.87	3650		Removed as published in CRH-2004 at S.No. 24378	8075/6182
342	Dr. Cattathara Gowriamma Krishnamma	R. Narayan Nair	Kuthakara House (Bindu), Nattakom Po, Kottayam - 686013, Kerala.	DHM	1964		Kerala	6.8.65	211		Form 'F' Not Received	8079/6185
343	Dr. Vellala Ramakrishna Kumar	V.R. Nandu Ku.	39/633-4-10, Patel Road, Y.S. Nagar, Kadapa P.o, Pin. 516001, (A.P.)	DHMS			Andhra Pradesh	30.8.79	4245		Form 'F' Not Received	8213/6293
344	Dr. Girdhar Rajinder Kumar	Kashmiri Lal	Campus Homoeopathic Medical College, Abohar.	DHMS	1983		Punjab	12.12.84	787		Form 'F' Not Received	8271/6340

345	Dr. Kumar Rajinder	Ramji Dass	House No. 380/20, Huda Kaithal (Haryana).	BMS	Aug. 1979		Haryana	28.5.82	3451		Form 'F' Not Received	8273/6342
346	Dr. Kumar Rajinder	Hari Om Gupta	H.No. 368, Sector - 20 A, Chandigarh.	DHMS			U.T. Chandigarh	20.1.88	63		Form 'F' Not Received	8274/6343
347	Dr. Kumar Surinder Mohan	H.L. Kumar	B-3/21, Paschim Vihar, New Delhi - 110063.	DHMS			Delhi	19.3.75	HD/1048/BHS		Form 'F' Not Received	8319/6382
348	Dr. Vijayendra Kumar T.R.	Ramakrishna Rao	H.No. 720/1, Manjunatha Krupa, IInd Main, 13th Cross, K.T.J. Nagar, Davangere - 2, Karnataka State.	GCEH	Nov. 1985		Karnataka	31.7.86	3425		Notice Received Undelivered	8331/6390
349	Dr. Mohana Kumaran P.N.	Narayanan K.N.	Puthettu (H), Erumely P.O, Kottayam, Kerala - 686509.	DHMS	1981		Kerala	16.2.83	2184		Notice Received Undelivered	8341/6397
350	Dr. Padmavathy Amma Kusumakumari	Vikraman Nair G.	Smevisakh Kudappanekunnu, TVPH.- 695043.	DHMS	1983		Kerala	8.9.83	2353		Form 'F' Not Received	8358/6409
351	Dr. Kumbhare Dattatraya Ramchandra	Ramchandra	Homoeo Hospital, Ramnagar, Lephosy Foundation, Wardha.	DHB			Maharashtra	27.9.75	5533		Form 'F' Not Received	8398/6441
352	Dr. Kuncheriya. M.A.	K.K. Augustine	Manivelil House, Thuruthy P.O, Changanacherry, Kottayam - 686535.	DHMS	1980		Kerala	29.1.81	2096		Form 'F' Not Received	8410/6452
353	Dr. Kuncheria Pushpam	K.C. Kuncheria	Thiruvathukkal House, C.M.C. 28, Cherthala Po, Alappuzha Dist. 688524.	DHMS	1980		Kerala	26.5.80	1995		Form 'F' Not Received	8411/6453
354	Dr. D.Omana Kunjama	P. Sankara Pillai	Thekka Veedu, Njarackol, Perinad Po, Kollam, Kerala.	DHMS	1978		Kerala	8.12.78	1745		Form 'F' Not Received	8427/6465
355	Dr. Sharafudeen Puliyathvedu Mohammed Kunju	M. Mohammed Kunju	Naseer Manzil, Kuttichira T.K.M.C. Po, Kollam - 5, Kerala.	DHM	1973		Kerala	13.2.74	814		Form 'F' Not Received	8441/6478
356	Dr. Abdul Nazar Kurikkal	Abdurahiman Kurikkal	'Lamees' South Annara Tirur, Malappuram, Kerala - 676101.	DHMS	1983		Kerala	27.8.84	2518		Form 'F' Not Received	8456/6490

357	Dr. Sulikha Kunju Khuraisha Beegum	A. Abdul Khader	Thekae Veetil, Athenadutheku Kattikadavu Po, Pin. 690547, Karanagapally, Kollam, Kerala.	DHMS	1978		Kerala	8.12.78	1747		Form 'F' Not Received	8457/6491
358	Dr. Kuriakose Alex	Kuriakose T.C.	Thiruvathukkal Home, C.M.C. 28, Cherthala Po, Alappuzha Dist. 688524.	DHMS	1978		Kerala	24.4.78	1689		Form 'F' Not Received	8461/6495
359	Dr. Kuriakose Annieamma	Kuriakose T.C.	Kandirikal House, Kandalikad Po, Muvattupuzha, Ernakulam Dt.	DHMS	1978		Kerala	20.4.78	1691		Form 'F' Not Received	8463/6497
360	Dr. P.K. Kuriakose	P.K. Kuriakose	Palliekaparambil House, Kuzhimattom P.o, Kerala.	DHM	1963		Kerala	4.5.64	117		Form 'F' Not Received	8475/6506
361	Dr. Kurup C.R. Radha Krishna	K.K. Ramakrishna Kurup	Chooru Kunnathu House, P.C. Kavala Po, Changan Cherry, Kottayam, Kerala - 686537.	DHMS	1984		Kerala	15.5.84	2462		Form 'F' Not Received	8503/6527
362	Dr. Kuruvilla Kurian	K. Kurian	Udumpanattu House, Amayanoor Po, Kottayam - 686025, Kerala.	DHM	1971		Kerala	28.6.72	691		Form 'F' Not Received	8507/6527
363	Dr. Kutty Alley T.D.	Devasia	Pullannikavil, Kunduthode Po, Kavilumpara - 673513.	DHMS	1976		Kerala	28.9.76	1298		Form 'F' Not Received	8525/6545
364	Dr. S.R. Anitta (Sr. Anna Kutty T.V.)	Stella Maria	Melukavunatham Po, Kottayam, Pin. 686652.	DHM	1973		Kerala	16.5.73	777		Form 'F' Not Received	8526/6546
365	Dr. K.G. Rajukutty	V.K. Goplan	Kappiyil House, Mala (Post), Karkala (Tq.), Udupi (Dist.), Karnataka, Pin. - 574122.	DHMS	1980		Kerala	19.7.80	2029		Form 'F' Not Received	8546/6558
366	Dr. Kishorbhai Labhubhai Lakhani	Lakhani Labhubhai	221, Sant Jalaram Society, Ved Road, Surat, Gujarat.	DHMS			Gujarat	27.8.84	G: 866		Form 'F' Not Received	8591/6595
367	Dr. Lalana P.S.	Subramanian P.K.	Kaippillithara House, Muravanthuruth, Vadakkekkara Po, N. Paravur, Ernakulam (Dist) Kerala, Pin. 683522.	DHMS	1980		Kerala	9.9.80	2061		Form 'F' Not Received	8638/6630

368	Dr. A. Lalitha Kumari	Appukuttan Adissan	Thoppil Banglavu, Parumala Po, Pathanamthitta (Dist.), Kerala, Pin. 689626.	DHM			Kerala	28.3.70	515		Form 'F' Not Received	8643/6633
369	Dr. Bharathy Lalitha	N. Poonan	Kaviv Tc/12/195-4 Thekkunmoodu, Vanchiyoar Po, Trivandrum.	DHMS	1979		Kerala	27.6.79	1824		Form 'F' Not Received	8644/6634
370	Dr. Valiyaparambil Gopalan Lelithakumari	Gopalan V.L.	Mooleparambil Kukumulloor Kottayam, Kerala, Pin. 686632.	DHMS	1980		Kerala	30.8.80	2053		Form 'F' Not Received	8652/6641
371	Dr. Asha Latha G.	Gopalan Nair N.	Cittedathle House, Mariyapally Po, Kottayam, Kerala - 686023.	DHMS	1977		Kerala	19.11.77	1610		Form 'F' Not Received	8682/6664
372	Dr. S. Lathamoni	Kunju Pillai P.K.	Ambadi Krishna Saras Perunna Po, Changanacherry - 2, Kottayam Dt, Kerala.	DHMS	1983		Kerala	4.8.83	2327		Form 'F' Not Received	8685/6667
373	Dr. Lathi Ujwala Ashok	Ashok	264, Ridhi Sidhi, Indraprasta Society, Near Aakashwani Hadapsar, Pune - 28.	LCEH	May. 86		Maharashtra	24.2.87	14930		Form 'F' Not Received	8689/6671
374	Dr. K.P. Legia	K. A. Purushottaman	Ashwthy - Dwaraka Lane, NCC Road, Perurkkada Po, Thiruvananthapuram, Kerala.	DHMS	1979		Kerala	30.1.80	1932		Form 'F' Not Received	8732/6703
375	Dr. Lekshmy Radha	Madhavan Vaidyan	Ambadi, Chepra (Po), Kollam (Dist), Kerala, 691520.	DHMS	1980		Kerala	19.12.81	2158		Form 'F' Not Received	8736/6706
376	Dr. Lilhare Maniram	Sohanlal Lilhare	At.+Po. Kulpa, Tal. Lanji, Dist. Balaghat, M.P. - 481224.	DHB			Madhya Pradesh	13.11.80	8212		Form 'F' Not Received	8754/6719
377	Dr. Lunkad Ashok Ratanlal	Ratanlal	Tilak Road, Nandurbar, Pin. 425412, Maharashtra.	LCEH	May. 83		Maharashtra	22.6.84	11387		Form 'F' Not Received	8816/6771
378	Dr. Pulithara Sarangadharan Lylamma	P.M. Samgadharan	Thaimattathil Muhamma Po, Alappuzha, Kerala.	DHMS	1983		Kerala	4.1.84	2415		Form 'F' Not Received	8826/6777
379	Dr. Machado Jerome	Late Johan Jalian Machado	Jyothi Nilaya, Jyothinagara Post - 577102, Chikmagalur District, Karnataka.	LCEH			Karnataka	26.9.87	3780		Form 'F' Not Received	8828/6779

380	Dr. Madhavan Babuji	I. Madhavan	Plot No. 1, Yadukul Moolavattam Po, Kottayam - 686026.	DHMS	1980		Kerala	18.12.81	2150		Form 'F' Not Received	8846/6788
381	Dr. Mahajan Varinder	Milkhi Ram Mahajan	362-A, Near Holly Wood Public School, New Shastri Nagar, Pathankot, Punjab.	DHMS	1981		Punjab	4.9.81	383		Form 'F' Not Received	8904/6829
382	Dr. Mahajan Vikrant Ramchandra	Ramchandra	60/1, Trimoorti, Bharti Niwas Society, Erandwana, Pune - 411004, Maharashtra.	LCEH	Dec. 1985		Maharashtra	7.4.86	13951		Form 'F' Not Received	8935/6859
383	Dr. Malewar Shalik Ram	Chait Ram Malewar	Parasnagar, Lane near Muktidham, Devendra Nagar, Raipur, (Chhattisgarh.)	DHMS	April, 1979		Madhya Pradesh	15.5.81	8412		Form 'F' Not Received	9032/6930
384	Dr. Mehrotra Vinay Narain	Shyam Narayan Mehrotra	Plot No. 125, Path No. 6, Vijaybari, Sikar Road, Jaipur - 302039.	BMS	1976		Rajasthan	25.4.77	2506		Form 'F' Not Received	9084/6969
385	Dr. Malik M. Sharif Nizamuddin	Nizamuddin	Bombay Clinic, Near Gayatri Temple, Borsad, 388540 (Gujarat)	DHMS			Gujarat	4.3.78	G: 240		Form 'F' Not Received	9095/6980
386	Dr. Mallick Kumar Susanta	Late Narahari Mallick	At. Post - Anikana, Via- Kaipara, Dist.- Jajpur, Odisha.	DHMS			Orissa	30.11.76	C - 285		Form 'F' Not Received	9100/6984
387	Dr. Malvania Saunil Shantilal	Malvania Shantilal	"Adarsh", 1, Bhaktinagar Society, Rajkot - 360002.	DHMS			Gujarat	15.10.83	G: 738		Form 'F' Not Received	9105/6989
388	Dr. Madhav Krishna Malviya	Mohan Krishan Malviya	Malviya School Badraon, Dist. Rewa, (M.P.)	DHB			Madhya Pradesh	9.8.84	9379		Form 'F' Not Received	9106/6990
389	Dr. Mam Chand Verma	Late Sh. Raje Ram	W.Z. 6- B, Naraina, New Delhi - 110028.	DHMS			Delhi	19.3.75	HD/1044/ BHS		Form 'F' Not Received	9116/6999 CCH-1235
390	Dr. Manchanda Om Parkash	Sh. Sardari Lal	F 801, Shukhdev Nagar, Kotala Mubarakpur, New Delhi.	DHMS			Delhi	26.11.73	HD/967/ BHS		Form 'F' Not Received	9122/7005
391	Dr. Mangukiya Bhavin Naranbhai	Mangukiya Naranbhai	"Manguliya" Clinic, 100/A, Sarita Society, Street No. 7, Gadhechi Vadla, Bhavnagar - 364003, (Gujarat).	DHMS			Gujarat	20.10.86	G 1264		Form 'F' Not Received	9185/7062

392	Dr. Archana Jagdishbhai Gandhi	Arvindbhai	C/o Mr. Subodh D. Gandhi, Brahman Sheri, Near Swami Narayan Mandir, Unjha - 384170, Gujarat.	DHMS			Gujarat	30.1.78	G: 230		Form 'F' Not Received	9197/7071
393	Dr. Pillaristty Manjula	P. Lakshmipathi	H.No. 50-70-33/10, Saikutir Appts, Rajendra Nagar Visakhapatnam - 530016, Andhra Pradesh.	DHMS			Andhra Pradesh	11.2.75	3427		Notice Received Undelivered	9215/7085
394	Dr. Manker Nathooram	Somuji Mankar	Rajendra Nagar (WCL) N.I.D.C., At. Pathakhera, Dist. Betul, M.P.	DHB			Madhya Pradesh	8.11.82	8692		Form 'F' Not Received	9223/7091
395	Dr. Mary Chacko Chemmasseril	Chacko C.T.	Poyyathurvthil Mattummel Rd, N. Parayur, Pin. 683513, Ernakulam.	DHMS			Kerala	20.4.78	1694		Notice Received Undelivered	9311/7158
396	Dr. K.G. Mary Mercy	K.A. George	Parambaloth House, Karthedom Malipuram Po, Ernakulam (Dist.), Pin. 682511, Kerala.	DHMS	1979		Kerala	4.8.79	1840		Form 'F' Not Received	9316/7162
397	Dr. C.M. Manuel	C.J. Mathew	Agnes Memorial Homoeo Clinic, Chungappura (H), Vadakkencherry (Po.), Palakkad (Dt.), Pin. 678683.	DHMS	1977		Kerala	12.3.77	1420		Form 'F' Not Received	9369/7201
398	Dr. Mathew Joseph K.	Joseph K.M.	Koottummel House, Ayyappankvu West Rd, Kochi - 682018.	DHM	1976		Kerala	22.3.76	1200		Form 'F' Not Received	9386/7213
399	Dr. Mathew Mathew	K.I. Mathew	Kadathukalam I. E. Nagar, Chaganacherry, Kerala.	DHM	1969		Kerala	6.3.69	457		Form 'F' Not Received	9403/7225
400	Dr. Mathew Nirmala	Mathew P.T.	Neelanoor (H), Priyadersini Nagar, Thiruvanchoor Po, Kottayam - 686037, Kerala.	DHMS	1977		Kerala	18.1.78	1626		Form 'F' Not Received	9409/7228
401	Dr. Mathew Roy	T.K. Mathew	Alummoottil House (Karunya) Pulpally Po, Wayanad Dt. Kerala State, 673579.	DHMS	1981		Kerala	20.3.82	2201		Form 'F' Not Received	9420/7234

402	Dr. Mathew Tessymole	M.T. Mathai	Pathentharayil, Jauatha Road Kalady, Tupn - 695002.	BHMS	1983		Kerala	8.9.83	2362		Form 'F' Not Received	9431/7242
403	Dr. Mathew V.M.	Mathew	Vadakkekkuttu, Manalunkal Po, Kottayam, 686503, Kerala.	DHMS	1978		Kerala	25.3.78	1662		Form 'F' Not Received	9438/7247
404	Dr. Mathuriya Savitri	R. G. Mathuriya	28, New Subhash Nagar- II, Lawyer's Colony, Agra - 282005 (U.P.)	DHB			Madhya Pradesh	28.8.84	9390		Form 'F' Not Received	<u>9487/7290</u> CCH-213
405	Dr. Matlani Ram Mangaldas	Mangaldas	G-602, Country Park, Opp. Tata S.S.L, Dutapada Road, Borivli (Mumbai) - 400066.	LCEH	May. 1967		Maharashtra	5.10.67	3812		Form 'F' Not Received	9490/7292
406	Dr. P. Mayadasan	Pappukutty A.	Mannerayathu Veedu, Kavalayoor Po, Moongodu (Via), Thiruvananthapuram, Kerala, Pin. 695144.	DHM	1971		Kerala	16.10.71	634		Form 'F' Not Received	9522/7320
407	Dr. Mehta Arvind Narasidas Mehta	Narasidas	Damodar Clinic, Mumbai-Goa Road, At.Post.Tal. Mangaon, Dist. Raigad, Pin. 402104, (Maharashtra).	LCEH	July, 1983		Maharashtra	22.6.84	11379		Form 'F' Not Received	9562/7349
408	Dr. Buch Vipinchandra Hemangini	Moolshankar	802 Villa Velloze, Central Avenue, Santacruz (W), Mumbai - 400054.	LCEH	Dec. 1967		Maharashtra	25.3.68	3889		Form 'F' Not Received	9578/7360
409	Dr. Mehta Neena Dhanvantrai	Dhanvantrai	Ajitnath, Neelkanth Enclave, 13th Fl, 1301-02, L.B.S. Road, Ghatkopar (W), Mumbai - 400086, Maharashtra.	LCEH	Jan. 1980		Maharashtra	3.5.80	7263		Form 'F' Not Received	9614/7388
410	Dr. Prakash Ramchandra Mehta	Ramchandra	At.Post. Morba, Tal. Mangaon, Dist. Raigad, (Maharashtra).	GCEH	June, 1984		Maharashtra	23.8.84	11618		Form 'F' Not Received	9628/7399
411	Dr. Mehta Shreedevi Ramesh	Ramesh	68/7, Shivaji Park, Madhav Niwas, Dadar, Mumbai - 400028.	LCEH	May. 1970		Maharashtra	8.7.70	4186		Form 'F' Not Received	9652/7418
412	Dr. Mehta Zarina Framroze	Framroze	7, Chapsey Terrace, 30, Altamount Road, Mumbai, Pin - 400026.	LCEH	May. 1985		Maharashtra	30.1.86	13633		Form 'F' Not Received	9667/7420

413	Dr. Mehto Raviprakash	Sh. Ravi	159, Fine Awanue, Face- 1, Nayapura, Kolar Road, Bhopal (M.P.), Pin. 642003.	DHB			Madhya Pradesh	20.4.61	2088		Notice Received Undelivered	9668/7430 CCH-294
414	Dr. Mirjankar Smita Maruti	Maruti	E. 66, Yashodhan, Irla Bridge, Opp. Irla Fire Stn. S.V. Road, Andheri (W), Mumbai - 400058.	DHMS	Aug. 84		Maharashtra	18.12.85	13420		Form 'F' Not Received	9771/7511
415	Dr. Mishra Bhadra Sheel	Ramadar Mishr	Vill.- Bharkhari, Po.- Umri, Dist. Hamirpur, (U.P.) - 210501.	DHB			Madhya Pradesh	9.8.84	9374		Form 'F' Not Received	9790/7528
416	Dr. Mishra Satyadeo Guruprasad	Guruprasad	Mishra Bhawan, Old Cotton Market Chowk, Amravati (Maharashtra).	DHB	Apr. 61		Maharashtra	27.10.61	2269		Form 'F' Not Received	9871/7597
417	Dr. Modha Kamlesh V.	Vallabhdas	A-602, Shree Raj Regency, Building No. 144, Vallabh Baug Lane (Ext.), Ghatkopar (E), Mumbai - 400075.	GCEH	May. 84		Maharashtra	28.11.84	11841		Form 'F' Not Received	9924/7635
418	Dr. (Mrs.) Mehta Mita Bharay	Jagmohandas	11, Valentina, S.N. Gamdiya Road, Off Pedder Road, Mumbai - 400026.	LCEH	May. 78		Maharashtra	21.8.78	6307		Form 'F' Not Received	9937/7647
419	Dr. A. Mohammed Haneefa	K. Aboobacker Kunja	Jubairiya Manzil, Mekone Chandanathope Po, Kollam, Pin. 691014.	DHM	1974		Kerala	20.6.74	848		Form 'F' Not Received	9970/7672
420	Dr. Mohd. Ibraheem Rais Mohiuddin	Moh. Khaja Yousufuddin	17-3-118/24 A, Behind Colony, Yakutpura, Hyderabad - 500023.	DHMS	Oct. 71		Andhra Pradesh	12.9.72	652		Notice Received Undelivered	9974/7675
421	Dr. Mohammed Iqbal	Mohd. Shafi	H.No. 5-706, Market Road, Post - Mancheril, Dist.- Adilabad, Pin.- 504208 (A.P.)	MBS (H)	Apr. 86		Andhra Pradesh	7.1.87	107		Form 'F' Not Received	9977/7678
422	Dr. S. Muhammed Nazeer	Sayed Mohammed Eavvother	Charaliparambil, Thodupuzha East Po, Idukki Dt., 685585.	DHMS	1977		Kerala	3.11.77	1602		Form 'F' Not Received	9982/7681
423	Dr. Muhammed Sadhik V.A.	V.K. Abdulkadir	Valiyaveetil Vellarappilly Sooth Po, Sreemoolanagaram, Ernakulam - 683580, Kerala.	DHMS	1984		Kerala	3.5.84	2460		Form 'F' Not Received	9985/7684

424	Dr. Karunakaran Mohanan	Karunakaran K.	Homoeo Bhavan, Avalukkunnu Po., Alappuzha - 688006, Kerala.	DHM	1972		Kerala	14.3.73	748		Form 'F' Not Received	10014/7707
425	Dr. Mooleparambil Narayanan Mohandas	Achuthen Narayanan	Mooleparambil, Krumuzzoor Kanakkari, 686632 Kottayam, Kerala.	DHM	1975		Kerala	27.10.75	1067		Form 'F' Not Received	10016/7709
426	Dr. Sivasankaran Nair Mohan Das	R. Shivasankaran Nair	Kulangara House, Kaniyapuram Po, TVM. (Dist.), Pin. 695301.	DHMS	1979		Kerala	4.1.80	1908		Form 'F' Not Received	10019/7712
427	Dr. Mohane Suresh Ramkrishna	Ram Krishna	113, Ajay Appt, 16, Hansaraj Lane, Byculla (E), Mumbai - 400027.	DHMS	May. 80		Maharashtra	4.4.81	8055		Form 'F' Not Received	10022/7714
428	Dr. Mahapatra Saroj Kumar	Late Subal Charan Mahapatra	At./Po. Sastrinagar-3, Gosaninuagon, Berhampur-3 (GM), Orissa 760003.	BHMS			Orissa		C/1070		Notice Received Undelivered	10067/7752
429	Dr. S.K. Mohiuddin	Serajuddin	S.K. Bazar, Cuttack-4, Orissa.	DMS			Orissa	3.4.74	C/861		Form 'F' Not Received	10082/7764
430	Dr. Molankar Kalpana Baburao	Baburao	6, Sukhangnd Krupa CHS Ltd, Hi Life Compd, Pheroze Road, Santacruz West, Mumbai - 400054.	LCEH	June, 84		Maharashtra	13.12.84	11910		Form 'F' Not Received	10091/7772
431	Dr. R. Moly	K.K. Sadanandan	Chothi Mahadevikadu Po, Karthikappally Alapuzha, 690555.	DHMS	1978		Kerala	8.12.78	1742		Form 'F' Not Received	10094/7775
432	Dr. More Maruti Hari		At/Post. Mangale, Tal. Shirala, Dist. Sangali.	DHMS	May. 80		Maharashtra	29.11.80	7720		Form 'F' Not Received	10136/7805
433	Dr. Motala Abbas Mohammed		Motala St., Kosamba (R.S.) Dist. Surat - 394120.	DHMS			Gujarat	15.7.77	G: 204		Form 'F' Not Received	10154/7820
434	Dr. Motala Anwar Suleman	Motala Suleman	Piperdy Sheri, At. & Po. Kosamba (R.S.) Dt. Surat - 20.	DHMS			Gujarat	30.11.85	G: 1024		Form 'F' Not Received	10155/7821
435	Dr. Mulla Imatiaz Ahmad Abdul Rahiman	Abdul Rahiman	A/P. Masur, Taluka - Karad, Dist. Satara, Maharashtra.	GCEH	Nov. 81		Maharashtra	16.5.83	9899		Form 'F' Not Received	10225/7873
436	Dr. Multani Motilal	Balachand Multani	240, Near Maskasth Railway Bridge, Itwari, Nagpur (M.S.)	DHB			Madhya Pradesh	22.1.79	7797		Form 'F' Not Received	10239/7883

437	Dr. Damodaran Muraleedharan	Damodharan K.	Anand Vihar, Powdikonam Po, Trivandrum - 695587.	DHM	1976		Kerala	10.3.76	1165		Form 'F' Not Received	10288/7920
438	Dr. P. Muraleedharan	T.K. Pavitharan	Maruthi Nivas TC 43/1557 Mnengeed Po, Trivandrum - 695009.	DHM	1968		Kerala	29.5.69	473		Form 'F' Not Received	10294/7923
439	Dr. Nerella Krishna Murty	N. Venkata Subba Rao	D. No. 5-15-47, Durgadas Street, Kothapeta, Tuni - 533401.	DHMS			Andhra Pradesh	20.9.75	3819		Form 'F' Not Received	10314/7940
440	Dr. Bolla Sree Rama Chandra Murthy	Sri Subba Rao	H.No. 12-7- 133/102/10/F-205, Sri Hari Nagar, Moosapet, Pin. 500018, Hyderabad.	DHMS			Andhra Pradesh	7.1.82	1420		Form 'F' Not Received	10332/7955
441	Dr. Mamillapalli Venkata Dakshina Murty	Venkata Rao	Lakshmi Nursing Home, Ibrahimpattam (Po), Krishna Dt, A.P. 521456.	DHMS			Andhra Pradesh	30.10.76	4113		Form 'F' Not Received	10342/7963
442	Dr. (Smt.) Nagose Vijaya Dadaji	Dadaji	24, Behind Nagpur Nagrik Co-op. Bank, Jogithana Peth, At.Post & Tal.- Umred, Dist. Nagpur (M.S.), 441203.	DHMS	Apr. 1978		Maharashtra	25.7.79	6775		Form 'F' Not Received	10414/8016
443	Dr. Sancheti Pramila Rajesh	Shantilal	Row Bungalow 18- A, Cloud-9, Agrawal Estate, Behind Chanakya Puri, Darga Rd, Aurangabad.	LCEH	May. 1985		Maharashtra	16.5.86	14132		Form 'F' Not Received	10444/8039
444	Dr. Nair Balachandran B.	Bhaskaran Nair R.	TC 27/1388, RRA. E. 87 Gowrisankaram, Rishimangalam, Vanchiyoor Po, Trivandrum - 695035, Kerala.	DHMS	1981		Kerala	16.2.82	2190		Form 'F' Not Received	10486/8070
445	Dr. Nair Bhaskaran P.P.	Parameswaran Nair N.D.	49/1854 - A, "Vinayak" Elamakkara Road, Edappally Kochi, Pin. - 682024.	DHMS	1978		Kerala	4.4.78	1675		Form 'F' Not Received	10491/8075
446	Dr. Nair C.P. Gopalakrishnan	C.K. Parameswaran Nair	"Anusadanam" Attarikom, Omalloor Po, Pin. 689647, Pathanamthitta (Dist.), Kerala State.	DMS	1973		Kerala	19.7.80	2051		Form 'F' Not Received	10499/8080

447	Dr. Nair Gopalakrishnan P.	Padmanabhan Nair	Kuthakara House (Bindu) Nattakom Po, Kottayam, Pin. 686013, Kerala.	DHM	1976		Kerala	21.4.76	1216		Form 'F' Not Received	10500/8081
448	Dr. Nair Gopinathan K.R.	Raman Pillai E.	Kuthakara House (Bindu) Nattakom Po, Kottayam, Pin. 686013, Kerala.	DHM	1972		Kerala	14.12.72	722		Form 'F' Not Received	10503/8084
449	Dr. Nair Gopinathan R.K.	Krishna Nair N.	TC - 31/2449, House No. A-83, Santhi Mandiram, Shree Rangam Road, Sarhamangalam, Trivandrum - 10, South Kerala.	DHM	1972		Kerala	18.11.72	713		Form 'F' Not Received	10504/8085
450	Dr. Nair Muraleedharan P.	Purushotaman Nair	Alurumpil (H), Elikulam Po, Kottayam (Dist), Kerala - 686577.	DHM	1970		Kerala	8.10.70	552		Form 'F' Not Received	10525/8099
451	Dr. Nair Muralidharan P.V.	Vasu Pillai P.	Manimalasseril House, Cherukara Po, Alleppey Dt., Pin. 688506.	DHMS	1978		Kerala	8.12.78	1751		Form 'F' Not Received	10526/8100
452	Dr. Nair Prabhakaran T.	Thankappan Pillai N.	Padma Prabha, Medail Jn. Thoppil Nagar, Kavanad Po, Kollam-3, Kerala.	DHMS	1978		Kerala	18.3.78	1646		Form 'F' Not Received	10536/8108
453	Dr. Nair K.G. Purushothaman	P.N. Gopalan Nair	Keecheril, Post- Thampalakad, (Via) Kanjirapally, Kottayam (Dist), Kerala.	DHM	1964		Kerala	6.8.65	209		Form 'F' Not Received	10537/8109
454	Dr. Nair Ravindranathan P.C.	P.N. Padnabha Pillai	Karthika, Idukki Colony Po, Idukki Dist, Kerala - 685602.	DMS	1961		Kerala	7.2.62	56		Form 'F' Not Received	10562/8125
455	Dr. Nair V. Sadasivan	Velu Pillai K.N.	Sabhalya, Kodunganur Po, Via. Vattiyookav, Thiruvananthapuram, Kerala State.	DHM	1977		Kerala	25.4.73	759		Form 'F' Not Received	10567/8126
456	Dr. Nair Sreekumaran Sankarapillai	Sankara Pillai K.N.	Sabareeswaram, Chavara B.P.O, Pin. 691583, Kollam Dist., Kerala.	DHMS	1978		Kerala	20.4.78	1681		Form 'F' Not Received	10584/8139
457	Dr. Nair Sudevan S.	Sankara Pillai M.	Madhavi Mandiram, Pallippuram P.O, Trivandrum (Dist), Kerala, Pin. 695316.	DHM	1975		Kerala	6.11.75	1099		Notice Received Undelivered	10586/8140

458	Dr. Nair Sukumaran V.B.	Balakrishna Kurup K.	Pournami, Panangode P.O, Peringamala, Thiruvananthapuram, 695563, Kerala.	DHMS	1976		Kerala	13.9.76	1265		Form 'F' Not Received	10589/8142
459	Dr. Nair Usha Gangadharan	Gangadharan Nair	Panachikal House E-1, Chithra Nagar, Vattiyoorkaug P.O, Trivandrum, 695013.	DHMS	1980		Kerala	30.4.80	1950		Form 'F' Not Received	10591/8144
460	Dr. Nalini Gendulalji Karnawat	Gendulalji	Jatharpeth, In Front of Ice Factory Akola (M.S.), Pin. 444001.	DHMS	Apr. 1977		Maharashtra	25.1.78	6114		Form 'F' Not Received	10624/8169
461	Dr. Nalini Vadakkath	Narayanan Nambisan	"Devaragam" Tamarassery (Po), Kozhikode, Kerala, Pin. 673573.	DHMS	1983		Kerala	9.6.83	2316		Form 'F' Not Received	10628/8172
462	Dr. M.N. Narayanan Namboodiri	Narayanan Namboodiri M. J.	Maruthoor (H), Nanminda Po, Kozhikod Dt, Kerala, Pin. 673613.	DHMS	1976		Kerala	24.3.76	1208		Form 'F' Not Received	10638/8180
463	Dr. K.S. Purushothaman Namboothiripad	Godam Namboothiripad K.G.	Kizhakumbhagathu Mana, Bhakthanatha Puram (Po), Puthencruze (Via), Ernakulam, 682308.	DHMS	1977		Kerala	20.9.77	1562		Form 'F' Not Received	10640/8182
464	Dr. Nandakumar K. R.	Raveendranath	Krishna (House), Ameda Road, Udayamperoor Po, Ernakulam (Dt), Kerala - 682307.	DHMS	1980		Kerala	19.7.80	2046		Notice Received Undelivered	10665/8200
465	Dr. Parikh Chetna Vatsal	Mathurdas	210-211, Radhe Vallabh CHS, French Bridge Corner, Opera House, Mumbai - 400007.	LCEH	Dec. 1983		Maharashtra	19.4.84	11086		Notice Received Undelivered	10677/8211
466	Dr. Nanjaraju C.B.	C.S. Basave Gowda	"Susri" Opp. N.C.C. Office Road, Hassan - 573202, Karnataka.	GCEH	Nov. 1985		Karnataka	27.3.86	3389		Form 'F' Not Received	10690/8221
467	Dr. Nanoo Raghudas	Nanook	Raghumandiram, Vadakkevik Po, Kollam, Karnataka, 691010.	DHMS	1978		Kerala	20.3.78	1654		Form 'F' Not Received	10692/8223
468	Dr. N.K. Narayanan	A. Krishnan	Chooprathu House, Pattanakad Po, Cherthala, Alappuzha Dist, Pin. 688531.	DHM	1973		Kerala	11.3.74	831		Form 'F' Not Received	10719/8242

469	Dr. Narkhi Ketan Kumar Mahendrabhai	Narkhi Mahendra Bhai	22, Vaibhav Bungalows, Indira Gandhi Marg, Nadiad, Dist. Kheda, 387002, (Gujarat).	DHMS			Gujarat	20.9.86	G: 1204		Form 'F' Not Received	10742/8257
470	Dr. Narwani Ram Chand	Bhagchand Narwani	Daulat Ganj, Raja Baksher ki Goth, Lashkar, Gwalior (M.P.)	DHB			Madhya Pradesh	20.2.75	6777		Removed us published at two S.No.	10764/8274
471	Dr. Nataraj G.B.		Main Road Kalasa Chikamagalur, Karnataka, 577124.	GCEH	May. 82		Karnataka	20.12.82	2718		Form 'F' Not Received	10774/8285
472	Dr. Nawab Abbas Ali	Asgar Ali Navab	K.D. Gate, Kamru Bagh ki Gali, Ujjain (M.P.)	DHB			Madhya Pradesh	31.3.75	6797		Form 'F' Not Received	10792/8298
473	Dr. Naik Rajashree Rajendra	Deora Nayak	"Ramanath" Plot No. 42, 202/1 Vasudha HSG. Colony, 3rd Lane, Alto St. Cruz, Bambolim Complex (Goa) 403202.	LCEH	Nov. 1985		Karnataka	27.11.86	3597		Form 'F' Not Received	10843/8338
474	Dr. Nikam Narayan Trimbak	Trimbakrao	Sachin Clinic, At. & Po. Bazar Sawangi, Ta. Khultabad, Dist. Aurangabad.	DHMS	May. 1980		Maharashtra	5.9.80	7499		Form 'F' Not Received	10935/8416
475	Dr. Nimbalkar Vikram Baburao	Baburao	At.Po.- Hinggaon, Tal. Phalton, Dist. Satara - 415523.	DHB	May. 1975		Maharashtra	1.9.75	5523		Form 'F' Not Received	10956/8432
476	Dr. Nirmalanandan Kunissery Panganchadeth	K. Padmanabhan Nair	Gauri Padman, Robinsow Road, Palakkad - 678001, Kerala.	DHM	1967		Kerala	29.11.87	360		Notice Received Undelivered	10990/8453
477	Dr. V. A. Nizar	Abdul Jabbar V.S.	Velluparambil, Down Hill P.O. Malappuram, Malappuram Dt., Kerala.	DHMS	1983		Kerala	22.9.83	2368		Form 'F' Not Received	11006/8465
478	Dr. Kunnel Janaky Omana	K.K. J. Chuthan	Kurumadaghil House, Peruva Po, Pin. 686610, Kottayam Dist, Kerala.	DHMS	1982		Kerala	20.12.82	2246		Form 'F' Not Received	11075/8523
479	Dr. Oommen Leelamma	C.V. Oommen	Puthooparampil, Tiruvalla, Near S.C.S. Juntion.	DHM	1967		Kerala	30.8.68	406		Form 'F' Not Received	11079/8526
480	Dr. Oza Jayprakash Dilipbhai	Oza Dilipbhai	No. 17, Nilkamal Society, Nizampura, Vadodara, State Gujarat.	DHMS			Gujarat	5.2.83	G: 650		Form 'F' Not Received	11109/8552

481	Dr. Paul James	P.C. Paul	Panackal (H), Poojappura Road, Po. Aroor, Kerala - 688534.	DHMS			Kerala	5.12.81	2123		Form 'F' Not Received	11215/8628
482	Dr. Paul Mary	Paul K.M.	St. Mary's Clinic, Thaboor Po, Angamaly Ernakulam (Dist.), Kerala.	DHMS	1983		Kerala	9.6.83	2313		Form 'F' Not Received	11221/8631
483	Dr. Paul Pran Krishna		At. Road, Bokakhat Town, Ward No.1, Po.- Bokakhat (Opp. B.D.O. Office) Dt.- Golaghat, Assam, Pin. 785612.	DHMS	July. 83		Assam	16.11.84	100		Notice Received Undelivered	11227/8636
484	Dr. Shaikh Sara Nazir (Kattumangattu Sara Paul)	Kattumangattu	A/4 Navin-Asha CHS, Rambaug Lane, Kalyan (W) - 421301.	LCEH	Dec. 70		Maharashtra	17.4.71	4363		Form 'F' Not Received	11231/8640
485	Dr. P. Paul Sumithran	Pauldhas	Sheela Bhavan, Hitayath, Puzhavathu, Changanachery Po, Kottayam Dt., Kerala, 686101.	DHMS	1984		Kerala	30.3.84	2431		Form 'F' Not Received	11234/8642
486	Dr. Pandey Ashok Kumar	Rajmani Sharma	270, Anand Nagar, Adhartal, Jabalpur.	DHB			Madhya Pradesh	29.11.49	7691		Form 'F' Not Received	11316/8695
487	Dr. Pandey Dinesh Chandra	Jai Dutt Pandey	112-Scheme No. 3, Basant Vihar, Alwar (Rajasthan) - 301001.	DHMS	1982		Rajasthan	17.3.83	2774		Form 'F' Not Received	11320/8699
488	Dr. Pande Premdas Shankar Rao	Shankar Rao	Plot No. 24, Narayan Nagar, Behind Bajaj Show Room, Umrer, Dist. Nagpur (M.S.)	DHB	Oct. 66		Maharashtra	10.2.67	3681		Form 'F' Not Received	11343/8718
489	Dr. Syham Narayan Pandey	Har Naryain Pandey	Raghunath Colony, Lakhnadon, Dist. Sivani (M.P.)	DHB			Madhya Pradesh	4.12.75	7002		Form 'F' Not Received	11382/8748
490	Dr. Pandya Hitendrakumar Bhavanishanker	Pandya Bhavani Shankar	Nr. Darbargadh, Po. Dahevan, Ta. Borsad, Dist. Anand, Gujarat, Pin. 388550.	DHMS			Gujarat	31.8.87	G: 1486		Form 'F' Not Received	11417/8778
491	Dr. Pandya Milankumar Rameshchandra	Pandya Ramesh Chandra	Mahavir Park Society, Mehul Nagar Road, Nr. Gajanan School, Jamnagar, Gujarat.	DHMS			Gujarat	20.9.86	G: 1217		Form 'F' Not Received	11422/8782
492	Dr. Panicker M. Ramabhadra	Madhava Kurup P.K.	Ragom, Kaviyoor P.O, Tiruvalla, Pathanamthitta, Kerala, Pin. 689582.	DHM			Kerala	6.11.75	1097		Form 'F' Not Received	11444/8798

493	Dr. Ramachndra Panicker C.K.	V. A. Kumar Kurup	Indira Niwas, Thrichattukulam Po, Poochakkal, Alapuzha.	DHMS	1976		Kerala	10.11.76	1364		Form 'F' Not Received	11445/8799
494	Dr. Saseendra Natha Paniker C.P.	Pankajakshan Nair K.	Puthen Veedu, Perum Palam Post (via) Poochakkal, Alleppey Dt., Kerala.	DHMS	1981		Kerala	20.3.82	2209		Form 'F' Not Received	11449/8802
495	Dr. Panjwani Khanchand	Bhagwan Das Panjwani	H.N. 1194, Jahangirabad, Jabalpur (M.P.)	DHB			Madhya Pradesh	15.2.83	8796		Form 'F' Not Received	11469/8819
496	Dr. G. Pankajavally	Gopala Pillai	Sree Narayana Vilas N-E-Ward, Vaikom - 686141, Kottayam Dist, Kerala.	DHMS	1975		Kerala	7.11.75	1107		Form 'F' Not Received	11471/8821
497	Dr. Pannakkal Jayakumar Mathai	Mathai Pannakkal	Manasi, M.S. Baburat Road, Kallai Po, Calicut, Pin. - 673003, Kerala.	DHMS	1984		Kerala	24.8.84	2503		Form 'F' Not Received	11475/8825
498	Dr. Panwala Rekha Tarun	Tarun	6, Vinco Apts, Chapel Road, Bandra (W), Mumbai - 400050.	LCEH	Jan. 72		Maharashtra	28.03.72	4597		Form 'F' Not Received	11493/8839
499	Dr. Parekh Devendra Thakorlal	Parekh Thakorlal	Khadia Pole-2, Rajmahal Road, Baroda-390001, (Gujarat).	DHMS			Gujarat	15.12.81	G: 539		Form 'F' Not Received	11575/8901
500	Dr. Parmar Chimanbhai Fakirbhai	Parmar Fakirbhai	Khadodhi, Ta. Cambay, Dist. Anand, Pin. 388610, Gujarat.	DHMS			Gujarat	28.2.86	G: 1108		Notice Received Undelivered	11636/8943
501	Dr. Parmar Dadubha Kiratsinhji	Parmar Kiratsish	Aaradhna Park, L-56, Meghni Road, Opp. Meghani Baug Swimming Pool, Surendranagar, Pin. 363002, Gujarat.	DHMS			Gujarat	30.4.86	G: 1159		Form 'F' Not Received	11637/8944
502	Patel Dr. Ashokkumar Punambhai	Patel Punambhai	'Dhananjay Clinic' 'Azad Chowk' At. Kanjari, Tal. Nandiad, Dist. Kheda.	DHMS			Gujarat	30.9.86	G: 1247		Form 'F' Not Received	11713/9004
503	Dr. Patel Bhanabhai Chaganbhai	Patel Chhagan Bhai	At. & Po. Gambhai, Tal. Himatnagar, Dist. Sabarkantha, Gujarat.	DMS			Gujarat	3.12.81	G: 531		Form 'F' Not Received	11736/9018
504	Patel Dr. Bhanuprasad Hansrajbhai	Hansaraj Bhai Patel	"Gyatri Clinic, Near Meganagar, Paranchani Road, Nadia - 387002.	DHMS			Gujarat	21.10.87	G: 1530		Form 'F' Not Received	11737/9019

505	Dr. Patel Deepak Ramanlal	Patel Ramanlal	A-5, Govardhan Park Soc, Opp. Nathibanagar Soc, Harni Road, Vadodara - 390022.	DHMS			Gujarat	23.4.86	G: 1158		Form 'F' Not Received	11793/9063
506	Dr. Patel Gurusaran Mani Bhai	Patel Manibhai	Shushrut Clinic, At.&Po. & Ta. - Nasadi - 391150, (Gujarat).	DHMS			Gujarat	18.2.85	G: 959		Form 'F' Not Received	11805/9071
507	Dr. Patel Iqbal V.	Vali Bhai	Daud Shahid Choek, Yakutpura, Baroda - 390006.	DHMS			Gujarat	29.6.77	G: 197		Form 'F' Not Received	11830/9095
508	Dr. Patel Jayantilal Jadav Bhai	Patel Jadav Bhai	3, Navalnagar, "Shriji Sadan" Mavdi Rd, Rajkot - 4.	DHMS			Gujarat	20.4.87	G: 1359		Form 'F' Not Received	11854/9112
509	Dr. Kamlesh Natubhai Patel	Natu Bhai Patel	15 / Nehru Nagar Society, Opp. Bus-Depot, At. Jambusar, Dist. Bharuch, Pin. 392150, Gujarat.	DHMS			Gujarat	20.12.85	G: 1056		Form 'F' Not Received	11876/9126
510	Dr. Patel Kamleshkumar Shantilal	Patel Shantilal	16, Nandanvan Co.Op. Society, Amul Dairy Road, Anand, Gujarat.	DHMS			Gujarat	20.2.86	G: 1080		Form 'F' Not Received	11878/9127
511	Dr. Patel Minesh Kumar Gokal Bhai	Patel Gokal Bhai	13, Vaibhav Society, Near Collector Residance, B/H Ganesh Dairy, Anand - 388001.	DHMS			Gujarat	20.3.86	G: 1127		Form 'F' Not Received	11931/9171
512	Dr. Patel Mohanbhai Danabhai	Patel Danabhai	Astha Medicare, At.Po.Ta. Satlasana, Dist. Mehsana, 384330, (Gujarat).	DHMS			Gujarat	24.2.84	G: 812		Form 'F' Not Received	11935/9175
513	Dr. Patel Mukeshkumar Rameshbhai	Patel Rameshbhai	'Satsang' Vijay Estet Tassadi, Kosamba (R.S.) Dist. Surat, Gujarat, Pin. 394120.	DHMS			Gujarat	20.8.87	G: 1453		Form 'F' Not Received	11946/9185
514	Dr. Patel Pravinbhai Revabhai	Patel Revabhai	13/B, Virvijay Society, Nr. Sangvi School, Naranpura, Ahmedabad - 13, Gujarat.	DHMS			Gujarat	20.4.87	G: 1366		Form 'F' Not Received	11998/9226
515	Dr. Akali Dilipsingh Holasingh	Hola Singh	Deep Geet CHS Plot 1016 Sector - 15, Nerul, Navi Mumbai - 400706.	LCEH	1977		Maharashtra	2.5.78	6165		Form 'F' Not Received	395/287

516	Dr. Suratiya Harendrasinh	Balvant Sinh Suratiya	At. & Po. Zonor, Tq. & Dist. Bharuch, Gujarat.	DHMS			Gujarat	17.4.84	G: 843		Notice Received Undelivered	18219/14031
517	Dr. Ampat Jacob Thomas (Jacob Thomas A.)	C.T. Thomas	Ampat House, Punnaveley P.O., Thiruvalla (Via), Pathanamthitta District, Kerala, Pin. 689589.	DHM	1978		Kerala	9.11.1978	1718		Form 'F' Not Received	5810/4442
518	Dr. Vazhakala Olahannan Thomas (Thomas V.O.)	Thomas Olahannan	Vazhakala (H), Thrikothamangalam P.O., Kottayam District, Kerala - 686011.	DHMS	1979		Kerala	26.6.1981	2114		Form 'F' Not Received	18797/14469
519	Dr. Prabin Kumar Ghosh	P.C. Ghosh	Rajamaidam Road (Kalisthan) Jorhat - I, Assam.	DHMS	1985		Assam	26.9.86	183		Form 'F' Not Received	<u>4797/3676</u> CCH-380
520	Dr. Bhinda Ashok Kumar	Tulsi Ram Bhinda	159, Manu Kutir, Dausa Gaate, Sanganer, Jaipur.	DHMS	1981		Rajasthan	28.7.82	2694		Form 'F' Not Received	1968/1494
521	Dr. Badshah Madhukanta Nandkishore	Nandkishore	303, Rajneelum, Dr. R. Patel Road, Opp. Breach Candy Hospital Mumbai - 400026.	LCEH	1974		Maharashtra	5.2.75	5397		Form 'F' Not Received	1066/803
522	Dr. Bhangde Bipin Ramji	Ramji	510, Mewawala Niwas, M.G. Road, Muland (W), Mumbai - 400080.	LCEH	1985		Maharashtra	3.4.86	13920		Form 'F' Not Received	1650/1252
523	Dr. Chandiramani Anjali Shyam	Dayal	83/4, Jal Darshan, Nepean Sea Road, Mumbai - 400036.	LCEH	1976		Maharashtra		5842		Form 'F' Not Received	1926/1465
524	Dr. Bhatt Niranjan Dolarkumar	Dolar Kumar	H. 113, Nootan Nagar, Guru Nanak Road, Bandra, Mumbai - 400050.	LCEH	1972		Maharashtra	22.2.72	4576		Form 'F' Not Received	1883/1432
525	Dr. Rajeshwari Bhat R.	Ramchandra Bhat	W/o Dr. M.R. Prakash, Adarsha Clinic, K.R. Extension, B.H. Road, Tiptur - 572202, Karnataka.	LCEH	1984		Karnataka	29.1.85	3132		Form 'F' Not Received	1887/1436
526	Dr. Kothari Kalpana Kamlesh	Jadavji	1902, Tridev Tower, Bhakti Marg, Mulund (W), Mumbai - 400080.	LCEH	1983		Maharashtra	29.1.86	11115		Form 'F' Not Received	1679/1278

527	Dr. Bansod Sharad Tulshiram	Tulshiramji	At.Post. Jarud, Tq. Warud, Dist. Amravati, Maharashtra.	DHMS	1986		Maharashtra	18.6.81	8262		Form 'F' Not Received	1346/1016
528	Dr. Sharma Trilok Chand	Lakshri Ram	V.P.O. Lambloo, Distt. Hamir Pur (H.P.), Pin. 177029.	DHMS			Himachal Pradesh	31.1.89	56-A		Form 'F' Not Received	3260/2509
529	Dr. Kuldeep Angiras	K.D. Sharma	V/PO.- Sarahkar, Teh./Distt.- Hamirpur (H.P.), 177027.	DHMS			Himachal Pradesh	30.6.87	46-A		Form 'F' Not Received	3279/2525
530	Dr. Desai Ashok Subrao		A/P. Dundage, Tal. Gadhinglaj, Dist. Kolhapur, Maharashtra.	GCEH	1982		Karnataka	8.2.83	2738		Form 'F' Not Received	3488/2660
531	Dr. Dadu Lal Deshmukh	Krishanlal Deshmukh	Pandia Chhapara, Keolary Seoni (M.P.) 480996.	DHB			Madhya Pradesh	20.12.82	8718		Form 'F' Not Received	3560/2713
532	Dr. Gopala Pillai Parukuttyama Sathy Devi (Sathy Devi G.P.)	R. Gopala Pillai	'Reshmy' Atra - 37, Palace Road, Attingal - 695101.	DHMS	1977		Kerala	9.3.77	1403		Form 'F' Not Received	3773/2876
533	Dr. Darda Vijaykumar Motilal	Motilal	2432, M.G. Road, Adat Bazar, A/P. Ghodnadi, Dist. Poona (Maharashtra).	LCEH	1983		Maharashtra	7.2.84	10834		Form 'F' Not Received	3150/2414
534	Dr. Ostwal Chanda Gyanchand	Vimal Chand	16, Hiwari Layout, Opp. Peashant School, Nagpur - 440008.	DHMS	1979		Maharashtra	12.2.81	7875		Form 'F' Not Received	3044/2333
535	Dr. R. Devasankar	P. Rajadorai	Rajpon Illam, RH 146, Ellis Nagar, Madurai - 10.	DHMS			Tamil Nadu	19.9.80	145		Form 'F' Not Received	3704/2826
536	Dr. K.K. Chandramathi	K.P. Kumaran	Parappil House, Puhhapra P.O, Alappuzhe, Kerala, Pin. 688004.	DHMS	1984		Kerala	18.4.84	2447		Form 'F' Not Received	2443/1870
537	Dr. Chaudhari Sudhakar Dharma	Dharma	At.Post. Nimbhora, Tal. Raver, Dist. Jalgaon, Maharashtra.	DHMS	1979		Maharashtra	14.3.80	7137		Form 'F' Not Received	2966/2277
538	Dr. Chavan Deepa Annasaheb		B-1, Highway Apts. Sion Trombay Road, Mumbai - 440022.	LCEH	1976		Maharashtra	28.3.77	5865		Form 'F' Not Received	2604/1993
539	Dr. Gupta Om Prakash	Sunnulal Gupta	Ward No. 34, House No. 1050, Near Morden School, Kamal Singh ka Bagh, Sinday ki Chhawani, Lashker, Gwalior, M.P.	DHB			Madhya Pradesh	7.1.85	9452		Form 'F' Not Received	5283/4040

540	Dr. Gupta Rameshwar Shankar Lal	Sankar Gupta	52, Subhash Marg, Datahari Chouk, Near Laxmi Temple, Shriram Aushdhalaya Kukshi, Dhar, (M.P.) - 454331.	DHB			Madhya Pradesh	22.1.76	7098		Notice Received Undelivered	5325/4074
541	Dr. Dinesh Kumar Goyal	Rameshwar Pd.	B-39/40, Goyal Clinic, Dayanand Marg, Janta Colony, Jaipur - 302004.	DHMS	1983		Rajasthan	30.10.85	3113	BHMS April, 1986 Rajasthan Board Homoeopat hic Medicine Jaipur.	Form 'F' Not Received	5063/3878
542	Dr. Goswami Sudhakar Shankargir	Shankargir	At.Post. Surji Anjangaon Durga Nagar, Tq. Surji Anjangaon, Dist. Amravati - 444728.	DHB	Nov. 1973		Maharashtra	27.5.74	5139		Form 'F' Not Received	5026/3852
543	Dr. Gujalwar Bhaiya Dhondopant		At.Po. Salod, Via. Akola Bazar, Tq. Dist. Yavatmal, Maharashtra.	DHMS	1978		Maharashtra	25.9.78	6365		Form 'F' Not Received	5101/3905
544	Dr. Gujar Nalini Sadashiv	Sadashivrao	Near Jain Mandir, Bada Bazar, Malkapur - 443101. (M.S.)	DHMS	Dec. 1979		Maharashtra	19.9.81	8500		Form 'F' Not Received	5103/3907
545	Dr. Gujarathi Anilkumar Navanital	Navanit Lal	Shriji Hospital, Godhole Lane Parola, Dist. Jalgaon, Pin. 425111.	DHMS	Apr. 1978		Maharashtra	4.1.79	6501		Form 'F' Not Received	5107/3911
546	Dr. Gulhane Ramesh Pandurang		Ward No. 34, Tilakwadi, Behind 'Gupta' Building, Yeotmal.	DHMS	1979		Maharashtra	27.2.80	7092		Notice Received Undelivered	5138/3930
547	Dr. Gupta Pradeep Ramkisan		Plot No. 332, Gandhi Nagar, Nagpur - 10.	DHMS	May. 1980		Maharashtra	16.10.80	7594		Notice Received Undelivered	5292/4048
548	Dr. Gupta Subhash Sitaram	Sitaram	C/o Shri Vinayak Traders, Opp. City Police Station, Main Road, Gondia.	DHMS	1979		Maharashtra	13.6.80	7359		Form 'F' Not Received	5371/4111
549	Dr. Hatnagar Jayant Laxmanrao	Laxmanrao	At. & Post. Pohara, Tq. Lakhani, Dist. Bhandara, (M.S.)	DHB	1975		Maharashtra	28.2.76	5620		Form 'F' Not Received	5556/4250

550	Dr. Hemang J. Mahimtura	Jatin	701, Parshwa, 91-D, Banganga Road, Mumbai - 40006.	LCEH	1983		Maharashtra	19.7.85	12787		Form 'F' Not Received	5583/4271
551	Hinge Vasant Bapurao	Bapurao	At.Post. Alipur, Tal. Hingaghat, Dist. Wardha.	DHB	Apr. 1974		Maharashtra	3.6.76	5673		Form 'F' Not Received	5600/4283
552	Dr. Laila Sultan Virani (Laila Tapubhai Hooda)	Tapubhai	14/B-6, Hooda Homoeopathic Pharmacy, Manish Nagar CHS, J.P. Road, Andheri (W), 400053.	LCEH	Dec. 1976		Maharashtra	28.3.77	5867		Form 'F' Not Received	5646/4319
553	Dr. Imtiyaz Nisarali	Nisarali	101, Kohinoor Apts, Yari Rd, Versova, Mumbai - 400061.	LCEH	Dec. 1983		Maharashtra	24.1.86	11144		Form 'F' Not Received	5706/4362
554	Dr. Inamdar Gajanan Digambar	Digambar	Chaitanya Hospital, At.Post. Vaday, Tal. Khataw, Dist. Satara.	LCEH	Dec. 1978		Maharashtra	24.1.86	6624		Form 'F' Not Received	5708/4363
555	Dr. Bora Mahesh Pannalal	Pannalal	Bora Hospital, 589, Ganesh Peth, Pune - 4110002.	LCEH	Dec. 1986		Maharashtra	20.3.87	15074		Form 'F' Not Received	5760/4406
556	Dr. Jadeja Mahendra Meramanji	Meramanji	502, Sunder Apartment, Mazgaon, Mumbai - 400010.	LCEH	Dec. 1980		Maharashtra	4.4.81	8058		Form 'F' Not Received	5815/4447
557	Dr. Jadhav Ashok Gopalrao	Gopalrao	502, Parle Pearl CHS. G.B. Indulkar Marg, Vile Parle (E), Mumbai - 400057.	LCEH	May. 1964		Maharashtra	1.9.64	2974		Form 'F' Not Received	5822/4453
558	Dr. Jadhav Bhausaheb Shankar	Shankar	At.Post. Kumbhari, Tal. Niphad, Dist. Nasik.	DHMS	Apr. 1979		Maharashtra	17.12.79	6988		Form 'F' Not Received	5824/4455
559	Dr. Jadhav Pradipkumar Buwasaheb	Buwasaheb	H.No. 2305, At.Post. Karmala, Dist. Solapur, Pin. 413203.	LCEH	Jun. 1981		Maharashtra	22.6.84	11346		Form 'F' Not Received	5846/4470
560	Dr. Jadhav Suresh Rao Marotrao	Marotrao	At.Post. Talani, Tq. Hadgaon, Dist. Nanded, Pin. 431743.	DHMS	Apr. 1978		Maharashtra	25.9.78	6352		Form 'F' Not Received	5858/4480
561	Dr. Jadhav Yashwant Anandrao	Anandrao	A/P- Minache, Tal- Hatkonangle, Dist.- Kolhapur, Pin.- 416109.	GCEH	Nov. 1984		Maharashtra	5.1.88	15948		Form 'F' Not Received	5863/4483
562	Dr. Chandrakant Vaman Jagadale Patil	Vaman Patil	1, Laxmi Co-op. Hsg. Society, Nardas Nagar, T.P. Road, Bhandup (W), Mumbai - 400078.	GCEH	May. 1984		Maharashtra	7.10.85	13067		Form 'F' Not Received	5885/4500

563	Dr. Jagiasi Kishin Pahilajrai	Pahilajrai	BK 945, R/11,12 Sector - 22, Ulhasnagar - 3, Dist. Thane (M.S.)	LCEH	1969		Maharashtra	28.4.70	4163		Form 'F' Not Received	5894/4509
564	Dr. Jain Arvind Umraochand	Umraochand	Shop No. 3, Naik Chuwl Natwar Nagar Road No. 1, Jogeshwari (E), Mumbai - 60, (M.S.)	LCEH	Dec. 1983		Maharashtra	24.4.84	11143		Form 'F' Not Received	5934/4539
565	Dr. Jain Dayachand Chandmalji	Chandmal	At.Post. Nandsawangi, Tal. Nandgaon Khandeshwar, Distt. Amravati, 444701.	DHB	Apr. 1972		Maharashtra	14.9.72	4706		Form 'F' Not Received	5964/4560
566	Dr. Bijoy Gupta	D.P. Gupta	EA -1/64, Inder Puri, New Delhi - 110012.	DHMS			Delhi Rajasthan	16.12.87 8.9.87	BHSD/ 1868 3320		Form 'F' Not Received	5193/3972 5388/4125
567	Dr. Gumber Kewal Krishan	Jagan Nath Gumber	22 B. Nai Dhan Mandi, Hanuman Garh Town, Pin. 335513.	DHMS	Nov. 1981		Punjab	17.12.81	510		Remove U/S 25(1) of HCC Act, 73	5148/3937
568	Dr. Gupta Shankar Lal	Gyasi Ram Gupta	Vill.+Po. Mausahaniya, Distt. Chatarpur (M.P.)	DHB			Madhya Pradesh	23.12.81	8454		Form 'F' Not Received	5356/4099
569	Dr. Angadala Gandhi	A. Hanumantha Rao	Door No. 59.5.22, P&T Colony, Old Post Office Street, Rajamuwdry-5 (A.P.)	DHMS			Andhra Pradesh	2.12.72	3017		Form 'F' Not Received	4457/3418
570	Dr. A.V. Dolly (Dolly George)	Varghese A.K.	Vadakkekunnel, Chungam, Eranholi P.O, Thalassery - 670107, Kannur Dist.	DHMS	1978		Kerala	20.4.78	1686		Form 'F' Not Received	4117/3144
571	Dr. Divde Mohammed Shafi Mohammed Siddique	Siddique	At.& Po.Taloja, Tal. Panvel, Dist. Raigad, Maharashtra, Pin. 410208.	LCEH	1977		Maharashtra	11.7.77	5934		Form 'F' Not Received	4007/3061
572	Dr. Mrs. Gandhi Sarita Atul (Miss Dobhada Sarita Hukumchand)	Hukumchand	Shree Hospital, Sangram Nagar, At./Post. Akluj, Dist. Solapur, State Maharashtra.	LCEH	1985		Maharashtra	25.7.86	14344		Form 'F' Not Received	4042/3886
573	Dr. Doshi Sujata Amod	Gaj Kumar	M/6, Prathanesh Soc. Veer Swarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025.	LCEH	1982		Maharashtra	28.3.85	12430		Form 'F' Not Received	<u>4062/3102</u> CCH- 42

574	Dr. Doye Deepak Madhukar Rao	Madhukar Rao	Pal Chowk, Rail Toly, Gondia.	DHMS	1980		Maharashtra	17.8.83	10263		Form 'F' Not Received	4070/3107
575	Dr. Uttamrao P. Doifode	Pandurangji	At.Post. Wadner Gangai, Tq. Daryapur, Dist. Amravati.	DHMS	1980		Maharashtra	16.3.81	7952		Form 'F' Not Received	4109/3137
576	Dr. Doijad Rukhamangad Balaji		At. Katali, Po. Sakhara, Tq./Dist. Gadchiroli.	DHMS	1978		Maharashtra	25.6.79	6717		Form 'F' Not Received	4110/3138
577	Dr. Doshi Arinjai Dhanyakumar	Dhanyakumar	Vipulharsh Hospital, Post Road, Kurduwadi - 413208, Dist. Solapur.	LCEH	1981		Maharashtra	2.1.84	10745		Notice Received Undelivered	4137/3163
578	Dr. Doshi Deepak Amratlal	Amrat Lal	3, Humloot Society, Ground Floor, Shankar Lane, Kandivli (W), Mumbai - 400064.	LCEH	1983		Maharashtra	24.4.84	11172		Form 'F' Not Received	4139/3165
579	Dr. Doshi Niranjan Vijaykumar	Vijay	'Om' Plot No.10, Nagai Colony, Chandwad, Dist. Nashik, 423101, Maharashtra.	LCEH	June, 1984		Maharashtra	26.2.85	12275		Form 'F' Not Received	4148/3173
580	Dr. Doshi Santosh Kantilal	Kantilal	Jeevan Jyoth Hospital, Isabavi, Pandharpur, Solapur, Pin. 413304.	LCEH	1983		Maharashtra	9.1.84	10758		Form 'F' Not Received	4155/3178
581	Dr. Duddoo Satyajeet Panachand	Panachand	A/P. Kuroli, Siddheshwar, Tal.Khatav, Dist. Satara, Maharashtra, 415527.	GCEH	1984		Maharashtra	8.5.85	12491		Form 'F' Not Received	4187/3203
582	Dr. Gandhi Subhada Ajitkumar (Duddoo Shubhada Panachand)	Panachand	A/P. Yawat, Tal. Daund, Dist. Pune, Maharashtra, 412214.	LCEH	1985		Maharashtra	4.6.86	14184		Form 'F' Not Received	4188/3204
583	Dr. Duratkar Nandkishor Laxmanrao	Laxmanrao	Old Town Badnera Tq., Dist. Amravati.	DHMS	1979		Maharashtra	1.2.81	7864		Form 'F' Not Received	4207/3217
584	Dr. Fernandis John Juzeluis	Juzeluis	5/7, Joseph Nursing Home, Hodavada, Vengurla Sindhudurga - 416527.	LCEH	Jan. 1982		Maharashtra	26.10.82	9508		Form 'F' Not Received	4320/3304

585	Dr. Funde Mahadeo Pundlik		At.Po. Bhute Takli, Tq. Pathardi, Dist. Ahmednagar (M.S.)	DHMS	Dec. 1979		Maharashtra	16.6.81	8272		Form 'F' Not Received	4346/3324
586	Dr. Hebbalkar Geeta Tushar (Gada Geeta Dhanji)	Raghavji	B-6, Deep Jyoti Society Next to Vandana Society, L.B.S. Marg, Naupada Thane (W), 400602, Mumbai, Maharashtra.	LCEH	1978		Maharashtra	21.7.78	6291		Form 'F' Not Received	4352/3330
587	Dr. Gada Prakash Damji	Damji	Saraswati Dham, 5th Floor, V.M. Marg, Gokhal Road (N) Dadar, Mumbai - 400028.	DHMS	1984		Maharashtra	18.12.84	11982		Form 'F' Not Received	4355/3333
588	Dr. Gadekar Sakharan Kisan	Kisan	A/P- Ghargoan, Tal. Sangamner, Dist. Ahamadnagar (M.S.)	GCEH	June, 1981		Maharashtra	7.8.87	15518		Form 'F' Not Received	4367/3344
589	Dr. Gadewar Dilip Udhaorao	Udhaorao	Vaishnavi Appt, Flat No. 2 (3 & 4) No, Plot No. 322, New Subhedar, Nagpur - 440024.	DHMS	Apr. 1978		Maharashtra	12.2.79	6561		Form 'F' Not Received	<u>4370/3346</u> CCH- 290
590	Dr. Gadwani Thanwar Karamchand	Karamchand	Deoli Road, Dayal Nagar Sindhi Colony, Wardha.	DHMS	Dec. 1979		Maharashtra	9.3.81	7912		Form 'F' Not Received	4385/3360
591	Dr. Gaidhane Mitaram Laxman	Laxmanrao	At.+ Po. Sangadi, Tq. Sakoli, Dist. Bhandara.	DHMS	Dec. 1979		Maharashtra	3.1.81	7763		Form 'F' Not Received	4389/3363
592	Dr. Gaikwad Bhimrao Govindrao	Govindrao	At.Post. Devlgaon-Kol, Tq. Sindkhed, Dist. Buldana, Maharashtra.	DHMS	Nov. 76		Maharashtra	22.6.77	5914		Form 'F' Not Received	4393/3367
593	Dr. Gandhi Ashok Babulal	Babulal	'Kalptaru' Bazar Peth, Rahmatpur - 415511, Satar Dist.	GCEH	Nov. 1985		Maharashtra	16.3.88	16219		Form 'F' Not Received	4458/3419
594	Dr. Gandhi Atul Dhanyakumar	Dhanya Kumar	Shree Hospital, Sangram Nagar, At./Post. Akluj, Dist. Solapur, 413101, Maharashtra.	LCEH	1983		Maharashtra	23.8.85	12891		Form 'F' Not Received	4459/3420
595	Dr. Gariba Dipti Chandulal	Chandulal	807, Himachal, Juhu Lane, Andheri (W), Mumbai.	LCEH	1985		Maharashtra	16.10.85	13118		Form 'F' Not Received	4582/3518
596	Dr. Gawande Manohar Damodar	Damodar	At.+Po. Hiwarkhed (Rup), Ta. Telhara, Dist. Akola, 444103.	DHMS	May. 1980		Maharashtra	22.4.81	8118		Form 'F' Not Received	4622/3547

597	Dr. Gemnani Indralal Takhatal	Takhatal	Rampuri-Camp, P.O. Shivaji Nagar, Amravati 444603.	DHB	1973		Maharashtra	16.8.73	4923		Form 'F' Not Received	4726/3619
598	Dr. Ghadge Narayan Uttamrao	Uttamrao	Kripa Hosp. Kamgar Nagar, Sapur, Nasik- 7.	DHMS	Nov. 1980		Maharashtra	19.5.81	8161		Form 'F' Not Received	4729/3622
599	Dr. Ghare Tanaji Laxman	Laxman	Ghare Clinic, M.G. Rd, Tal. Haveli, Urulikanchan, Pune, 412202 (Maharashtra)	LCEH	May.1979		Maharashtra	11.7.80	7372		Form 'F' Not Received	4750/3642
600	Dr. Ghodekar Ashok Murlidhar	Murlidhar	Ghodekar Mala, Jorue Rd, Near ST. Merry Church, A/P. Sangamner Dist. A. Nagar, 422605, (M.S.).	LCEH	1985		Maharashtra Karnataka	24.3.88 2.6.86	16248 3421		Form 'F' Not Received	4775/3659
601	Dr. Ghodki Siddeshwar Hari Bhau	Haribhau	At. Post.- Gummi, Taluk- Buldana, Dist. Buldana, Maharashtra.	DHB	Apr. 1972		Maharashtra	21.3.73	4852		Form 'F' Not Received	4777/3661
602	Dr. Ghorpade Shahajirao Bhaurao	Bhaurao	At.Post. Wandri, Tal. Sangameshwar, Dist. Ratangiri.	DHMS	May. 1980		Maharashtra	19.9.80	7541		Form 'F' Not Received	4789/3669
603	Dr. Ghotikar Avinash Bhanudas	Bhanudas	'Bhanu-Ratna' Clinic, At.Po.Tal. - Palus, Dist. - Sangli, Pin. - 416310.	LCEH	Dec. 1980		Maharashtra	2.7.86	14271		Form 'F' Not Received	4805/3681
604	Dr. Godhia Tribhovan Kishanchand	Kishanchand	'Darshan' Flat 7, Datta Mandir Road, Dahanukar Wadi, Kandivli (W) Mumbai - 400067.	LCEH	1963		Maharashtra	17.3.81	2850		Form 'F' Not Received	4885/3737
605	Dr. Goel Subhash Kishorilal	Kishorilal	40, Bombay-Pune- Road, Kirkee, Pune - 411003.	LCEH	May. 1983		Maharashtra	30.9.83	10515		Form 'F' Not Received	4905/3753
606	Dr. Datar Sangeeta Makarand	Vishwanathrao	Abhishek, 14, Sanewdi, ITI Road, Aundh, Pune - 411007.	LCEH	Jan. 1985		Maharashtra	29.5.85	12564		Form 'F' Not Received	4925/3771
607	Dr. Omprakash Pundlikrao Gore	Pundlikrao	Hariher-peth Waslim Road, Old City Akola - 444002.	DHB	Apr. 1974		Maharashtra	7.10.74	5296		Form 'F' Not Received	4973/3809
608	Dr. Goradia Rajni Vithaldas	Vithal Das	Laxmi Bhuvan, 9th Road, Khar, Mumbai - 400052.	LCEH	1961		Maharashtra	13.3.62	2377		Form 'F' Not Received	4975/3810
609	Dr. Gordhandas Jayesh Ratanlal	Ratanlal	10/B, Dhiraj Apts, 11 Peddar Road, Mumbai - 400026.	LCEH	1983		Maharashtra	23.11.83	10579		Form 'F' Not Received	4976/3811

610	Dr. Dubey Kamal Nath	Chote Lal Dubey	P-290 J.D. A-5, Vikas Nagar, Behind K.U. Mandi, Jabalpur - 482002 (M.P.)	DHB			Madhya Pradesh	25.8.72	5704		Notice Received Undelivered	4104/3132 CCH- 43
611	Dr. Phani Bhusan Deva Goswami		C/o Kamala Homoeo Clinic, PO.- Kaithalkuchi, Dist.- Nalbari, Pin.- 781370 (Assam)	DHMS	Jul. 1983		Assam	16.11.84	109		Removed (for Want of Authority granted State Registration & date thereof)	4997/3829

LALIT VERMA
Registrar

No. 13-32/2013-CCH/CRH-Part-II Renewal 1993—The Central Council of Homoeopathy in pursuance of regulation 9 of Homoeopathy Central Council (Registration), 1982, read with Sections 21 & 15 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), renews the Register known as Central Council of Homoeopathy (published in Gazette of India of 02.01.1993 and to read said Gazette with list of removed names notified in the Gazette of India on 09.08.2008) by restoring some names in a list being published in Gazette of India, dated May 18, 2013 and in continuation to it, some more names are being restored as being published in the Gazette of India for general information.

S. No.	Doctor's Name	Father's/husband's Name	Address a) Residential b) Professional	State in which Registered and The authority granting the State Registration	Date of registration in State Register	Registration number given in the State Register	Date and reason (s) for removal from the Central Register, if any	Remark Entries of CRH S.No. in the Principal Central Register Part B Published on 02-1-1993/ 9th August, 2008 in list of name of Practitioners removed
431	Dr. Jogesh Chandra Das		Vill.+Po. - Orange, Dist.- Udalguri (Darrang), Assam, Pin.- 784114.	Assam	10.8.78	1208	Form 'F' Not Received	4357/3640
432	Dr. Majumder Sisir Kanti	Abinash Chandra Majumder	Majumder Homoeo Clinic, Bidhanpally, P.O.- Nona Chandanpukur, Kolkata - 700122, W.B.	Haryana	7.12.77	2704	Form 'F' Not Received	13038/10966
433	Dr. Ghansham Sachdeva	Jiwan Dass Sachdeva	99-L, Model Town, Karnal - 132001, (Haryana).	Haryana	24.2.77	717	Form 'F' Not Received	22409/18358
434	Dr. Bikram Bhanot	V. B. Bhanot	R/O B-III/469, Purana Bazar, Ludhiana, Punjab.	Himachal Pradesh	15.6.85	473-B	Undelivered	2599/2149

435	Dr. Ujjager Singh	Tarsem Singh	Vill. Lohat, Po. Balachaur, Dist. SBS Nagar, (Punjab).	Punjab	24.8.77	4421	Form 'F' Not Received	26744/22167
436	Dr. Parkash Chand Mittal	G. R. Mittal	H.No. 464, Gali No. 8, Ahata Badan Singh Moga - 142001 (Punjab).	Himachal Pradesh	15.6.85	476-B	Undelivered	13480/11337
437	Dr. Jagjit Hari Mittal	G. R. Mittal	182, B Sunny Enclave Kharar, District Mohali, (Punjab), Pin. 140301.	Himachal Pradesh	31.5.85	457-B	Undelivered	13476/11335
438	Dr. S. Puran Singh	Harnam Singh	V.P.O. Lohian Main Road, Tehsil. Nakodar, Dist. Jalandhar, (Punjab).	Punjab	14/15.2.76	2435-B	Form 'F' Not Received	26803/22218
439	Dr. Singh Ranvir	Karam Singh	Opp. Bharat Flour Mills, Khushi Nagar Dalhouss Road, Pathankot, Punjab.	Punjab	5.8.77	4090-B	Form 'F' Not Received	26872/22276
440	Dr. Singh Prit Pal	Harnam Singh	H.No. 6224, Sheed Bhagat Singh Nagar, St. No. 3, Abohar - 152116.	Punjab	13.3.75	829-B	Form 'F' Not Received	26799/22214

LALIT VERMA
Registrar

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in